ईश्वर में हमारा विश्वास

राष्ट्रीय नवीन मेल

सत्यमेव जयते

रांची एवं डालटनगंज (मेदिनीनगर) से एक साथ प्रकाशित

www.rastriyanaveenmail.com • रांची • श्रावण कृष्ण पक्ष 01 • विक्रम संवत 2080 • मंगलवार, 04 जुलाई 2023 • वर्ष-24 • अंक- 151 • पृष्ठ-12 • मूल्य ₹ 2.00

'अधूरा' के सेट से वापस कमरे में आने में... पेज 12 पर

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

ॐ नमः शिवाय

राजकीय श्रावणी मेला

में सभी श्रद्धालुओं और कांवरियों का

हार्दिक अभिनंदन और जोहार

भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

PR No. 301304 (IPRD) 2023-24

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

श्रावण मास में पूरे महीने तक पूजा-अर्चना का होता है कार्यक्रम

सावन में हर दिन किया जाता है बाबा का भव्य श्रृंगार

नवीन मेल संवाददाता बेड़ो

बेड़ो प्रखंड मुख्यालय स्थित महादानी बाबा के मंदिर में श्रावण मास में पूरे महीने तक पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। महादानी मंदिर में विशेष रूप से सावन में भक्तों का मेला लगता है। यहां भक्तों द्वारा सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक किया जाता है। वहीं शाम के समय, विशेष रूप से महादानी बाबा का विशेष श्रृंगार पूजा का आयोजन किया जाता है।

मन्नतें पूरी करते हैं महादानी बाबा

महादानी बाबा का मंदिर शिव आस्था का बड़ा केंद्र है। यह मंदिर झारखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में शिवरात्रि व सावन के मौके पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तगणों का मानना है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नतें बाबा महादानी पूरा करते हैं। यहां मत्था टेकने और बाबा का आशीर्वाद पाने के बाद महादानी के दरबार से कोई निराश होकर नहीं लौटता है। हर श्रद्धालुओं का यहां तांता लगा रहता है। हर कामनाओं के लिए लोग यहां आते और अपनी कामना पूरी करते हैं।

दंतकथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। वहीं इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण कुषाणकाल के दौरान हुआ था।

पद्मश्री सिमोन उरांव से मिले सांसद प्रतिनिधि

नवीन मेल संवाददाता। बेड़ो

सांसद प्रतिनिधि राकेश भगत व धनंजय कुमार राय सोमवार को पद्मश्री सिमोन उरांव व स्वजनों से मिले और उनके स्वाथ्य की जानकारी सिमोन बाबा व स्वजनों से लिया। वहीं शिघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ज्ञात हो कि पिछले दिनों पद्मश्री सिमोन उरांव लकवा से ग्रसित होने से चलने फिरने से असमर्थ हो गए है और आवास में ही रहते है। इस मौके पर राकेश भगत ने कहा कि पद्मश्री सिमोन उरांव झारखंड ही नहीं पूरे देश के धरोहर हैं। इनके इलाज में किसी भी तरह कोई कमी नहीं आने दिया जाएगा। धनंजय कुमार राय ने कहा ऊंचे इरादे व सच्ची लगन के द्वारा सिमोन बाबा ने जल व पर्यावरण

संरक्षण के लिए अपने को न्योछावर कर दिया। प्रखंड के जामटोली गांव स्थित बाबा का डैम व उसके किनारे लगे आम के पौधे बाबा के परिश्रम की गवाही देते हैं। साथ ही जंगल बचाने की मुहिम समाज को जोड़ने व बचाने का जो सपना देखा उसे पूरा किया। उनकी प्रेरणा से ही जल जंगल के साथ समाज बचा हुआ है। उन्होंने जो काम किया है वह सभी के लिए प्रेरणादायक है।

रांची जिला राजद अध्यक्ष धर्मेंद्र महतो ने पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपा

रांची। रांची जिला राष्ट्रीय जनता दल की आवश्यक बैठक में विगत रविवार को जिला कमेटी की प्रथम चरण की घोषणा की गई और नए पदाधिकारियों का मनोनयन पत्र सौंपा गया। जिसमें अध्यक्ष धर्मेंद्र महत्व उपाध्यक्ष मुख्तार अंसारी, योगेंद्र यादव, निरंजन महतो, रामप्यारे यादव, प्रधान महासचिव राम भजन सिंह, महासचिव रमापति महतो, सज्जाद अंसारी , राम भगत, शहरी मुस्तफा अधिवक्ता सचिव उदय ठाकुर, विद्या विनोद सिंह, संजीव कुमार महतो, हरेंद्र कुमार और मनोज बंजारे को मनोनयन पत्र सौंपा गया। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश राजद के उपाध्यक्ष राजेश यादव और अनीता यादव उपस्थित थे।

राष्ट्रीय कैंप में तीन हॉकी खिलाड़ी हुई आमंत्रित

रांची। 07 जुलाई से 13 अगस्त तक साईं सेंटर बैंगलोर में आयोजित जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी रोपनी कुमारी आमंत्रित की गई है।रोपनी कुमारी सिमडेगा जिला के ठेठईटांगर प्रखंड अंतर्गत जामबहार की रहने वाली है। वह इसी वर्ष जून माह जापान में आयोजित जूनियर महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व की थी। तीन दिन पूर्व ही झारखंड के तीन खिलाड़ियों दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और काजल बड़ा को भी इस राष्ट्रीय कैंप आमंत्रित किया गया है। ये तीनो खिलाड़ी भी सिमडेगा जिला के है।

वज्रपात से नानी और नाती हुए घायल

मांडर। रविवार को शाम लगभग 4 बजे से हो रही तेज बारिश के बीच लगभग 5:30 बजे बज्रपात से नारो निवासी 61 वर्षीया लीला देवी और उनका नाती 16 वर्षीय अनूप गोप घायल हो गए। दोनों नानी नाती अलग-अलग रूम में थे। परिवार के लोगों के द्वारा घायल अवस्था में उन्हें मांडर रेफरल लाया गया जहां प्राथमिक ईलाज के बाद डॉक्टर ने बेहतर ईलाज के लिए लीला देवी को रिम्स रेफर कर दिया। वहीं दूसरी घटना शाम 5:30 बजे ही गोरे निवासी 30 वर्षीय हसीब खान अपने किराना दुकान में थे उसी दौरान वज्रपात से घायल हो गए घरवालों द्वारा उन्हें मांडर रेफरल लाया गया, डॉक्टर प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया।

टेम्पू के धक्के से युवक घायल

मांडर। मांडर, बुढ़मु मुख्य पथ पर करगे के निकट एक माल वाहक टेम्पो के धक्के से 35 वर्षीय जैनुल अंसारी घायल हो गये। जानकारी के अनुसार जैनुल अंसारी लगभग शाम छः बजे करगे में रोड क्रॉस कर रहे थे इस दौरान एक माल वाहक टेंपो के चपेट में आने से घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा उसे रेफरल अस्पताल मांडर पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर ईलाज के लिए उसे रिम्स रेफर कर दिया।

ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष बनी सुदामणि देवी

खूंटी। कर्रा प्रखंड के पड़गांव की रहनेवाली सामाजिक कार्यकर्ता सुदामणि देवी को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का खूंटी जिलाअध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यह जानकारी सोमवार को आइएचआरए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ डेविड राज ने दी। जिलाध्यक्ष मनोनीत होने पर एसोसिएशन के महासचिव तपन कुमार घोष, डॉ अनूप कुमार, डॉ पीके विश्वास, बिरसा लोहरा, रामजीत कुमार मुंडा, एवनेजर हेमरोम, विश्वनाथ गंझू आदि ने सुदामणि को बधाई दी है।

सोसई आश्रम मंदिर परिसर में मनाई गई गुरु पूर्णिमा

मांडर। मांडर के सोसई आश्रम महाबीर मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बजरंग बली एवं भगवान शिव की पूजा अर्चना के पश्चात सभी गुरुजनों का बंदन कर हवन का आयोजन किया गया है। सभी पतंजलि परिवार एवं आश्रम निवासी इस अवसर पर पूजा अर्चना के बाद हवन कार्य में शामिल होकर अपने जन्म से लेकर अबतक के पूज्य गुरुदेवो को आदर भाव से याद कर उनका नमन किए।शिक्षक भुवनेश्वर सिंह ने इस मौके पर कहा कि माता पिता के बाद परमब्रह्म परमेश्वर सहित जिन गुरुओं का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है वे सभी हमारे लिए पूज्यनीय हैं।हम सभी को जीवन के हर पल उन्हें स्मरण ,करते हुवे अपने हर कार्य का सफलता पूर्वक संचालन करना चाहिए।मौके पर भुवनेश्वर सिंह, डॉ. जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता, श्रवण उरांव, आदित्य साहू, मथुरा प्रसाद साहू सहित महिला भक्त मौजूद थे।

लापुंग प्रखंड को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित

टॉपरों को किया जायेगा सम्मानित

नवीन मेल सवाददाता। लापुंग

लापुंग प्रखंड मुख्यालय में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अध्यक्षता में प्रखंड समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रखंड और अंचल के पदाधिकारियों के अलावे, बैंकों के शाखा प्रबंधक तथा शिक्षा विभाग के कर्मी व बीआरपी सीआरपी मौके पर मौजूद थे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लापुंग प्रखंड में ग्रामीण मेधा विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 का आयोजन 13 जूलाई को किया जाएगा इस मौके पर मैट्रिक 2023 की परीक्षा में प्रखंड, पंचायत और विद्यालय टॉपरों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रखंड में प्रथम श्रेणी में पास होने वाले छात्र-छात्राओं को

भी प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। लापुंग प्रखंड के शिक्षा विभाग, प्रखंड सह अंचल तथा बैंकों के समन्वय समिति के अध्यक्ष सह पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि प्रतिभा को जब सम्मान मिलेगा तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी। हमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए मौका देना चाहिए। उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी तो बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा होगा। पढ़ने लिखने का माहौल तैयार होना चाहिए। छात्र-छात्राओं में प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बैठक का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी इमानुएल जयवीरस लकड़ा और शिक्षा विभाग की बीपीओ लीलावती तिर्की ने किया। बैठक के दौरान अंचलाधिकारी अविनाश पूर्णेन्दु, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक अखिलेश्वर महतो , झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा प्रबंधक पूर्णिमा कुमारी, विधायक प्रतिनिधि सह समाजसेवी सुदामा महली ने भी अपनी बातें रखी। बैठक के दौरान सभी विभागों को अलग-अलग जिम्मेवारी दी गई। बैठक के दौरान मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों क्रमशः बीआरपी रेशम शाहदेव, बबलु कुमार महतो, सीआरपी सुनील कुमार गुप्ता, मनोज कुमार साहु, अजीत कुमार सिंह तथा मंटु कुमार साहु ने भी संबोधित किया और कार्यक्रम की सफलता के प्रति अपना संकल्प दुहराया। इस मौके पर मो मोजिबुल्लाह सहित कई लोग मौके पर मौजूद थे।

लालचन महतो ने 12 जून को दिल्ली चलने का किया आह्वान

सिल्ली। कुरमी/कुड़मी (महतो) समन्वय समिति झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा के कोर कमिटी के निर्देशानुसार संयोजक लालचन महतो ने 12 जून दिन बुधवार को दिल्ली जाने कि घोषणा कर दिया है। दिल्ली प्रवास के क्रम में, टोटेमिक कुरमी/ कुड़मी (महतो) जनजाति को अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, जनजातीय मंत्री, सम्बंधित अन्य सभी मंत्रालयों के साथ-साथ समाज के सभी लोकसभा सांसदों, राजसभा सांसदों को साक्ष्यों के साथ आवेदन दिया जाएगा। दिल्ली जाने के लिए डाक्टर धनेश्वर मेहता,निताई चन्द्र महतो (रांची) खिरोधर महतो (बोकारो) भगिरथ महतो (रामगढ़)हिरालाल शांखवार (धनबाद) दिनेश चन्द्र महतो सोनुवा,शशीभूषण महतो मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) बिकास महतो चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम) झारखंड।सुवेन्दु माहातो, फटीकमाहातो, निबारनचन्द्र महतो बागमुन्डी (पुरुलिया) चक्रधर माहातो (बाकुड़ा) बिजय माहातो फटीक चन्द माहातो (पश्चिमी मेदनीपुर) सुनिलमल माहातो (झाड़ग्राम) बंगाल। ध्रुवचरण माहातो सुन्दरगढ़, प्रताप महन्ता क्योझर उड़ीसा को समन्वय समिति मनोनीत किया है।उक्त सभी साथियों से आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र या जिला के समाज के सांसदों से निश्चित रूप से सम्पर्क करने का प्रयास किया जाए,ताकि दिल्ली दौरा को सफल किया जा सकें।

संत माईकल +2 स्कूल के अमन व सुनील को जेईई मेंस में मिली सफलता

नवीन मेल संवाददाता। मुरी

संत माईकल +2 स्कूल के सत्र 2019 - 2020 के छात्रों ने जेईई मेंस की परीक्षा में बड़ी सफलता प्राप्त की। जिसमें सुनील गोराई ने 96.8 परसेंटाइल तथा अमन प्रजापति ने 95.5 परसेंटाइल अंक प्राप्त कर अपने स्कूल के साथ-साथ अपने इलाके का भी नाम रोशन किया। संत माईकल स्कूल के विद्यार्थियों में इस सफलता की खबर मिलते ही खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर स्कूल के निर्देशक श्री राकेश कुमार ने जेईई मेंस में सफलता प्राप्त करने वाले दोनो विद्यार्थियों को पुष्प गुच्छ देकर विद्यालय प्रागण में उनका स्वागत किया तथा मेमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया।विद्यालय के प्रबंधक डॉ. रूपेश कुमार एवम् प्रचार्य श्री. सी. एल. प्रजापति ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल

भविष्य की कामना की। इस अवसर पर दोनो छात्रो ने अपने अनुभव को स्कूल के विद्यार्थियों के बीच साझा किया एवं सभी शिक्षिकों का आशिर्वाद लेते हुए उनका धन्यवाद किया।इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण रमेश गोराई, ममता गोस्वामी, एन सी साहू, सुशील कुमार, विमल साहू, सोमांशी कुमारी, सपना दत्ता,मंजू कुमारी, मनीषा सिंह,अभिरूप दत्ता, अजय चिक बराईक, वी वेंकट राव, मिथिलेश महतो, किशोर कुमार, रीना साहु आदि ने दोनों विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।

झारखंड ने राजस्थान को 9-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची

नवीन मेल संवाददाता। रांची

3वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 में अपने दूसरे मैच में हॉकी झारखंड टीम ने हॉकी राजस्थान को 9-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में 27 जून से 07जुलाई 2023 तक राऊलकेला ,उड़ीसा में आयोजित 13 हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 में झारखंड टीम ने आज अपने तीसरे मैच में हॉकी राजस्थान को 9=0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। सोमवार के मैच झारखंड टीम की ओर निक्की कुल्लू और बिनिमां धान 02-02गोल तथा निशा मिंज,पिंकी कुमारी,बालो होरो,रजनी केरकेट्टा और प्रमोद्नी लकड़ा ने एक एक गोल की।इस मैच में झारखंड के निक्की कुल्लू को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरुस्कार देकर सम्मानित किया गया।

कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सिमडेगा

प्रवेशिकोत्तर पाठयक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडी जाति के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना।

शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर नामांकन लेने वाले छात्र–छात्राओं हेतु शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई–कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के अन्तर्गत प्रकियात्मक कार्रवाई से संबंधित अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में पूर्व से निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार तिथि विस्तारित की जाती है :–

ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा (राज्य के अन्दर)		
कम सं0	प्रकियात्मक कार्रवाई	ई–कल्याण पोर्टल पर कार्यवाही के लिए विस्तारित अंतिम तिथि
1	शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु छात्र–छात्राओं के आवेदन प्रकिया की तिथि	25.07.2023
2	संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र–छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि	02.08.2023
ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा (राज्य के बाहर)		
कम सं0	प्रकियात्मक कार्रवाई	ई–कल्याण पोर्टल पर कार्यवाही के लिए विस्तारित अंतिम तिथि
1	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई–कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि	07.07.2023
2	शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु छात्र–छात्राओं के आवेदन प्रकिया की तिथि	25.07.2023
3	संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र–छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि	02.08.2023

अन्य दिशा–निर्देश पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार Website- ekalyan.cgg.gov.in पर उपलब्ध है।

जिला कल्याण पदाधिकारी
सिमडेगा

PR 301202 Welfare (23-24)_D

पवित्र

आस्था और विश्वास का केंद्र है प्रसिद्ध घघारी बाबा धाम

पांच खंडों वाला अद्भुत है शिवलिंग

नवीन मेल संवाददाता। लापुंग

लापुंग प्रखंड के देवगांव पंचायत अंतर्गत प्रसिद्ध घघारी बाबा धाम में श्रावणी मेला का विशेष महत्व है। सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालु यहां के पवित्र नदी से जल उठा कर बाबा भोलेनाथ को अभिषेक करना नहीं भूलते। साल के घने जंगलों से घिरे प्रकृति के बीच जमुनी नदी के तट पर घघारी जलप्रपात से सटे लापुंग प्रखंड का प्रसिद्ध घघारी बाबा धाम में आने वाला कोई भी भक्त कभी खाली नहीं लौटता। सच्ची भावना और निर्मल हृदय के साथ यदि घघारी बाबा से कोई भी भक्त कुछ भी मांग ले तो उसकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। अत्यंत प्राचीन मान्यता के अनुसार यहां के शिवलिंग का स्वरूप अद्भुत है। बताया जाता है कि पांच अलग-अलग खंडों में बटे अपने आप में अद्भुत शिवलिंग के तीन खंडों को अभी भी देखा जा सकता है। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार शिवलिंग के दो खंड कालांतर में भूमि के अंदर समां गए हैं । स्थानीय लोगों के अनुसार यहां के शिवलिंग में सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालु पूजा अर्चना करते आए हैं। सावन का महीना घघारी बाबा धाम के लिए बहुत ही खास होता है।सैकडो.बरसों से श्रद्धालु यहां आकर पवित्र स्नान कर प्रतिदिन घघारी बाबा धाम में बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करते आ रहे हैं। लेकिन जमुनी नदी के तट पर घने जंगलों के बीच 1956

शिवलिंग में सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालु पूजा अर्चना करते आए हैं। सावन का महीना घघारी बाबा धाम के लिए बहुत ही खास होता है

में तत्कालीन रांची के उपायुक्त भुनेश्वर प्रसाद सिंह घघारी धाम पहुंचे थे। उनके प्रयास से ही यहां मकर संक्रांति उत्सव 14 जनवरी को मनाया जाने लगा। तब ककरिया के बृजलाल पाठक, समाजसेवी राजेंद्र राम, बिरदा गांव के जगरनाथ सिंह, चंपाडीह के बड़ाईक गोविंद सिंह, देवगांव के लक्ष्मीनाथ शेखर सिंह, घघारी के दाले उरांव, खंभा भगत समेत कई लोग (अब सभी लोग स्वर्गीय) ने मिलकर यहां आस-पास कई घनी झाड़ियों को साफ करवाया। उसी समय लोगों ने यहां तत्कालीन उपायुक्त के प्रयास के बाद पहली बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए आज से 65 वर्ष पूर्व मकर संक्रांति मेला का शुभारंभ किया। घघारी बाबा धाम के निकट ऐतिहासिक मुनी डेरा के गुफा में साधू सन्यासियों का तांता लगा रहता था, जिसे समय के साथ और व्यवस्थित कर दिया गया है। मान्यता है कि यहां निकट के राम जंगल में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के समय यहां जरूर आए थे और उनका प्रवास भी हुआ था । हालांकि यह शोध का विषय है । 1970 के बाद ककरिया के प्रमुख विशेश्वर सिंह, जमनी गांव के समाजसेवी तिलक सिंह (अब स्वर्गीय) तथा ककरिया के रामखेलावन पाठक ने घघारी बाबा धाम में बागडोर संभाली । बाद में ककरिया के मुखिया गंगाधर साहु, देवगांव के राजधन शेखर सिंह, सेवक सिंह, कलेश्वर शेखर सिंह, बिरदा के शंकर सिंह, नावाटोली के भुवन महतो, बिंदेश्वर सिंह (इनमें से कई लोग अब स्वर्गीय) समेत कई लोगों के प्रयासों के बाद मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। हालांकि आर्थिक कठिनाई के कारण मंदिर निर्माण की प्रक्रिया काफी धीमी रही।

आम्रेश्वर धाम में मंगलवार से शुरू होगा श्रावणी मेला

खूंटी। छोटानागपुर के मिनी बाबा धाम के रूप में विख्यात बाबा आम्रेश्वर धाम में दो महीने का श्रावणी मेला मंगलवार चार जुलाई से शुरू हो जाएगा। जिले के उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार सुबह 11 बजे श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। दो महीने का सावन महीना होने के कारण इस बार भक्तों की भारी भीड़ आम्रेश्वर धाम में उमड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन और बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रबंध समिति के महामंत्री मनोज कुमार और वयोवृद्ध सदस्य मुनीनाथ मिश्रा ने कहा कि बाबा आम्रेश्वर धाम प्रबंध समिति द्वारा भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बनई नदी, जहां से भक्त जल लेकर बाबा के धाम पहुंचते हैं, वहा से मंदिर परिसर तक विद्युत व्यवस्था की गई है। साथ ही नदी के पास अस्थायी शौचालय, चेंजिंग रूम आदि की व्यवस्था की गई है। बताया कि श्रावण महीने की शुरूआत चार जुलाई को होगी और इसका समापन शुद्ध सावन की पूर्णिमा 31 अगस्त को होगा।

कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग

सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 अन्तर्गत इच्छुक आवेदकों/आवेदिकाओं को सूचित किया जाता है कि जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) संचालित किया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवक एवं युवतियों को जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है उन्हें प्रस्तावित विनिर्माण/सेवा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु रू0 50.00 लाख/20.00 लाख की परियोजना राशि पर वित्तीय अनुदान का प्रावधान निर्दिश्ट है :–

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अन्तर्गत आवेदकों की श्रेणी	आवेदक द्वारा अंशदान	वित्तीय अनुदान की दर (परियोजना लागत में)	
		शहरी	ग्रामीण
सामान्य	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से विकलांग) आदि	05%	25%	35%

आवेदन देने हेतु पात्रता

(1) शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम आठवाँ पास
(2) पासपोर्ट साईज फोटो
(3) आधार कार्ड **(Updated)**
(4) जाति प्रमाण–पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत
(5) योजना से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन
(6) ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुखिया द्वारा निर्गत ग्रामीण प्रमाण–पत्र

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से संबंधित सभी आवेदन–पत्र www.kviconline.gov.in/pmegpe portal द्वारा ऑनलाइन किये जाने का प्रावधान है।

उक्त योजनाओं से संबंधित आवेदनों की जाँच एवं तदोपरान्त बैंक शाखाओं को अग्रसारित करने के लिए सभी कार्यों का निश्पादन जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग से किया जाता है। साथ ही योजनाओं की विस्तृत जानकारी जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग से प्राप्त की जा सकती है एवं किसी भी समस्या/सुझाव हेतु आवेदक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करें।

आदेशानुसार
महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग।

PR.NO.301215 Industries(23-24):D

ईश्वर में हमारा विश्वास

राष्ट्रीय नवीन मेल

सत्यमेव जयते

रांची एवं डालटनगंज (मेदिनीनगर) से एक साथ प्रकाशित

www.rastriyanaveenmail.com • रांची • श्रावण कृष्ण पक्ष 01 • विक्रम संवत 2080 • मंगलवार, 04 जुलाई 2023 • वर्ष-24 • अंक- 151 • पृष्ठ-12 • मूल्य ₹ 2.00

'अधूरा' के सेट से वापस कमरे में आने में... पेज 12 पर

11वें मंत्री के रुप में बेबी देवी ने ली मंत्री पद की शपथ

नवीन मेल संवाददाता। रांची

बेबी देवी ने हेमंत सरकार के 11वें मंत्री के रुप में शपथ लिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन पहुंचने से पहले बेबी देवी ने झामुमो प्रमुख गुरुजी शिबू सोरेन से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के असामयिक निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाने का फैसला शनिवार को लिया। जिसके बाद आज राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। मंत्री बनने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेबी देवी को बधाई दी।



वहीं, राजभवन में आयोजित शपथग्रहण समारोह में मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल नहीं हुए। हालांकि वो राजभवन पहुंचे थे, लेकिन नाराज होकर राजभवन गेट से ही वापस लौट गए। राजभवन की कार्यशैली से नाराज होकर वो लौटे। लौटने के दौरान उन्होंने जमकर भड़ास निकाली।

बता दें कि बेबी देवी हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली दूसरी महिला हैं। उनके अलावा जोबा मांझी हेमंत कैबिनेट में पहले से शामिल हैं। बेबी देवी को मंत्री बनाए जाने से उनके समर्थक के साथ-साथ उनके क्षेत्र की जनता काफी खुश है। सभी ने उन्हें बधाई दी है।

शपथ ग्रहण समारोह में इंट्री नहीं मिलने से नाराज हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर

दिवंगत जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने सोमवार को झारखंड सरकार में 11वें मंत्री के रूप में शपथ ली। बेबी देवी को राजभवन के दरबार हॉल में सोमवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री, झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन सहित कई नेता और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह में झामुमो के कई मंत्रियों व नेताओं को इंट्री नहीं मिलने से वे नाराज हैं। झारखंड सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और पर्यटन, खेल-कूद, कला-संस्कृति व युवा कार्य विभाग मंत्री हफीजुल हसन नाराज होकर राजभवन के गेट से लौट गये। बताया गया कि वहां उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजभवन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गयी, जिससे नाराज होकर वे लौट गये।

सीएम ने गुरु पूर्णिमा पर राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को गुरु पूर्णिमा पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने अपने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के चरण स्पर्श किया और कहा कि मेरे गुरु, मार्गदर्शक मेरे बाबा हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने ट्वीट किया, "मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय बाबा 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन जी। सोमवार को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार।"

NEWS इन ब्रीफ

आज राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई

रांची। रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को हाजिर होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की लिस्ट में राहुल गांधी का मामला मंगलवार को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में सूचीबद्ध किया गया है। रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में भी मंगलवार को ही सुनवाई है।

शैलेंद्र प्रसाद को बनाया साहिबगंज का समादेष्टा

रांची। आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल के तबादले के डेढ़ साल से अधिक बीतने के बाद उनका मूवमेंट आर्डर पुलिस मुख्यालय ने निकाला। 2010 के बैच के आईपीएस अधिकारी 20 अक्तूबर 2021 को गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर जैप 9 साहिबगंज का समादेष्टा बनाया था। लेकिन अगले दिन पुलिस मुख्यालय से जारी मूवमेंट आर्डर में शैलेंद्र कुमार वर्णवाल का नाम शामिल नहीं था। ऐसे में वह जैप 9 में योगदान नहीं दे पाए थे। उन्हें पुलिस मुख्यालय में एसटीएफ में भी पदस्थापित रखा था।

वज्रपात की चपेट में आने से दो की मौत

लातेहार। बालूमाथ थाना क्षेत्र में सोमवार को दो अलग-अलग स्थानों पर वज्रपात की घटना हुई। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के हेमपुर गांव में घटी ,जहां वज्रपात से हृदय गंझू (50) की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जबकि महेश गंझू गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा जांच के बाद हृदय गंझू को मृत घोषित कर दिया।

विपक्ष दलों की दूसरी बैठक 17-18 को

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि विपक्षी दलों की दूसरी बैठक 20 जुलाई को शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से दो दिन पहले 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। एक ट्वीट में, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, पटना में बेहद सफल सर्व-विपक्ष बैठक के बाद, हम अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में करेंगे।

टेरर फंडिग मामले में सुदेश केडिया की डिस्चार्ज अर्जी खारिज

रांची। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने सोमवार को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में आरोपित सुदेश केडिया की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा कि याचिकाकर्ता सुदेश एसके कॉनकास्ट एंड मिनरल्स कंपनी का संचालक है।

सीएम ने ग्रिड सब-स्टेशन व संचरण लाईन का किया उद्घाटन, कहा

निर्बाध और क्वालिटी बिजली आपूर्ति लक्ष्य

नवीन मेल संवाददाता। रांची

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन सोमवार को 132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन जरमुंडी एवं 132 केवी द्विपथ लिलो संचरण लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य के एक-एक उपभोक्ता परिवार तक निर्बाध एवं गुणात्मक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में हमारी सरकार कृतसंकल्प है।

सीएम ने कहा कि आज 132/33 केवी (2x50 एमवीए) ग्रिड सब-स्टेशन जरमुण्डी एवं संबंधित द्विपथ लिलो संचरण लाइन का ऊर्जान्वयन किया जा रहा है। इस ग्रिड सब-स्टेशन का उद्घाटन होने से दुमका एवं देवघर जिले के विभिन्न क्षेत्र जैसे बासुकीनाथ तीर्थ स्थल, तालझारी, घोरमारा, जरमुंडी, सोनारायथाड़ी आदि में बिजली की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी। आने वाले समय में यह ग्रिड सब-स्टेशन अलग-अलग ग्रिडों से भी जुड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आज सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को निर्बाध एवं गुणात्मक बिजली पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री सोरेने ने कहा कि दुमका एवं देवघर जिला में बिजली में जो कमी आ रही थी, अब वहां निर्बाध बिजली सप्लाई की जा सकेगी। अब 80 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने से बासुकीनाथ तीर्थ स्थल, तालझारी, घोरमारा, जरमुण्डी, सोनारायथाड़ी आदि क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी। इन क्षेत्रों के लाखों लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे एवं बिजली के वर्तमान लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिल जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज काफी शुभ दिन है। देवघर एवं दुमका जिले में बाबा बासुकीनाथ एवं श्रावणी मेला के शुभारंभ के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण समय में यहां पावर ग्रिड सब-स्टेशन का भी शुभारंभ हो रहा है।

उपभोक्ता परिवारों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही सरकार

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार बेहतर बिजली आपूर्ति के साथ-साथ वैसे उपभोक्ता परिवार जिनकी मासिक खपत एक सौ यूनिट से कम है उन्हें मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है। सीएम ने कहा कि सरकार ने बकाए बिजली बिल पर भी राहत देने का कार्य किया है। बिजली बिल बकायेदार परिवारों को किस्तों में धीरे-धीरे बिजली बिल के पैसे चुकाने का भी प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। सीएम ने उद्घाटन समारोह स्थल पर उपस्थित लोगों से अपील की कि बेहतर एवं गुणात्मक बिजली सेवा बहाल करने में जनभागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बिजली के क्षेत्र में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कर रही कार्य

इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि दुमका एवं देवघर जिला के लिए आज विशेष दिन है। जरमुंडी के तालझारी में 132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन जरमुंडी एवं 132 केवी द्विपथ लिलो संचरण लाइन का उद्घाटन होना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में निरंतर ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है। अब इन क्षेत्रों में उपभोक्ता परिवारों को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी।

ईडी ने दिनेश गोप से शेल कंपनियों पर की पूछताछ

नवीन मेल संवाददाता। रांची

रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ईडी ने दिन भर पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से पूछताछ की। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम दिन के 11 बजे रांची केंद्रीय कारा पहुंची थी। जहां अधिकारियों ने शेल कंपनियों व लेवी की राशि के निवेश के पहलुओं पर दिन भर पूछताछ की। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी एनआईए भी दिनेश गोप से लंबी पूछताछ कर चुकी है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार को भी ईडी रांची जेल में दूसरे दिन की पूछताछ करेगी।

सहयोगियों के जरिए पैसे निवेश की बात कबूली : पीएमएलए के तहत दर्ज बयान में दिनेश गोप ने स्वीकार किया है कि उनसे लेवी की राशि का निवेश अपनी दोनों पत्नियों व सहयोगियों के जरिए किया। सुमंत कुमार के डायरेक्टरशिप में बनी कंपनी में भी निवेश की बात दिनेश गोप ने स्वीकार किया है। वहीं बेड़ो में नोटबंदी के दौरान पुराने नोट को बैंक में जमा कराने के लिए पेट्रोल पंप मालिक के इस्तेमाल की बात दिनेश गोप ने स्वीकारी है।

हथियार के नाम पर धुर्वा के युवक ने ठगे आठ करोड़ : दिनेश गोप ने संगठन को मजबूत करने के लिए धुर्वा के युवक निवेश कुमार को अलग अलग तारीखों में कुल आठ करोड़ रुपये का भुगतान किया था। ईडी के समक्ष दिनेश गोप ने यह कबूल किया है। अत्याधुनिक हथियार की डील के नाम पर युवक ने पैसे ठगे थे।

छवि रंजन की बेल याचिका पर ईडी से जवाब तलब

नवीन मेल संवाददाता। रांची

जमीन घोटाले के मामले में आरोपित रांची के पूर्व डीसी निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत में 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

रांची के बरियातू सहित अन्य जमीन घोटाले के मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस केस में बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि रांची में अवैध तरीके से जमीन की बड़े पैमाने पर हुई खरीद-फरोख्त के मामले में ईडी ने बीते 13 अप्रैल को झारखंड, बंगाल और बिहार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में ईडी द्वारा रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित दस लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

लैंड फॉर जॉब स्कैम : सीबीआई ने लालू परिवार के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

एजेंसी। नई दिल्ली

जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सोमवार सीबीआई ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इससे पहले आठ जून को हुई सुनवाई के दौरान उइक ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए चार्जशीट दाखिल करने का समय दे दिया था। सीबीआई ने दिए गए समय से नौ दिन पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि अभी इस मामले में जांच चल रही है। साथ ही चार्जशीट में कुछ नए तथ्यों को शामिल करना है। लिहाजा थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। बता दें, पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को मामले में तेजी लाने का निर्देश देते हुए सुनवाई एक जून तक के लिए स्थगित कर दी थी।

मामले में जमानत पर हैं लालू, राबड़ी और मीसा: लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, राबड़ी और मीसा भारती को कोर्ट ने 15 मार्च को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके पहले छह मार्च को सीबीआई की टीम ने लालू यादव के पटना अवास पर राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 10 मार्च को मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी की थी। ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 24 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी में ईडी ने एक करोड़ रुपये नकद, डेढ़ किलो से ज्यादा के सोने के आभूषण, 540 ग्राम सोना, अमेरिकी डॉलर समेत कई चीजें बरामद की थीं।

सावन में शिवभक्तों के स्वागत को तैयार 'बाबा नगरी' देवघर

अरघा सिस्टम से श्रद्धालु कर सकेंगे जलाभिषेक

नवीन मेल संवाददाता। देवघर

झारखंड का देवघर सावन में शिवभक्तों के स्वागत के लिए सजधज कर तैयार है। बाबा बैद्यनाथधाम के नाम से प्रसिद्ध यहां का शिव मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग में सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। सावन महीने में प्रतिदिन करीब एक लाख शिवभक्त मनोकामना शिवलिंग पर जलार्पण करते हैं। सोमवार को आने वाले शिवभक्तों की संख्या और बढ़ जाती है। देवघर जिला प्रशासन का दावा है कि झारखंड राज्य के प्रवेश द्वार दुम्मा से लेकर बाबाधाम में पड़ने वाले पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। झारखंड-बिहार की सीमा स्थित दुम्मा में राजकीय श्रावणी मेले का उद्घाटन सोमवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया गया।

देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 4 जुलाई से प्रारंभ होने वाले सावन महीने में अधिक भीड़ जुटने के मदेनजर बाबा पर जलार्पण के लिए अरघा सिस्टम से श्रद्धालु जलाभिषेक कर सकेंगे। स्पर्श पूजा बंद रहेगी। इस साल 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। जिस कारण श्रावणी मेला 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। इस साल सारी व्यवस्था दो महीने के लिए की गई है। आने वाले कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है।

उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को रात में भी चलने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए रोशनी की व्यवस्था की गई है। दुम्मा से खिजुरिया तक आठ किलोमीटर के कांवड़िया पथ पर पहली बार गंगा की मिट्टी बिछायी गयी है। कांवड़िया पथ पर 10 हजार क्षमता वाले आध्यात्मिक भवन में शिवभक्तों को सस्ते दर पर भोजन की व्यवस्था कराई गई है। कांवड़ियों की कतार लगाने को लेकर रूट लाइन में वाटर प्रूफ पंडाल लगाये गये हैं। प्रशासन ने मेले में भक्तों की सुविधा बढ़ाने व भीड़ नियंत्रण के लिए कई नयी व्यवस्थाएं की हैं, इसमें पहली बार डिजिटल मिस्ट कूलिंग सिस्टम, शीघ्र-दर्शनम कतार व व्यवस्था में बदलाव शामिल हैं।

पहली बार टू-वे ऑडियो कैमरा सिस्टम लगाया गया है। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी, जब कोई कॉमन सूचना देना चाहेंगे, तो वह कंट्रोल रूम से संभव होगा। पूरे मेला क्षेत्र में कड़ी- सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 726 पुलिस पदाधिकारी सहित मेला में 8700 पुलिस कर्मी तैनात किये गये हैं। कांवड़ियों को चिकित्सकीय सुविधा के लिए भी व्यवस्था की गई है।

उल्लेखनीय है कि देवघर के बैद्यनाथधाम में वर्षभर शिवभक्तों की भीड़ लगी रहती है। सावन महीने में पूरा क्षेत्र केसरिया पहने शिवभक्तों से पट जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त 105 किलोमीटर दूर बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में बह रही उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर कांवड़ लिए पैदल यात्रा करते हुए यहां आते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। इस लंबी दूरी में कांवड़ियों के लिए कई पड़ाव हैं। इन पड़ाव स्थलों पर कांवड़ियों के विश्राम के लिए विभिन्न सुविधाओं से युक्त सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं की ओर से धर्मशालाएं व पंडाल लगाए गए हैं। कई श्रद्धालु वाहनों द्वारा भी सीधे बाबा नगरिया आकर जलाभिषेक करते हैं।

माओवादियों की साजिश को पुलिस ने किया विफल

नवीन मेल संवाददाता। पलामू

नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की साजिश को विफल कर दिया है। जिले के छतरपुर के देवगन होते पिपरा जाने वाली सड़क से पुलिस ने तीन केजी का बारूदी सुरंग बरामद किया है। बारूदी सुरंग को विस्फोट करने के लिए कोडेक्स वायर से जोड़कर रखा गया था। नक्सल विरोधी अभियान पर निकले पुलिस जवानों को देवगन से आगे नहर से मुड़ने वाली सड़क के नीचे बारूदी सुरंग नजर आया। पुलिस ने तत्काल इलाके को घेर लिया और इसकी जानकारी जगुआर की टीम को दी। रांची से जगुआर के बीडीएस-बम निरोधक दस्ता को इस बारूदी सुरंग को नष्ट करने के लिए बुलाया गया है। एएसपी अभियान ऋषभ गर्ग ने सोमवार को बताया कि छतरपुर के देवगन से होते हुए पुलिस टीम पिपरा इलाके में माओवादियों के खिलाफ सर्च अभियान पर निकली थी। इसी क्रम में देवगन से आगे नहर से मुड़ने वाली सड़क के नीचे बारूदी सुरंग नजर आया। तत्काल इलाके को घेरकर जवानों के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। रांची से जगुआर बीडीएस टीम के आने के बाद बम को डिफ्यूज किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस माओवादियों के खिलाफ इन दिनों सर्च अभियान चला रही है। संभावना है कि पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उपरोक्त जगह पर बारूदी सुरंग लगाया गया होगा। हालांकि समय रहते माओवादियों के खतरनाक मंसूबे को विफल किया गया।

NEWS इन ब्रीफ

बुजुर्ग दंपती की धारदार हथियार से मारकर हत्या

चाईबासा। जिले के नक्सल प्रभावित कराईकेला थाना क्षेत्र के जोमरो आदिवासी टोला में बुजुर्ग दंपती की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई. अज्ञात अपराधियों ने रविवार की देर रात इस घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने घर में सो रहे सकारी दिग्गी और उनकी पत्नी बदेगी दिग्गी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी. वहीं सोमवार को घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुटी हुई है. सोमवार की सुबह ग्राम प्रधान ने घटना की जानकारी पुलिस को दी जिसके पास पुलिस मामले की जांच कर रही है. हालांकि दंपति की हत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आ पायी है. इस मामले को लेकर आशंका जताई जा रही है कि आपसी विवाद या फिर डायन बिसाही के मामले को लेकर बुजुर्ग दंपती की हत्या की गई है.

मनोहरपुर : सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मनाई गई गुरु पूर्णिमा

चाईबासा। गुरू पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सोमवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मनोहरपुर में गुरूपूजन सह गुरुसम्मान का आयोजन किया गया. ऋषि गुरु वेदव्यास जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर विद्यालय के शिक्षक एवं बच्चों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया. साथ ही स्कूली बच्चों के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा का अनुपालन करते हुए गुरुजनों की पैर पूजन किया गया तथा सम्मान में उन्हें उपहार दिया गया. मौके पर विद्यालय के प्राचार्य रवींद्र सिंह ने बच्चों को पढ़ाई के साथ धर्म संस्कृति, सुसंस्कारित व चरित्रवान बनने का आशीर्वाद दिया. मौके पर विद्यालय के कार्यालय प्रमुख वेदव्यास महतो, आचार्य नीतिश कुमार महतो, अजीत महतो, कालीपद महतो, श्याम भूषण पाठक, अनिता महतो, सुश्री सीमा यादव, नेहा केशरी, अंजुश्री गुप्ता, सोमा महतो, सुश्री ऊमा कुमारी महतो, बसन्त महतो, दीपक मुदी, पूर्णचन्द्र महतो, जयप्रकाश महतो, हीरालाल महतो एवं विद्यालय के सभी भैया,बहनें उपस्थित थे.

बिरसानगर में महिला से चेन की छिनतई

जमशेदपुर। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना अंतर्गत आस्था ट्वीन सिटी निवासी उर्मिला देवी से बाइक सवार बदमाशों ने चेन की छिनतई कर ली. घटना सोमवार सुबह 6 बजे की है. घटना के वक्त उर्मिला देवी टहलने के लिए निकली थी तभी बाइक से आए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए. इधर, घटना के बाद उर्मिला ने परिजनों को बताया. मामले को लेकर बिरसानगर थाना में लिखित शिकायत की गई है. शिकायत मिलते ही पुलिस रेस हुई और आस-पास के लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने लगी. उर्मिला टाटा मोटर्स के डीजीएम नीरज वर्मा की मां है. उर्मिला ने बताया कि वह हर दिन की तरह सोमवार सुबह टहलने के लिए निकली थी. वापस लौटने के क्रम में एक बाइक पर सवार दो युवक आए और पीछे से झपट्टा मारकर चेन छिनकर फरार हो गए.

धनबाद : लाखों की लागत से बना बर्न वार्ड खंडहर में तब्दील

नवीन मेल संवाददाता

धनबाद। जिले के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बगल में बना नया बर्न यूनिट दो विभागों की आपसी खींचतान की भेंट चढ़ गया है. लाखों रुपए की लागत से बना भवन खंडहर में तब्दील हो गया है. अब यहां असामाजिक तत्वों का अड्डा रहता है. बर्न यूनिट के बने लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन एसएनएमएमसीएच प्रबंधन ने अब तक इसे हैंड ओवर नहीं लिया है. फिलहाल धनबाद सहित आसपास के जिले से गंभीर रूप से जलने वाले मरीजों को पुराने बर्न वार्ड में रख कर ही इलाज किया जाता है. पुराना वार्ड बिल्डिंग के बेसमेंट में स्थित है जहां गंदगी व दुर्गंध का अंबार है. इससे संक्रमण का खतरा है. बर्न वार्ड का निर्माण भवन प्रमंडल विभाग ने वर्ष 2018 में लगभग 40 लाख रुपए की लागत से किया था. लेकिन भवन प्रमंडल विभाग के द्वारा निर्माण में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है, इस कारण 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी एसएनएमएमसीएच प्रबंधन ने भवन को अब तक हैंड ओवर नहीं लिया है. भवन का निर्माण हुए लगभग 5 वर्ष बीत जाने और अस्पताल प्रबंधन द्वारा हैंड ओवर नहीं लिए जाने से बर्न यूनिट पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया है. भवन में लगी तमाम खिड़कियों के कांच टूट चुके हैं तो कई खिड़कियां चौखट समेत गायब हैं. भवन के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है. भीतर रखे गए जेनरेटर के 90% मोटर पार्ट्स गायब हो चुके हैं. छत का प्लास्टर गिर रहा है. यही नहीं यहां आवारा पशुओं के साथ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है.

मुख्यालय से किया गया है पत्राचार : अधीक्षक

मामले में अस्पताल के अधीक्षक डॉ अरुण कुमार वर्णवाल ने बताया कि बर्न यूनिट के निर्माण में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया. फिलहाल इसकी जानकारी पत्राचार के माध्यम से मुख्यालय को दी जा चुकी है. अब मुख्यालय के निर्देश के बाद ही यूनिट को खोला जाएगा.

दो पक्षों में मारपीट की घटना के बाद हरमू बाजार में माहौल शांतिपूर्ण

हरमू बाजार में खुली सारी दुकानें

नवीन मेल संवाददाता

रांची। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू बाजार में शनिवार(एक जुलाई) की रात दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी. जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था. इस घटना के बाद सोमवार को हरमू बाजार का माहौल शांतिपूर्ण है और हर दिन की तरह बाजार की सारी दुकानें खुली रही. वहीं लोग भी अपनी जरूरत का समान खरीदते नजर आए. गौरतलब है कि मारपीट की घटना को लेकर स्थानीय दुकानदार व स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए थे और घटना के विरोध में रविवार को हरमू बाजार बंद रखा गया था.

क्या है पूरा मामला

यह घटना बीते एक जुलाई की रात 08:15 बजे की है. हरमू बाजार में आशीष स्टूडियो के संचालक आशीष कुमार अपने स्टूडियो में काम कर रहे थे. उसी दौरान एक लाल रंग की स्कूटी पर सवार युवक ने दुकान के बाहर खड़ी उनकी बाइक को धक्का मार दिया. इस घटना के बाद आशीष ने स्कूटी सवार युवक से बाइक के नुकसान को लेकर हजार्ना मांगा, तो उसने फोन करके लाठी-डंडे से लैस 10 से 15 की संख्या में युवकों को बुला लिया. वहीं मौके पर पहुंचे युवकों के साथ आशीष के साथ मारपीट की. आशीष को बचाने में धारदार हथियार के हमले से बलराम ओझा को सिर में चोट आयी, जिससे उनके सिर पर छह टांके लगे हैं. आशीष का आरोप है कि उनके साथ मारपीट करनेवाले सभी युवक अरगोड़ा थाना क्षेत्र के भट्ठा मुहल्ला के रहनेवाले थे.

थाना का किया घेराव

मारपीट की घटना के बाहर रात के 9:15 बजे स्टूडियो संचालक आशीष कुमार समेत हरमू बाजार के कई अन्य दुकानदार घटना के विरोध में अरगोड़ा थाना का घेराव किया. जिसके बाद मारपीट की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ अपराध के 11:00 बजे मामला दर्ज कराया गया. इस दौरान दूसरे पक्ष के द्वारा भी मामला दर्ज कराया गया.

कैसे हुआ समझौता

पुलिस ने पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें साफ देखा जा रहा था कि एक बच्ची को बचाने के चक्कर में स्कूटी सवार युवक ने खड़ी बाइक पर टक्कर मार दी थी. जिसके बाद विवाद शुरू हो गया था. हकीकत सामने आने के बाद दोनों पक्ष ने रविवार की शाम को लिखित आवेदन देते हुए मामला खत्म किया. दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया. दोनों पक्षों की ओर से शांति व्यवस्था बनाये रखने पर सहमति जतायी गयी. एसएसपी ने हरमू बाजार के व्यवसायियों के साथ अलग से बैठक की. एसएसपी ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया. साथ ही आशीष कुमार, बलराम ओझा के साथ मारपीट करनेवाले पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है.

हाइवा एसो. संयुक्त मोर्चा का आंदोलन जारी

नवीन मेल संवाददाता

धनबाद। एमपीएल की कोयला व छाई ढुलाई में 20 प्रतिशत भाड़ा बढ़ोतरी की मांग को लेकर हाइवा एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन आंदोलन सोमवार 3 जुलाई को तीसरे दिन भी जारी रहा. आंदोलन का ट्रांसपोर्टिंग पर व्यापक असर पड़ा है. तीसरे दिन भी सड़क सुनसान रही. हालांकि एमपीएल प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं हुई है. इधर आंदोलनकारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. बताते चलें कि संयुक्त हाइवा एसोसिएशन ने पहले भी भाड़ा बढ़ोतरी की मांग करते हुए 1 जुलाई से कोयला व छाई ढुलाई में लगे हाईवा को बंद करने की चेतावनी दे दी थी. एमपीएल प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं हुई तो शनिवार 1 जुलाई से परिचालन ठप कर दिया. हाडिया जाम हनुमान मंदिर के समीप सभी धरना पर बैठ गए. आंदोलन का नेतृत्व निरसा हाइवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति के अध्यक्ष उज्ज्वल तिवारी, सचिव श्रीकांत पांडे, संरक्षक संजय सिंह, स्थानीय हाइवा एसोसिएशन के अध्यक्ष लालू ओझा, सचिव मनजीत सिंह, अमल मिश्रा, आम हाइवा ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि अग्रवाल, सचिव प्रवीण तिवारी व मनु सिंह कर रहे हैं. आंदोलन स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एमपीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली. कहा कि कहा कि 13 साल से हाइवा कंपनी की छाई व कोयला की ढुलाई कर रहा है. परंतु भाड़ा एक प्रतिशत भी नहीं बढ़ाया गया. धनबाद के एसडीएम की मौजूदगी में निर्णय हुआ था कि प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत भाड़ा बढ़ोतरी होगी, जो नहीं हुआ.

धनबाद में 12 सेंटरों पर 35 व्यावसायिक कोर्सेस की होगी ऑनलाइन पढ़ाई

धनबाद। युवाओ में ऑनलाइन शिक्षा के प्रति रुझान को देखते धनबाद जिले के प्रज्ञा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर) में 35 व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है. इसके लिए जिले में 12 स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर का चयन किया जा चुका है. जल्द ही डीसी के साथ बैठक में एमओयू कर पढ़ाई शुरू की जाएगी. यह जानकारी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अंजर हुसैन ने सोमवार 1 जुलाई को दी. उन्होंने बताया की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जीएसटी ,ऑप्टिकल फाइबर, डिजिटल वैलनेस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, मोबाइल रिपेयरिंग, टैली, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि शामिल हैं. डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अंजर हुसैन ने बताया कि सीएससी सेंटर केंद्र सरकार के आईटी विभाग की देख-रेख में संचालित होता है. यहां पढ़ाई से लेकर सर्टिफिकेट देने तक का काम ऑनलाइन ही होता है. सीएससी में 35 रुपया से 2500 रुपया तक के कोर्स अभी उपलब्ध हैं. ये कोर्स 3 से 12 महीने में पूरा कराए जाते हैं. जिले के सभी हाई स्कूल और कॉलेजों में इसकी व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी है. इसके जरिए कम खर्च में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है.

अतिक्रमण के चंगुल में फंसा चास का कृषि बाजार प्रांगण

नवीन मेल संवाददाता

बोकारो। कृषि उत्पादन बाजार समिति चास-बोकारो के दुकानदारों ने बरामदे व दुकान के आगे वाली जमीन को कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है. दुकानों की आगेवाली जमीन को ईंट की चहारदीवारी देकर कब्जा कर कर लेने से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है. इससे लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है साथ ही सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है. यह किसी एक दुकानदार ने नहीं किया है, बल्कि बाजार के अधिकतर दुकानदार अपनी दुकान की सीमा से बाहर भी सामान रखते हैं. इस अतिक्रमण से बाजार समिति में माल खरीदने आने वाले बाहरी व्यापारियों को भी परेशानी होती है. यदि व्यापारियों को एक दुकान से दूसरी दुकान जाना होता है, तो उन्हें सड़क की ओर से घूमना पड़ता है. बताते चलें कि बाजार समिति के दुकान के आगे बरामदा दिया गया है ताकि लोगों वहां रुके कर सामान खरीद सकें या खरीदा गया सामान रख सकें. लेकिन दुकानदारों ने इस जमीन पर ईंट की दीवार देकर अतिक्रमण कर लिया है. लोगों का कहना है कि यहां के दुकानदारों की मनमानी से काफी दिक्कत होती है. कृषि बाजार समिति के सचिव कार्यालय में बहुत कम बैठते हैं. अतिक्रमण की शिकायत करने कार्यालय पहुंचते हैं, तो कार्यालय में सचिव साहब नहीं रहते हैं. साहब कब मिलेंगे, गार्ड भी इसका जवाब नहीं दे पाता है. अतिक्रमण से संबंधित पूछे जाने पर चास- बोकारो कृषि बाजार समिति के सचिव तपन प्रकाश सिंह ने कहा कि यदि दुकानदारों ने बरामदे का अतिक्रमण किया है तो उसे हटाया जाएगा.

पानी के लिए लोगों ने झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग को किया जाम

धनबाद। विगत डेढ़ माह से पानी की समस्या से जूझ रहे डिगवाडीह माझी बस्ती एवं डिगवाडीह 12 नंबर के लोगों ने सोमवार 3 जुलाई की दोपहर झरिया-सिंदरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. लोगों ने माडा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि करीब डेढ़ माह से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. कई बार माडा के अधिकारियों को सूचना दी. लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला. अधिकारी कहते हैं कल से जलापूर्ति बहाल हो जाएगी. परंतु आज डेढ़ माह से पानी नहीं मिला, जिससे परेशान हो कर झरिया-सिंदरी रोड को जाम कर दिया. सूचना पाकर जोरापोखर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर सड़क जाम हटाया. पुलिस ने कहा कि माडा के एसडीओ से वार्ता की जाएगी.

जमशेदपुर : हल्दीपोखर में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, दो गंभीर

जमशेदपुर। जमशेदपुर से सटे कोवाली थाना अंतर्गत हल्दीपोखार स्टेशन के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक की पहचान डांगाडीह निवासी फूलचंद के रूप में हुई है जबकि कार्तिक और राजू घायल हैं. घटना के बाद सभी को इलाज के लिए एंबुलेंस से एमजीएम अस्पताल लाया गया है. बताया जाता है कि सभी एक बाइक पर सवार होकर हल्दीपोखर से डांगाडीह जा रहे थे तभी हल्दीपोखर स्टेशन के पास बाइक स्कीट कर गई जिससे सभी सड़क पर काफी दूर जा गिरे. गाड़ी को बाइक सवार काफी तेज गति से चला रहे थे. घटना के बाद सभी को एमजीएम लाया गया जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने फूलचंद को मृत घोषित कर दिया. कार्तिक और राजू की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

चाकुलिया : गोटाशिला पहाड़ पूजा चार जुलाई को, प्लास्टिक व थर्मोकोल पर प्रतिबंध

जमशेदपुर। चाकुलिया प्रखंड में अच्छी बारिश और खुशहाली के लिए पहाड़ पूजा का सिलसिला जारी है. प्रखंड की माटियाबांधी पंचायत में आगामी चार जुलाई को गोटाशिला पहाड़ पूजा होगी. बारिश और खुशहाली के लिए इस पहाड़ की पूजा वर्षों पुरानी परंपरा है. पूजा को सफल बनाने के लिए अस्थाई पूजा कमेटी का गठन किया गया. कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूजा में प्लास्टिक और थर्मोकोल का प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा. पूजा के दिन 4 जुलाई को पहाड़ के नीचे बेरियर लगाकर दो पहिया और चार पहिया वाहन के जाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया. पूजा को सफल बनाने के लिए गठित अस्थाई कमेटी में मुखिया जादू हेम्ब्रम,रामराय किस्कू,जगत किस्कू, ठाकुरदास हेम्ब्रम,गोरालाल सोरेन,विक्रम सोरेन,बादल महतो,मनिन्द्र महतो,रेवाकांत महतो,डमन चन्द्र महतो,उत्तम महतो,पार्थो सारथी महतो,कमलेन्दु महतो,ठाकुर मांडी, विवेकानंद सोरेन, कैलाश चन्द्र सिंह को शामिल किया गया है.

बहरागोड़ा : चावल से लदा ट्रक सड़क के किनारे मिट्टी में घुसा, 50 बोरियां ले भागे ग्रामीण

जमशेदपुर। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र स्थित माटिहाना- चाकुलिया मुख्य सड़क पर धर्मपुर के पास सोमवार की सुबह चावल से लदा एक ट्रक (जेएच02एस 6893) पुलिया से टकराते हुए अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे मिट्टी में घुस गया. चालक प्रदीप सिंह को चोट लगी है. दुर्घटना के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई और वे लोग चावल से भरी बोरियों को लेकर भागने लगे. सूचना पाकर बहरागोड़ा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है. जानकारी के मुताबिक यह ट्रक ओडिशा से चावल लेकर चाकुलिया होते हुए बहरागोड़ा की ओर जा रहा था. धर्मपुर के पास एक पुलिया को क्षतिग्रस्त करते हुए सड़क के किनारे मिट्टी में घुस गया. ट्रक के चालक प्रदीप सिंह ने बताया कि चावल से भरी 50 बोरियां और रस्सी ग्रामीण लेकर भाग गए. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

गुवा प्रबंधन को सारंडा विकास समिति ने सौंपा मांग पत्र, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

चाईबासा। सारंडा विकास समिति, दुईया-जामकुंडिया के अध्यक्ष सह गंगदा पंचायत के मुखिया सुखराम उर्फ राजू सांडिल के नेतृत्व में ग्रामीण मुंडाओं व महिलाओं का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल सेल की गुवा प्रबंधन के अधिकारियों से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा. सौंपे गये मांग पत्र में कहा गया है कि खदान से प्रभावित गांवों को सीएसआर की सूची में नाम जोड़ने के बाद भी लाभ नहीं दिया जा रहा है. बीते 7 नवम्बर 2022 को गुवा खदान की बंदी के दौरान 60 बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रस्ताव रखा गया था. उनमें से 20 लोगों को रोजगार पर रखा गया था और 40 बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया. काम पर रखे गये 20 बेरोजगारों को भी बीते जून माह से काम से हटा दिया गया. सभी 60 बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए. गुवा खदान माइन्स से निकले मिट्टी मुरूम, कंकड़ पत्थर से बंजर हुए किसानों की खेती योग्य भूमि का मुआवजा दें. माइंस से प्रभावित गांव के मरीजों को गुवा सेल अस्पताल एवं आईजीएच, राउरकेला में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, रेफरल मरीजों को एम्बुलेंस एवं बाहर से दवा खरीदने पर दवा का पैसा का भुगतान हो. गंगदा एवं छोटानागरा पंचायत में 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा दी जाए. प्रभावित गांव के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था, प्रभावित गांवों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मांदर-नागाड़ा उपलब्ध कराया जाए. प्रभावित गांवों के बच्चों को डीएवी गुवा में नामांकन एवं स्कूल आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा दी जाए. हाट-बाजार के दिन ग्रामीणों के लिए बस सेवा की सुविधा.

चाईबासा : तुईबीर पंचायत में विधायक दीपक बिरुवा ने किया सड़क निर्माण का शिलान्यास

चाईबासा। सदर प्रखंड अंतर्गत तुईबीर पंचायत में ग्राम सोसोहातु से कुइडबुसू तक की जर्जर सड़क का निर्माण जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद से कराया जाएगा. सोमवार को इस महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास विधायक दीपक बिरुवा ने किया. विधायक बिरुवा ने कहा कि जनहित में इस सड़क का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक था. मौके पर तुईबीर पंचायत की मुखिया और मुंडा गुरुचरण बारी ने स्थानीय समस्याओं से विधायक को अवगत कराते हुए निदान कराने का आग्रह किया था. जिस पर विधायक ने जनसमस्याओं को दूर कराने को लेकर आश्वस्त किया था. विधायक दीपक बिरुवा ने ठेकेदार को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है. शिलान्यास कार्यक्रम में वीर सिंह दास, उदय बिरुली, महावीर बारी, अनिल बारी, लालू देवगम, बबलू गोप, विपिन दास, अमित वर्मा समेत स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे.

चाकुलिया : वन विभाग कार्यालय पर भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम छह जुलाई को

जमशेदपुर। चाकुलिया वन क्षेत्र में हाथियों के उत्पात से निजात दिलाने के लिए आगामी छह जुलाई को भाजपा का वन विभाग कार्यालय पर हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित होगा. प्रदर्शन कर वन विभाग के पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिनेशानंद गोस्वामी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हाथी प्रभावित गांव का दौरा कर ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे हैं. डॉ. गोस्वामी ने कहा कि विगत दो महीनों के दौरान हाथियों के उपद्रव से चाकुलिया तथा बहरागोड़ा प्रखंडों के चार लोगों की जाने गई हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं. हाथियों ने 50 से अधिक मकानों को क्षतिग्रस्त किया है तथा 100 एकड़ से अधिक फसलों को रौंद डाला है. चाकुलिया तथा बहरागोड़ा प्रखंड के अनेक गांवों के लोग हाथियों की दहशत से रात को सोते नहीं हैं. हाथियों के हमले में लोग मारे जा रहे हैं. परंतु राज्य सरकार इस पर मौन साधी हुई है. गावों के लोगों को हाथियों से सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरह विफल रही है. डॉ गोस्वामी ने सरकार से हाथियों को घने जंगलों की ओर भेजने की व्यवस्था करने तथा हाथियों के द्वारा मारे गए मृतक के आश्रित को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने लोगों से छह जुलाई के हल्लाबोल आन्दोलन में भाग लेने का आह्वान किया.

निर्देश

जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिए आवागमन पर लगाई रोक

उसरी नदी में बने बांस पुल को कराया ध्वस्त

नवीन मेल संवाददाता

गिरिडीह। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित उसरी नदी की तेज धारा में तीन युवकों के बहने के बाद बांस के पुल को जिला प्रशासन के निर्देश पर ध्वस्त कर दिया गया है. सुरक्षा के लिए आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. एसडीएम ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए आम लोगों से घटनास्थल वाले जगह से आवाजाही नहीं करने की अपील की है. सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विशालदीप खलखो घटनास्थल पर तैनात हैं. घटना 2 जुलाई रात की है. हजारीबाग के तीन युवक बाइक से गिरिडीह जिले के बेंगाबाद से वापस अपने घर लौट रहे थे. रात में अंधेरे के वजह से रास्ता समझ नहीं पाने के कारण तीनों युवकों ने गूगल मैप का सहारा लिया.

गूगल ने हजारीबाग लौटने का दो रास्ता बताया, जिसमें एक रास्ते से गुजरते समय बीच में उसरी नदी मिल गई. एक युवक बाइक से उतरकर नदी की गहराई का अंदाजा लगाने लगा. इसी बीच नदी की तेज धारा वह बहने लगा. उसे बचाने के लिए उतरे दो युवक भी तेज धारा में बह गए. घटना की जानकारी पाकर 3 जुलाई की सुबह खंडोली से गोताखोरों की टीम पहुंची और नदी से एक युवक का शव बरामद किया. दूसरे युवक की तलाश नदी में जारी है. तीसरे युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई.

राज्य में 9 जिलों में 10-25 अगस्त तक चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

राज्य से फाइलेरिया समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता : डा. विरेन्द्र कुमार

नवीन मेल संवाददाता। रांची

राज्य सरकार लिंफेटिक फाइलेरिया (हाथी पांव) के उन्मूलन की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में 10 अगस्त से 25 अगस्त तक झारखंड के 9 फाइलेरिया प्रभावित जिले (हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार, दुमका, गोड्डा, सरायकेला, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम) में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसके तहत वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 9 जिलों के भीबीडी पदाधिकारी, जिला भीबीडी

पदाधिकारी, सलाहकार, मलेरिया निरीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि एमडीए कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया रोग की दवा प्रशिक्षित कर्मियों के सामने ही लाभार्थियों को दें। फाइलेरिया का उन्मूलन करना राज्य की प्राथमिकता है। साथ ही समाज के लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी को डीईसी और एल्बेंडाजोल की दवा दिया जाना गया। डॉ. सिंह ने कहा कि अप्रैल 2023 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में लिम्फेडिमा (अंगों में सूजन) के लगभग 54172 मरीज हैं। वहीं हाइड्रोसील के 40561 मरीज हैं। जिनमें से 23443 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। कार्यक्रम में राज्य सरकार की एंटोमोलोजी की परामर्शदात्री सज्ञा सिंह, विश्व स्वास्थ्य संगठन के राज्य एनटीडी समन्वयक डॉ। अभिषेक पॉल ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज के प्रतिनिधि अनुज घोष समेत अन्य मौजूद रहे।

न्यूक्लियस मॉल की जमीन मामले में जांच हो रही है या नहीं : कोर्ट

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल को लेकर दाखिल पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि न्यूक्लियस मॉल की जमीन मामले में जांच हो रही है या नहीं, अगर जांच हो रही है तो क्या बात सामने आयी है। कोर्ट ने मामले में सीबीआई को भी प्रतिवादी बनाया है। हाई कोर्ट ईडी के अधिवक्ता को इंस्ट्रक्शन लेने का निर्देश दिया है कि क्या इस मामले का अनुसंधान ईडी कर रही है। कोर्ट को बताया गया कि एक मामले में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से ईडी पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि लालपुर में जो न्यूक्लियस मॉल बना है वह गलत ढंग से बना है।

आचार्यकुलम विद्यालय में मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव

हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व : प्राचार्या सुजाता कौर

नवीन मेल संवाददाता। रांची

कार्यक्रम का शुभारंभ परम पूज्य श्रद्धेय योग गुरु (स्वामी रामदेव जी महाराज) के आशीर्वचन से हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या सुजाता कौर ने छात्र - छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। गुरु अंधकार रूपी नदी में प्रकाश हैं। अंधकार रूपी नदी को पार करने के लिए ज्ञान रूपी गुरु की आवश्यकता होती है। हर वह व्यक्ति गुरु है, जो किसी न किसी रूप में हमें ज्ञान देते हैं। अतः हमें अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। आप सभी को अपने गुरुजनों की बताए हुए मार्ग चलना चाहिए। आप सभी ऐसा करते हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं ने अपने गुरु के सम्मान में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी भाषाओं भाषण भी प्रस्तुत किए। सभी के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव झलक रहे थे। गुरु पूर्णिमा, गुरु को महत्व देने के लिए महान गुरु वेदव्यास जी के जयंती पर मनाया जाता है। विद्यालय के प्रबंधक परम पूज्य स्वामी दिव्यदेव जी ने सभी को आशीर्वाद देते हुए, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना किए। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

गुरुनानक स्कूल में पूर्व उप-प्राचार्या को दी गई श्रद्धांजलि

रांची। गुरुनानक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रांची की पूर्व उप-प्राचार्या जसबीर कौर आनंद के निधन पर सोमवार को विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जसबीर कौर ने अपने जीवनकाल के 30 वर्ष विद्यालय को दिए। उन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठा, लगन व मेहनत से विद्यालय को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया। प्राचार्या डॉ कैप्टन सुमित कौर, उप-प्राचार्या सोनिया कौर सहित सभी शिक्षक व विद्यार्थियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरदार कुलतार सिंह, उपाध्यक्ष कर्नल विजय सिंह, सचिव सरदार परमजीत सिंह टिंकू, सहसचिव सरदार रंजीत सिंह दोद व सरदार हरमीत सिंह ने भी जसबीर कौर आनंद के कार्यों व योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

एचईसी के कर्मचारियों की इलाज की सुविधा भी हुई बंद

नवीन मेल संवाददाता। रांची

रांची। हैवी इंजीनियरिंग कापोर्रेशन लिमिटेड (एचईसी) और यहां के कर्मचारियों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। कर्मचारियों की तंगी इतनी बढ़ गयी है कि उन्हें और उनके परिजनों को खाने-पीने के भी लाले पड़ गये हैं। इतना ही नहीं गंभीर बीमारी होने पर ईएसआई से इलाज कराने की सुविधा भी बंद हो गयी है। एचईसी ने अधिकारियों को 18 माह और कर्मियों को 14 माह का वेतन नहीं मिला है। उनका डीए भी बंद हो गया है। प्लांट में खाना, पानी और एंबुलेंस समेत सभी सुविधाएं रोकी जा चुकी है। हैवी मशीन टूल्स प्लांट (एचएमटीपी) के कर्मी कुंदन शर्मा के पिता

नारायण शर्मा बीते कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। ईएसआई अस्पताल जाने पर इलाज के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला। ईएसआई के सर्जिकल के डॉक्टर ने उन्हें टाटा ट्रस्ट के कैंसर हॉस्पिटल में रेफर किया। लेकिन ईएसआई रजिस्ट्रेशन करने वाले कर्मी ने बताया कि एचईसी द्वारा पैसा जमा नहीं किया जा रहा है, जिस कारण उन्हें रेफर नहीं किया जा सकता है। कर्मी कुंदन शर्मा ने बताया कि 14 माह का वेतन भी नहीं मिला है और जब ईएसआई की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह भी काम नहीं आई। अब वे अपने पिता का इलाज खुद के पैसे से टाटा ट्रस्ट के कैंसर हॉस्पिटल में करा रहे हैं। जबकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और कोई चारा भी नहीं है। एचएमटीपी के कर्मी मो असलम ने बताया कि 14 माह का वेतन नहीं मिलने से जिंदगी बेपटरी हो गई है। कर्ज लेकर गुजर- बसर हो रहा है। परिवार के लोगों को आधे पेट ही भोजन करवा पा रहे हैं। बच्चों का स्कूल फीस भर पाने में भी असमर्थ गया हूं। समझ नहीं आ रहा है कि परिवार वालों को बेहतर जिंदगी कैसे दें।

परिवारवादी दल लोकतंत्र के लिए सही नहीं : बाबूलाल मरांडी

रांची। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिवारवादी दल लोकतंत्र पर कलंक है। इन्हें मिटाना जरूरी है। अगले चुनाव में जनता अयोग्य परिवारवादियों को निकाल बाहर करेगी। ट्विट कर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, राजद और झामुमो में कई योग्य, अनुभवी और संघर्षशील नेता रहे हैं, लेकिन यूपी में मुलायम सिंह ने, बिहार में लालू यादव ने और झारखंड में शिबू सोरेन ने अपने किसी जुझारू साथी की जगह अपने बेटों को गद्दी सौंप दी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो इन राज्यों की तस्वीर बहुत अलग होती। बाबूलाल ने कहा कि झामुमो में स्टीफन मरांडी, स्व। साइमन मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम जैसे कई अनुभवी आंदोलनकारी जमीन से जुड़े नेता थे, जो शिबू सोरेन के साथी रहे, लेकिन जब गद्दी सौंपने की बात आई तो उन्हें किनारे लगा अपने अपने बेटे हेमंत सोरेन को नेतृत्व थमा दिया। परिणाम सामने है।

स्कूल के बच्चों ने खेल गांव के स्टेट म्यूजियम पहुंचकर कलाकृतियों की ली जानकारी

रांची। सरला बिरला पब्लिक स्कूल, रांची के छात्र-छात्राओं ने स्टेट म्यूजियम, खेलगांव की अनुभवात्मक यात्रा की। उन्होंने संग्रहालय में संरक्षित विभिन्न कलाकृतियों और अवशेषों को देखा। उन्हें झारखंड की आदिवासी संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी गयी। उन्हें कला क्यूरेटर और पुरातत्व जैसे अपरंपरागत व्यवसायों के बारे में जानकारी दी गई। सोहराई पेंटिंग बच्चों के आकर्षण का केंद्र थी, जिसकी कला से बच्चे मंत्रमुग्ध थे। बच्चों ने विभिन्न कला रूपों और विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जाना। विद्यालय के कार्मिक एवं प्रशासनिक प्रमुख डॉ. प्रदीप वर्मा ने इस तरह की यात्राएं आयोजित करने में स्कूल के प्रयासों की सराहना की। प्राचार्या श्रीमती परमजीत कौर ने छात्रों को राज्य की समृद्ध विरासत के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अधिक जागरूक नागरिक बन सकें।

श्री श्याम मन्दिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया

रांची। अग्रसेन पथ स्थित श्री श्याम मन्दिर में सोमवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा एवम भक्ति के साथ आयोजित किया गया। मन्दिर में रजत सिंहासन पर विराजमान सदगुरु काशीराम जी शर्मा की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया। श्री श्याम दरबार के सम्मुख गुरु काशिराम जी शर्मा के तेल चित्र का आकर्षक श्रृंगार कर भारी संख्या में भक्तगण ने रोली, अक्षत व पुष्पों से गुरुदेव का पूजन कर गुरु चरणों में श्रद्धा अर्पित की । इस अवसर पर गुरुदेव को भाव सहित मिष्ठान-फल-मेवा का प्रसाद निवेदित किया गया। प्रातः 8:30 बजे श्री श्याम मण्डल के सदस्यों द्वारा गणेश वन्दना के साथ भावपूर्ण संकीर्तन प्रारम्भ किया। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सुरेश चन्द्र पोद्दार, ओम जोशी, रमेश सारस्वत, चन्द्र प्रकाश बागला, धीरज बंका, विवेक ढांढनीयां, अशोक लाठ, प्रदीप अग्रवाल, मनोज ढांढनीयां, सुदर्शन चितलांगिया का सहयोग रहा।

गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी भीड़

रांची। हरमू रोड के श्री श्याम मंदिर में सोमवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव आयोजित किया गया। श्री श्याम मित्र मंडल के पहले महामंत्री विश्वनाथ नारसरिया ने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भक्त शिरोमणि 1008 श्री आलू सिंह जी महाराज की प्रतिमा तथा गर्भगृह के बाहर उनके तैल चित्र का चंदन वंदन करके फूल माला अर्पित कर दीप प्रज्ज्वलित करके भोग लगाया गया। गुरु पूजा अर्चना की गई। मण्डल के अध्यक्ष सुरेश सरावगी के नेतृत्व में श्रवण ढानढनिया श्याम सुन्दर शर्मा गौरव अग्रवाल मोनू ने गुरुदेव के सुमधुर भजनों का गायन किया। इस अवसर पर खाटू नरेश लड्डू गोपाल शालिग्रामजी शिव परिवार रिद्धि सिद्धि बजरंगबली का विशेष दिव्य पावन श्रृंगार भी किया गया। लाल गुलाब सुगंधित सफेद बेली रजनीगंधा तुलसी दल मोरगन सूर्यमुखी के मोटी मोटी मालाओं से मंदिर के मंत्री श्यामसुंदर शर्मा व पहले आचार्य रत्नाकर शर्मा ने मनोहारी सजावट किया। एक भक्त परिवार ने श्रृंगार सेवा निवेदित की। श्री गुरुपर्व के अवसर पर आज हजारों भक्तों ने गुरु पूजा करने के लिए श्याम मंदिर खाटूनरेश आलूसिंह जी महाराज की जय जयकारों से मंदिर गूंजता रहा। रात्रि 9:30 बजे महाप्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके पहले आज प्रातः 9:00 बजे 14 वा श्री शालिग्राम पूजन व श्री सत्यनारायण कथा का आयोजन भी हुआ।

एक्सआईएसएस की डॉ राज श्री वर्मा यूएस इंस्टीट्यूट में अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिये अमेरिका गयी।

अमोद नारायण सिंह बने जरमुंडी के डीएसपी

रांची। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) रांची में डीएसपी के पद पर पदस्थापित अमोद नारायण सिंह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक दुमका जिले के जरमुंडी के डीएसपी के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है।

अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, राहगीरों को बांटे 200 कपड़े के बैग

रांची। आईक्यूएसी के तहत 1/3 कंपनी संत जेवियर्स कॉलेज एनसीसी रांची ने अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर कपड़े के बैग का वितरण किया। अल्बर्ट एक्का चौक के पास राहगीरों को बैग दिये गये। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने, लोगों को प्लास्टिक बैग का उपयोग न करने और उसके स्थान पर कपड़े के बैग का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान कुल 200 कपड़े के थैले वितरित किया गया। एनसीसी एएनओ लेफ्टिनेंट डॉ. प्रिया श्रीवास्तव की देखरेख में आयोजन हुआ।

एक्सआईएसएस की डॉ. राजश्री अध्ययन के लिए गईं अमेरिका

नवीन मेल संवाददाता। रांची

रांची। जेवियर समाज सेवा संस्थान (एक्सआईएसएस), रांची के रूरल मैनेजमेंट कार्यक्रम से डॉ. राज श्री वर्मा को यूएस इंस्टीट्यूट (एसयूएसआई) के विषय पर अध्ययन के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए नामांकित और चुना गया है। यह प्रोग्राम अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित 'अर्थशास्त्र और सतत विकास' अमेरिकी राज्य विभाग के शैक्षिक और सांस्कृतिक मामलों के ब्यूरो (ईसीए) द्वारा आयोजित किया गया। मोंटाना विश्वविद्यालय (यूएम) इस कार्यक्रम का प्रबंधन करेगा और प्रशिक्षण और विकास संस्थान (आईटीडी),

सफोल्क विश्वविद्यालय के साथ मिलकर, 1 जुलाई से 9 अगस्त, 2023 तक एमहर्स्ट और बोस्टन, मैसाचुसेट्स में संस्थान की मेजबानी करेगा। एक्सआईएसएस के निदेशक डॉ. जोसफ मारियानुस कुजुर एसजे ने इस चयन पर कहा, एक्सआईएसएस को बहुत खुशी और गर्व है कि डॉ. राज श्री ने अमेरिका में होने वले इस अध्ययन में अपनी जगह बनाई है। उनका अनुभव और आयोजकों और प्रतिभागियों के साथ बातचीत और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्कृति में उनकी इच्छा निश्चित ही संस्थान को लाभ पहुंचाएगी। यह अमेरिकी परिसर में एक अल्पकालिक अध्ययन होगा जहां दुनिया भर से 18 अनुभवी विदेशी विश्वविद्यालय फैकल्टी, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और नीति निमार्ताओं का एक बहुराष्ट्रीय समूह अमेरिकी संस्कृति और समाज के बारे में जानने और अनुभव करने के लिए एक साथ आएगा।

महर्षि मेंही आश्रम में श्रद्धापूर्वक मनाई गई गुरु पूर्णिमा

रांची। महर्षि मेंही आश्रम मलियादा में सोमवार को गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। सुबह ध्यानाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सद्गुरु महाराज के चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्पांजलि अर्पित की गई। ईश स्तुति-गुरु स्तुति से सत्संग-प्रवचन कार्यक्रम की शुरूआत की गई। भागलपुर के स्वामी श्याम सुंदरजी महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा बुराइयों का त्याग कर सद्गुरु भक्ति और गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने के लिए संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने कहा कि गुरु जीवन के सभी जंजालों को काटते हैं। गुरु ईश्वर स्वरूप होते हैं, इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश माना गया है।

विधायक सीपी सिंह ने किया नये योग संस्थान का उद्घाटन

नवीन मेल संवाददाता। रांची

गुरू पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सोमवार को योगाचार्य आर्य प्रह्लाद भगत के नए योग संस्थान का उद्घाटन विधायक सीपी सिंह ने किया। मौके पर आर्य प्रह्लाद भगत ने बताया कि योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा को पूरे भारत में फैलाने वाले नटराज योग संस्थान की ओर से नियमित योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा हैं। इसी उद्देश्य से आज लालपुर में नए शाखा रोहिणी शिव योग आश्रम का उद्घाटन धूम धाम से किया गया। संस्थान में आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग से सभी बीमारियों को ठीक किया जाएगा।

जानकारी **बीएयू ने किया लघु कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन**

शहीदों के गांवों में किया जा रहा है विकास

नवीन मेल संवाददाता। रांची

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ओंकार नाथ सिंह की पहल एवं मार्गदर्शन में झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद नायकों के गावों में तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से किसानोपयोगी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसकी 5 वीं कड़ी में स्वतंत्रता सेनानी 'पोटो हो' के चाईबासा जिले के टोंन्टो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया गांव में विगत रविवार को किसान गोष्ठी-सह-लघु कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीएयू कुलसचिव एवं अध्यक्ष (पौधा रोग विभाग) डॉ नरेंद्र कुदादा ने सेरेंगसिया गांव के जनजातीय किसानों को चालु खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की उन्नत खेती तकनीकी तथा फसलों के रोग एवं कीट प्रबंधन के तरीकों को बताया। किसानों को खरीफ फसलों की जैविक खेती तकनीक एवं इसके लाभों की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), जगरनाथपुर

(चाईबासा) के प्रभारी डॉ. सनत कुमार सवैंया ने किसानों को प्लास्टिक वर्मी बेड के माध्यम से कम मूल्य में केंचुआ खाद (वर्मी कम्पोस्ट) उत्पादन तकनीक की जानकारी दी। बताया कि प्लास्टिक वर्मी बेड की आयु 10 वर्ष होती है। इस प्लास्टिक नुमा कंटेनर में रसोई के अवशिष्ट, हरे कचरे, गोबर एवं अन्य अवशिष्ट के साथ केंचुआ डालकर कम समय एवं सरल तरीके पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद का उत्पादन किया जा सकता है। कार्यक्रम प्रभारी एवं बीएयू एटिक प्रबंधक डॉ बन्धनु उराँव ने किसानों को कृषि कार्य के उन्नयन एवं विकास में उपयोगी लघु कृषि उपकरण के उपयोग से श्रम शक्ति की बचत एवं 25-30 प्रतिशत कृषि लागत में कमी की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को नवीनतम लघु कृषि उपकरणों के उपयोग से किसानी कार्यों में अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। किसान गोष्ठी के दौरान सेरेंगसिया गांव के कुल 100 जनजातीय किसानों को दस प्रकार के विभिन्न लघु कृषि उपकरणों में मेज सेलर, गार्डन वेस्ट बेल्ट, सिंकल प्लास्टिक ग्रीप, गार्डन टूल्स, हैण्ड वीडिंग फोर्क, हैण्ड कल्टीवेटर, हैण्ड हो, हैण्ड वीडर, बैटरी चालित स्प्रे मशीन तथा वर्मी बेड का निःशुल्क वितरण किया गया। सहायक निदेशक प्रशासन ज्ञानसिंह दोराईबुरु एवं पंचायत मुखिया लखन लागुरी ने भी अपने विचारों को रखा। मौके पर ग्राम प्रधान मुंडा लागुरी, महेंद्र लागुरी सहित भारी संख्या में स्थानीय जनजातीय किसान भी मौजूद थे। कार्यक्रम प्रभारी डॉ बन्धनु उरांव ने बताया कि कुलपति डॉ. ओंकार नाथ सिंह के निर्देश पर प्रसार शिक्षा निदेशालय के सौजन्य से झारखंड के शहीद नायकों के गावों में किसानोपयोगी प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन सफल हो रहा है। पूर्व कार्यक्रमों के अधीन परमवीर शहीद अल्बर्ट एक्का के गुमला जिला स्थित जारी गांव, स्वतंत्रता सेनानी तेलंगा खड़िया के गुमला जिला स्थित मुरगु गांव, ह्यबीएयू संस्थापक एवं पंख राज कार्तिक उरांव के गुमला जिला स्थित पैतृक गांव करौंदा लिटाटोली तथा शहीद ग्राम घाघरा बेड़ा, बुंडू, रांची के प्रगतिशील किसान संगठन से जुड़े जनजातीय किसानों के लिए किसान गोष्ठी - सह - लघु कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया।

झामुमो के जिला अध्यक्षों की बैठक आज

रांची। झामुमो जिला अध्यक्षों एवं सचिवों की बैठक 4 जुलाई को हरमू स्थित सोहराई भवन में होगी। बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पार्टी के मंत्री, सांसद एवं विधायक हिस्सा लेंगे। बैठक में झारखंड के अलावे बिहार, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा के पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। बैठक में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की जायेगी। आगामी दिनों में होने वाले डुमरी विधानसभा उपचुनाव, लोकसभा चुनाव की रणनीति तथा पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक और उसमें झामुमो की सहभागिता विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल, पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप कितना काम हुआ आदि विषयों पर भी चर्चा होगी। पार्टी ने इस जून से सदस्यता अभियान शुरू किया है। इस बार पार्टी ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। सदस्यता अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। फिलहाल पार्टी में प्राथमिक सदस्यों की संख्या करीब 25 लाख है। इस बार इसे दोगुना करना है।

डीसी ने आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल का निरीक्षण कर दिये जरूरी दिशा-निर्देश

नवीन मेल संवाददाता

कोडरमा। कोडरमा जिला के सरकारी विद्यालय हो या आंगनवाड़ी केन्द्र, बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उपायुक्त कोडरमा स्वयं विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे है। इसी कड़ी में उपायुक्त आदित्य रंजन ने परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा, प्राथमिक विद्यालय बलरोटांड और कोडरमा प्रखंड अंतर्गत मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बलरोटांड, आंगनवाड़ी केन्द्र कलीडीह, आंगनवाड़ी केन्द्र नावाडीह और डोमचांच प्रखंड अंतर्गत हुसैनाबाद मीनि आंगनबाड़ी केंद्र और डोमचांच बाजार व सिंगलोडीह स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किये। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविका को निर्देश दिये कि बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समावेशी शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे और चार्ट पेपर के माध्यम से बच्चों को पढ़ायेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का पोषण वाटिका को देखें और कहा कि पोषण वाटिका में लगायें पौधे और सब्जियों का नियमित देख रेख करेंगे। उन्होंने आंगनबाड़ी को नियमित साफ-सुथरा रखने की बात कही। परियोजना बालिका उच्च विद्यालय और अन्य एक विद्यालय का भ्रमण कर प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इंपैक्ट से संबंधित किये जा रहे गतिविधियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। डीईजीएस और पुस्तकालय का निरीक्षण उपायुक्त ने झुमरी तिलैया नगर परिषद स्थित डीईजीएस कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर और पुस्तकालय का निरीक्षण किये। इस क्रम में उन्होंने अभ्यर्थियों से रूबरू हुए और उनसे बातचीत की। उन्होंने अभ्यर्थियों से सेंटर में किसी तरह की समस्या नहीं है और सेंटर में कंप्यूटर सीखने और पुस्तकालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षा तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से सुविधा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सेंटर और पुस्तकालय को साफ सुथरा रखने को कहा। इसके साथ साथ झुमरी तिलैया स्थित वृद्ध आश्रम का भी सुविधाओं का जायजा लिये। उपस्थितिः इस मौके पर उप विकास आयुक्त श्री ऋतुराज, गोपनीय प्रभारी जयपाल सोय, प्रखंड विकास पदाधिकारी कोडरमा रोशमा डुंगडुंग व अन्य मौजूद रहे।

होमियोपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी के डॉक्टरों को रोटरी ने किया सम्मानित

झुमरी तिलैया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर रोटरी के नए साल के पहले दिन रोटरी के नव चयनित विकास सेठ, निवर्तमान अध्यक्ष अजय अग्रवाल के साथ पूर्व अध्यक्ष कुमार पुजारा एवं कैलाश चौधरी ने नगर के गणमान्य चिकित्सकों को संयुक्त रूप से उसको कुछ देकर सम्मानित किया और उनकी सेवा भावना की सराहना की। रोटेरियन विकास सेठ ने कहा की विशेषकर कोरोना काल में एलोपैथी के डॉक्टरों के अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेद के चिकित्सकों ने कोरोना के मरीजों को विशेष राहत दी है और इसलिए हम तीनों विधा के चिकित्सकों का सम्मान कर रहे हैं। एलोपैथी में डॉक्टर सागरमणि सेठ, डॉ वीरेंद्र कुमार, डॉ नम्रता, डॉक्टर मनोज भदानी, होम्योपैथी में डॉ अरुण कुमार और आयुर्वेद की परंपरा में वैद्य अशोकजी को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। ज्ञातव्य है कि 1 जुलाई चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में भी घोषित है इसलिए रोटरी के पदाधिकारीयों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर कुमार को भी पुष्प गुच्छ देकर सम्मान दिया।

समस्याओं को लेकर झापा ने दिया धरना

दोनों विधायक और सांसद की लापरवाही की वजह से क्षेत्र में लोगों में बड़ी परेशानी : एनोस एक्का

नवीन मेल संवाददाता

सिमडेगा। झारखंड पार्टी सिमडेगा द्वारा सिमडेगा जिले में बिजली विभाग से संबंधित व्याप्त समस्याओं के खिलाफ सोमवार को पावर हाउस सिमडेगा के समीप एक दिवसीय झारखंड पार्टी की सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ मौके पर मुख्य रूप से झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री एनोस एक्का झापा जिला अध्यक्ष मतीयस बागे, युवा जिला अध्यक्ष संदेश एक्का, झापा नेत्री जिला परिषद अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए संदेश एक्का ने कहा किस सिमडेगा जिला में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से लोगों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो चुकी है और लोग पूरी तरह से परेशान है जिले के अंदर

अनावश्यक बिजली बिल एक घर में दो कनेक्शन का बिल और कहीं कहीं पर बिजली की आंख मिचौली और ट्रांसफार्मर जलने की समस्या आ रही है ।लेकिन अब तक विभाग उसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इस लिए अब वक्त आ गया कि झारखंड पार्टी विभाग के खिलाफ उलगुलान करें। पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को लोग चुनाव में इसलिए जीत दिलाते हैं ताकि उनकी समस्याओं को दूर करें लेकिन सिमडेगा के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहां के सांसद और दोनों विधायक गहरी नींद में सो रहे हैं जिसकी वजह से बिजली पानी सड़क जैसी कई आवश्यकताओं की घोर कमी है और इसकी नेतृत्व कोई नहीं कर रहा। जहां पर अगुवा की आवश्यकता है वहां पर जनप्रतिनिधि अगुआ की भूमिका नहीं निभा रहे। लेकिन झारखंड पार्टी लोगों की समस्याओं के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी चाहे जेल जाना पड़े या फिर बिजली विभाग के दफ्तर को ताला लगाना पड़े लेकिन अगर बिजली लोगों को नियमित रूप से नहीं मिला लोगों के बिल में संशोधन नहीं हुआ, हर गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन झारखंड पार्टी जरूर करेगी। सिमडेगा में कांग्रेस के दो विधायक हैं जो सिर्फ लोगों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेते हैं और वोट की राजनीति करते हैं उसी प्रकार भाजपा के जो लोग हैं।

झुमरी तिलैया नगर परिषद ने पहले तिमाही मे वसूला होल्डिंग टैक्स से 02 करोड़ 40 लाख

झुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया नगर परिषद के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही मे 01अप्रैल से 30 जून तक 21 हजार लगभग उपभोगताओं मे 4800 उपभोक्ताओं से 02 करोड़ 40 लाख का राजस्व का वसूली किया गया हैं। यह 27 प्रतिशत तीन महीना मे लक्ष्य को पूरा कर लिया हैं। चालू वित्तीय वर्ष मे लक्ष्य 10 करोड़ निर्धारित हैं। नगर प्रशासक विनीत कुमार ने बताया कि पेयजल से 2600 उपभोक्ताओं मे 600 उपभोक्ताओं ने तीन माह मे 13 लाख 50 हजार तथा लाइसेंस मे 165 उपभोक्ताओं ने 04 लाख का राजस्व जमा कराया हैं। होलसिंग टैक्स मे 05 प्रतिशत की छूट 30 जून तक थी। अब प्रति माह 01 प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स जमा करना होगा।जबकि महिला,सिनियर सिटीजन,दिव्यांग,सेना मे कार्यरत जवान व अधिकारी को 31 मार्च 2024 तक 05 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि टैक्स का भुगतान समय पर करें जिससे विकास का कार्य हो सके और अच्छे नागरिक का फर्ज निभाएं।

मनोज सिंह बने जैन स्कूल के नये प्राचार्य

झुमरी तिलैया। दिगंबर जैन विद्यालय में नए प्राचार्य के रूप में मनोज कुमार सिंह ने पदभार संभाला। इस अवसर पर विद्यालय कोऑर्डिनेटर सुनील छावड़ा, नवीन जैन और राजेश जैन ने नए प्राचार्य मनोज कुमार सिंह का बूके देकर स्वागत किया। विद्यालय कोऑर्डिनेटर सुनील जैन छाबड़ा ने कहा कि बच्चों के लिए विद्यालय हमेशा तैयार है। विद्यालय को अग्रसर करना मेरा उद्देश्य है। इस विद्यालय में शिक्षा संबंधित सभी व्यवस्था करना विद्यालय की प्राथमिकता है। वहीं प्राचार्य मनोज कुमार सिंह ने कहा कि विद्या के क्षेत्र में विद्यालय को अग्रसर करना यही मेरा उद्देश है। बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बनाना और बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। एक्टिविटी में भी विद्यालय को आगे की ओर ले जाना है। इस अवसर पर विद्यालय सुपरवाइजर मुरारी कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे। मौके पर स्कूल के सभी शिक्षक व बच्चे मौजूद थे।

थम गयी बैंड बाजा और बाराती की धूम , 5 माह के बाद 23 नवम्बर से फिर से बजेगी शहनाई

झुमरी तिलैया । बैंड बाजा और बारातियों का शोर थम गया। 29 जनु तक हजारों शादियों जिले के विभिन्न इलाकों में हुई। इसमें कई शादियॉ तो वर वधु के परिजन जिले के बाहर जाकर भी किये। संपन्न लोग तो विवाह भवन धर्मशाला , समारोह हॉल में किये तो कई ने अपने निवास स्थल पर शमिशना टेंट लगाकर शादी के रस्मों को पुरा किया । इसमें विशेष बात यह रही है घर की निकट पंडाल का निर्माण करने एवं घर के आंगन में शादी करना दहलीज से बेटियों को विदा करने की परंपरा को कायम रखा । जबकि बाहर से होने वाली शादियॉ में बेटियॉ विवाह भवन से ही ससुराल के लिए विदा हुई। जिले के ध्वजाधारी धाम झरनाकुंड धाम गायत्री मंदिर के अलावा कई अन्य मंदिरों में भी सात फेरे लिये गये। इधर देवशयन एकादशी को लेकर भगवान नारायण योग निद्रा में चले गये और देव उठानी एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं। इस 4 महीने को चतुर्मास कहा जाता है और इस दौरान शुभ कार्य शादी विवाह के अलावा नये दुकान मकान आदि नहीं बनाये जाते है और जिन्हें यह कार्य करना है 28 जुन को पुजा अर्चना कर लिये हैं। इधर इस बार चतुर्मास 5 माह का है। इसमें दो श्रावण माह होगा। इसमें देवशयन 147 दिनों का हो रहा है। बैंड बाजा बाराती के धुम के बाद 30 जुन तक वर परिवार के ओर पाटियों का दोर भी चला। अब 23 नवम्बर से बैंड बाजा और बाराती की धुम मचेगी। ऐसे में 5 माह तक कारोबार भी मंदा रहेगा। नवम्बर माह में होने वाली शादियों के लिए अभी से ही शादी के मंडप वाले स्थलों के साथ-साथ वाहनों की बुकिंग भी की जा रही है। वहीं कई लोग जुलाई माह से ट्रेनों का रिजर्वेशन भी कराने के लिए लग गये है। शादी विवाह के सीजन के ब्रेंक लगने से जेवर कपडा बर्तन इलेक्ट्रॉनिक मोटर गाडियों का पिक सीजन भी रूक गया है।

गुरू पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास की मनी जयंती

नवीन मेल संवाददाता

झुमरी तिलैया। कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर झुमरी तिलैया में गुरुओं के गुरु महर्षि वेदव्यास की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्राचार्य शर्मेंद्र कुमार साहू तथा प्रभारी मनोज कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं उनके चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। भैया कृष्णा शंकर मिश्रा, आदित्य कुमार, बहन रूपम कुमारी, पंखुरी एकघरा, दिव्यांशी कुमारी, निधि कुमारी ने उनकी जीवनी एवं उनके कृतित्व पर प्रकाश डालें। प्राचार्य शर्मेन्द्र कुमार साहु ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के वैश्विक युग में जहां रिश्तो के बंधन ढीले पड़ रहे हैं वहां हमारा सांस्कृतिक इतिहास हमें एक सूत्र में बांध रहा है। ऋषियों एवं महर्षियों कि इस पवित्र धरा पर जन्म पाकर हम धन्य हैं जहां ऐसी समृद्धि विरासत में मिली है। मुख्य वक्ता आचार्य प्रदीप कुमार ने उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए कहा कि त्रिकालदर्शी, महाभारत के रचयिता व वेदों का वर्गीकरण करने वाले महर्षि वेदव्यास से भारतीय समाज अभी पूरी तरह उऋण नहीं हो सकता ।कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सच्चे गुरु की छत्रछाया में सच्चे शिष्य सँवरते हैं विवेकानंद, शिवाजी इसके उदाहरण है। धन्यवाद ज्ञापन दीपक कुमार के द्वारा किया गया जबकि मंच संचालन बहन श्रेया सुमन के द्वारा किया गया। विद्या भारती के विद्यालयों में आज के दिन आचार्यों का सम्मान प्रबंध कारिणी समिति करती रही है ।

प्राशिसं का चुनाव 15 को सीएच प्लस टू उच्च विधालय में होगा

झुमरी तिलैया। अखिल झारखण्ड प्राथमिक शिक्षक संघ कोडरमा जिला का सत्र 2023-26 के लिए 15 जुलाई को झुमरी तिलैया के सीएच प्लस टू विद्यालय में आयोजित होगा। जिसमें जिले के 79 शिक्षक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इधर चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया है। अध्यक्ष पद के लिए आश्विनी तिवारी और शिवशंकर रजक ,उपाध्यक्ष के लिए राजकिशोर दास धानेश्वर राम शंकर दयाल प्रसाद राजन्द्र कुमार, ललन प्रसाद यादव महासचिव के लिए रविकात रवि कौलेश्वर ठाकुर संगठन सचिव के लिए सुभाष चंद्रा विजय कुमार संयुक्त सचिव के लिए मनोज कुमार चौरसिया रामचन्द्र ठाकुर, महेन्द्र प्रसाद रवि लाल कोषाध्यक्ष के लिए रविन्द्र शर्मा व अरविन्द कुमार के बीच मुकाबला होगा। चुनाव पदाधिकारी गांधी प्रसाद, माधव कुमार और विवेक रंजन ने बताया कि 1 जुलाई से 13 जुलाई तक प्रचार अभियान किया जा सकेगा । जिले के 79 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इधर कई पद के लिए निर्विरोध घोषित किया गया। जिसमें अंकेक्षण के लिए शिवशंकर मोदी राजेन्द्र प्रसाद कार्यालय सचिव सत्येन्द्र प्रसाद प्रेस प्रवक्ता के लए उमेश सिन्हा उप कोषाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार निविरोध निर्वाचित हो गये है।

सेक्रेड हार्ट स्कूल में कैलीग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन

नवीन मेल संवाददाता

झुमरी तिलैया। सेक्रेड हार्ट स्कूल में सीसीए कार्यक्रम के तहत कैलीग्राफी और स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें क्लास वन से दसवीं तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। वर्ग एक से पांच तक के बच्चों के बीच कैलीग्राफी राइटिंग कंपटीशन हुआ। इसमें आनंद कुमार, रियांश पांडेय, कुंज कुमार दास, सौम्या कुमारी, निधि गुप्ता, अदिति राज, सौम्या राय, सौम्या भदानी, दीपा शर्मा, अर्चना राणा, बंदना रानी, नेहा कुमारी, पीके महिमा को अपने-अपने वर्ग में प्रथम स्थान मिला। वहीं स्टोरी टेलिंग में वर्ग 6 से 8 में कुणाल कुमार को प्रथम, रिशिका कुमारी को द्वितीय और सौरव रंजन को तृतीय स्थान मिला। जबकि वर्ग नवम-दशम में स्वाति कुमारी को प्रथम, तनीषा शर्मा को द्वितीय और अर्णव कुमार को तृतीय स्थान मिला। इस मौके पर विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर प्रमोद शर्मा ने कहा कि ऐसे प्रतियोगिताओं से बच्चों के बौधिक क्षमता का विकास होता है। वहीं प्राचार्य नवीन कुमार ने बच्चों को बधाई दी और कहा कि विविध गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना विद्यालय का लक्ष्य उद्देश्य है। आयोजन को सफल बनाने में प्रिंस वार्गीश, एकेडमिक कोर्डिनेटर प्रवीण कुमार, पायल सिंह, आशुतोष गौतम, कामिनी सहाय सीमा जैन, पियंका गुप्ता, रंजीता कुमारी, सरोज पांडेय, स्वीटी सिन्हा, कुंतल जेठवा, रूबी वर्मा, अल्का सिंह समेत अन्य शिक्षकों का योगदान रहा।

सरस्वती शिशु मंदिर में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूजन उत्सव

बोलबा। बोलबा प्रखण्ड के मालसाडा सरस्वती शिशु मन्दिर में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूजन उत्सव । इस मौके पर गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम स्वामी महर्षि वेदव्यास के समक्ष मुख्य अतिथि अरुण प्रसाद द्वारा दीप प्रज्वलित एवं पुष्पार्चन कर कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इस अवसर पर विद्यालय में भैया बहनों द्वारा एक से एक बढ़कर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इसके साथ ही शिशु भारती के अध्यक्ष द्वारा अंग्रेजी में स्वागत भाषण दिया गया। मुख्य रूप से गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अरुण प्रसाद उपस्थित थे । उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा आज से नहीं प्राचीन काल से ही इसकी परंपरा चलती आ रही है। गुरु की एक अलग महिमा है जो भगवान से भी ऊपर बताया गया है।इस अवसर पर मंच संचालन नमिता कुमारी आचार्य शंकर द्वारा किया गया धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य द्वारा हुआ। मौके पर देवकी कुमारी फुल कुमारी काजल तिवारी बिरासिनी कुमारी एवं छात्र छात्रा सहित अभिभावक उपस्थित थे।

आस्था कोलेबिरा विधायक ने किया जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन

क्षेत्र में समस्याएं दूर करने की जरूरत : विधायक

नवीन मेल संवाददाता

बोलबा। बोलबा प्रखंड अंतर्गत कादोपानी पंचायत के किलेसेरा गांव में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ कार्यक्रम में कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी उपस्थित हुए। ग्रामिणो ने कहा क्षेत्र में कई सारी समस्याएं हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि आपकी समस्याओं और परेशानियों का समाधान करना मेरी प्राथमिकता है उसे दूर किया जाएगा। इस क्षेत्र की हर समस्या बिजली पानी सड़क पुल पुलिया आदि समस्या को दुर करने की प्राथमिकता देते आया हु और आगे भी इन सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास रहेगा। आज देश को

गुलामी की ओर जा रहा है। अडानी अम्बानी जैसे उद्योग पतियों के हाथों सरकारी सम्पत्तियों को बेचा जा रहा है। और सभी को निजीकरण किया जा रहा है, उससे हमारे लोगों को मिलने वाला आरक्षण प्रभावित हो रहा है। स्पष्ट है कि हमारे आरक्षण को धीरे-धीरे समाप्त करने का षड्यंत्र हो रहा है। जबकि पूर्व की कांग्रेस या महागठबंधन की सरकार ने गरीबों दलितों शोषितों के लिए हर संभव विकसित करने के लिए आरक्षण प्रदान करने का काम किया था जिसे भाजपा की सरकार ने खत्म करने का साजिश सुरु से रच रही थी। और आज देश में बिजेपी की सरकार समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कह रही हैं हमलोगो का जो प्रथागत कानून सादियो से है उसे खत्म किया जाएगा। समान नागरिक संहिता कानून आने से हम आदिवासियों का अस्तित्व पहचान खत्म हो जाएगा। मौके पर रावेल लकड़ा, संजय कुजूर, प्रखंड अध्यक्ष प्रेमदास, कादोपानी मुखिया साशिकला तिर्की, ठेठईटांगर प्रमुख बिपिन पंकज मिंज, जमीर अहमद, मोहम्मद कारू, जमीर हसन आदि उपस्थित थे।

अनाथालय के बच्चों के साथ प्रेरणा शाखा ने मनाया जन्म दिन, सामग्री का वितरण

नवीन मेल संवाददाता

झुमरीतिलैया। मारवाड़ी युवा मंच की इकाई की प्रेरणा शाखा की सदस्या शीतल पोद्दार एवम मयुम के पूर्व अध्यक्ष आयुष पोद्दार की पुत्री अनाया का जन्मोत्सव कार्यक्रम ह्यह्यआनंद सबके लिएह्लह्ल कार्यक्रम के तहत होली फैमली स्थित अनाथ आश्रम के बच्चियों के साथ केक काटकर जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर बच्चे कार्यक्रम में शामिल होकर आनंदित हुए। प्रेरणा शाखा की सचिव सारिका लड्ढा ने कहा कि बालिका का जन्म गौरव के रूप में मनाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान प्रेरणा शाखा का भी उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कन्या का जन्म भी बेटों के तर्ज के रूप में मनाने की पहल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रुण हत्या बड़ा अपराध है। बेटे के चाह में आज भी लोग कन्याओं को

गर्भ में मार देते हैं। बेटियों के प्रति सामाजिक नजरिया बदलने के लिए महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगस्ता महीना रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में बेटियां नहीं होंगी तो भाई की कलाई पर राखी कौन बंधेगा। वहीं बेटियां नहीं होगी तो बहु कहाँ से लाओगे। बेटियों को बचाने के लिए प्रेरणा शाखा भी सार्थक पहल कर रही है।वहीं मयुम के पूर्व अध्यक्ष आयुष पोद्दार ने कहा कि मंच का उद्देश्य केवल अपने परिवार और शुभचिंतकों तक सीमित नहीं रखना चाहिए शादी का सालगिराह हो या बेटियों का जन्मदिन समाज के अंतिम पायदान तक के लोगों के साथ मनाने का उत्सव ही चौगुणा हो जाता है। मौके पर बच्चों के बीच स्टेशनरी समान, खाद्य पदार्थ, लीची जूस का वितरण किया गया। मौके पर प्रेरणा शाखा उपाध्यक्ष नेहा हिसारिया, उप सचिव मीना हिसारिया, मिनी हिसारिया, नेहा जैन एवम होली फैमिली की सिस्टरगण उपस्थित थी।

श्रद्धालुओं के लिए आस्था व विश्वास का केंद्र है राजा पहाड़ी शिव मंदिर



राशिद अनवर। श्री बंशीधर नगर
अनुमंडल मुख्यालय स्थित मुख्य पथ से उत्तर दिशा में लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राजा पहाड़ी शिव मंदिर। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था व विश्वास का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सीमावर्ती उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार व झारखंड के विभिन्न भागों से आकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते है व-जल चढ़ाते है। श्रद्धालुओ का मानना है कि यहां पूजा अर्चना करने से उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। पूरे श्रावण माह भर श्रद्धालुओं के आने जाने का तांता लगा रहता है।

प्राकृतिक छटाओं से आच्छादित है राजा पहाड़ी शिव मंदिर : पहाड़ की ऊंचाइयों पर बना भगवान शिव का मंदिर एक मनोरम स्थल है। चारों तरफ पेड़ पौधों की हरियाली, मंदिर तक जाने के लिए बना पीसीसी पथ व उसके किनारे हरे भरे पेड़ पौधे श्रद्धालुओं को सहसा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां पहुंचकर लोग शांति महसूस करते हैं। मंदिर निर्माण समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रावण महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। मंदिर परिसर से लगातार भक्ति गीतों के प्रसारण होने से अनुमंडल मुख्यालय भक्तिमय हो जाता है। मंदिर निर्माण समिति द्वारा भगवान शिव का महारुद्राभिषेक किया जाता है जो देखने लायक होता है। महारुद्राभिषेक के दिन पूरे रात दिन मंदिर आने जाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।

वर्ष 1988 में हुआ था मंदिर का शिलान्यास : वर्ष 1988 से पूर्व राजा पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर था। वहां भगवान रुद्र की पूजा होती थी। उस समय मंदिर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। 1988 में नगर उंटारी के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए बैठक कर मंदिर निर्माण समिति बनाया मंदिर निर्माण समिति के चिंतन, लगन व परिश्रम का फल है कि राजा पहाड़ी शिव मंदिर वर्तमान स्थिति में खड़ा है। मंदिर निर्माण समिति द्वारा 1988 में वनांचल के जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा मंदिर का शिलान्यास कराया गया था। शिलान्यास के बाद से मंदिर निर्माण समिति के लोग मंदिर निर्माण में लग गये। लोगों का सहयोग मिलता रहा और कारवां बढ़ता चला गया। आज मंदिर

अपने भव्य व आकर्षक रूप में तैयार है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिये ठहरने व पेयजल की पूरी व्यवस्था है।

श्रावणी मेला : राजा पहाड़ी शिव मंदिर परिसर में एक माह तक चलनेवाला श्रावणी मेला देखने लायक होता है। इस वर्ष भी मेला में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला भी लगाया जा रहा है। अब इस मंदिर की ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पूरे वर्ष श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। पहाड़ी के ऊपर मंदिर के निकट प्रसाद की कई स्थायी दुकानें भी हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। श्रावण माह में पूरे एक माह तक कई अस्थायी दुकानें भी लगती है, जिससे यहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। समाजसेवी हीरा प्रसाद ने कहा कि राजा पहाड़ी मंदिर में हम लोग आस्था के साथ आते हैं। अभी तक जो भी लोग मन्नत भगवान मांगते हैं भगवान उनकी मन्नत को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जाती है। मंदिर के पुजारी गोविंद पाठक ने बताया कि मंदिर निर्माण समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष भगवान शिव का महारुद्राभिषेक किया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं को कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

सुविधाओं से लैस होगी पुस्तकालय : एसडीओ

एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने किया किस्को प्रखंड स्तरीय लाइब्रेरी का निरीक्षण

नवीन मेल संवाददाता। किस्को
अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने सोमवार को किस्को मुख्य चौक पर एससीए मद से संचालित प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में लाइब्रेरी की साफ सफाई, विद्यार्थियों के सहूलियत एवं उपयोग में आने वाली शत-प्रतिशत पुस्तकों की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त किया।

मौके पर एसडीओ ने कहा कि किस्को प्रखंड क्षेत्र के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न न हो इसे लेकर उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण के बेहतर प्रयास से पूरे जिले के सभी प्रखंडो में पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। जिससे क्षेत्र के गरीब बच्चे आगे की पढ़ाई पूरी करने में दिलचस्पी दिखा सकें। शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात कर अपना भविष्य बेहतर बना सकें। कहा कि लाइब्रेरी में वाईफाई समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं बहाल किया जा रहा है ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने लाइब्रेरी में सभी विषयों का पुस्तक की उपलब्धता, शौचालय की साफ-सफाई, वाशरूम, अध्ययन कक्ष और विद्यार्थियों व आगंतुकों के सहूलियत हेतु लाइब्रेरी इंट्री रूम में सीलिंग पंखा लगाने एंव पुस्तकालय का शत-प्रतिशत कंप्यूटरीकरण किये जाने की बात कही। इधर एसडीओ ने अपनी उपस्थिति में पुस्तकालय भवन का शौचालय और वाशरूम सहित पूरे लाइब्रेरी भवन की सफाई प्रतिनियुक्त सफाई कर्मियों से कराया और प्रति दिन पुस्तकालय की साफ-सफाई करने व नियमित रूप से खोलने का निर्देश दिया। लाइब्रेरी में अध्ययन करने वाले बच्चों और सभी कर्मियों को पेयजल एवं अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं का व्यापक रूप से व्यवस्था बहाल कराने की बात कही। इधर प्रखंड स्तरीय लाइब्रेरी का नियमित संचालन हेतु एमलेन मिंज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौके पर प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी बुड़ायं सारू, सहायक अभियंता भुवनेश्वर सिंह, कनीय अभियंता रंजित कुमार, समीम अंसारी, नेयाज अंसारी मौजूद थे।

रेलवे ब्रिज के नीचे से युवक का शव बरामद जांच में जुटी पुलिस

लोहरदगा। सदर थाना क्षेत्र के शंख नदी रेलवे ब्रिज के नीचे से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पहुंच कर सदर थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जूट गई है। वहीं मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के कैमो केंद टोली निवासी पंचम लोहरा के पुत्र सूरज लोहरा के रूप में हुई है। मृतक सूरज लोहरा रविवार देर शाम नशे की हालत में घर से निकला था वहीं सोमवार सुबह उसका शव रेलवे ब्रिज के नीचे से बरामद किया गया है। रेलवे ब्रिज के नीचे शव होने की सूचना पर सदर थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजते हुए अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। इस बीच मृतक के शव मिलने की सूचना मिलने के बाद से ही परिजनों का रो- रो कर बुरा हाल है।

डिवाइडर से टकराई बाइक तो घायल दोस्त को छोड़कर फरार हुए युवक

नवीन मेल संवाददाता। सेन्हा
सेन्हा थाना क्षेत्र के कंडरा जंगल के समीप लोहरदगा गुमला मुख्य पथ पर पुलिस द्वारा लगाया गया डिवाइडर को बाइक से टक्कर मारते हुए मोटरसाइकिल सवार तीन लड़का पथ के किनारे जा गिरे। जिससे मोटरसाइकिल जे एच 08 जे 7843 पर सवार तीनो लड़का घायल हो गये। घटना के उपरांत गम्भीर अवस्था मे अपने दोस्त को छोड़ दो लड़का फरार हो गये। घटना की सूचना सेन्हा थाना पुलिस को मिलते ही स0आ0नि0 बिरेन्द्र बाखला दलबल के साथ घटना स्थल पहुंच घायल एक लड़का को सेन्हा समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहाँ चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। उपचार के उपरांत घायल की पहचान पूसो थाना क्षेत्र के लरंगो निवासी बुधेश्वर उरांव का पुत्र समीर उरांव के रूप में किया गया। जबकि दूसरा लड़का स्वर्गीय सीताराम उराँव के पुत्र लालजीत उराँव के रूप में किया गया। वहीं तीसरा लड़का का पता नही चला है। वही दुर्घटना में दो लड़कों को हल्की चोट आने के कारण घटना स्थल पर ही घायल दोस्त को छोड़ फरार हो गये। बताया जाता है कि तीनों लड़का एक ही मोटरसाइकिल पर सवार हो सेन्हा की ओर से शराब के नशे में लापरवाही एवं तेज रफ्तार से लरंगो अपना घर जा रहे थे। उसी दौरान कंडरा जंगल के समीप लगा पुलिस डिवाइडर को टक्कर मारते हुए सड़क के किनारे जा गिरे। जिससे समीर उरांव को गम्भीर चोटे लगी है। जिसको इलाज के पश्चात परिजनों के साथ घर भेज दिया गया।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

नवीन मेल संवाददाता। किस्को
किस्को थाना पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने में कामयाबी हासिल की है। किस्को थाना कांड संख्या 03/23 धारा 376,420,504 आईपीसी के नामजद अभियुक्त किस्को थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नवाडीह निवासी स्वर्गीय हरि साहु का 35 वर्षीय आरोपी पुत्र अवधेश कुमार साहु को किस्को पुलिस के द्वारा उसके घर नवाडीह से गिरफ्तार कर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया। मामले को ले थाना प्रभारी पॉलीकार्प टोप्पो ने बताया कि दुष्कर्म व अन्य धाराओं के नामजद अभियुक्त नवाडीह निवासी अवधेश साहु विगत 6 माह से फरार चल रहा था जिसे उसके पैतृक निवास नवाडीह से सुबह करीब 11 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध किस्को थाना में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की गई। छापामारी दल में पुअनि सुखराम उरांव सअनि अविनाश कुमार सिंह आरक्षी जिब्राइल बिलुंग आरक्षी सुकरा उरांव आदि जवान शामिल थे।

जमीन विवाद में मारपीट, चार घायल

भंडरा /लोहरदगा। भंडरा थाना क्षेत्र के बेदाल गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस विवाद में हुई मारपीट में चार लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल नारायण महतो को इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है।

दोनों पक्ष के बीच लाठी डंडे एवं कुदाल से मारपीट में एक महिला सहित चार लोग घायल हो गए हैं। घायलों का प्राथमिक इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा में किया गया। इस संबंध में भंडरा थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं ।घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस विवाद में दोनों पक्ष से प्राथमिकी दर्ज होगी।

कांवर यात्रा में शामिल होने के लिए दिया आमंत्रण

नवीन मेल संवाददाता। लोहरदगा
जिले से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पहाड़ी मंदिर रांची तक जाने वाले पैदल कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। जहां एक और कावड़ यात्रियों की सुविधा को लेकर व्यवस्थाओं पर कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले के प्रबुद्ध जनों और प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी जत्था में शामिल होने को लेकर आमंत्रण किया जा रहा है। महाकाल क्लब के द्वारा 9 जुलाई को सुबह 7 बजे चंद्रशेखर आजाद चौक से निकलने वाली 80 किमी की पैदल कावड़ यात्रा की अगुवाई करने को लेकर सोमवार को क्लब का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण और अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद लाल से मिला। जहां आयोजन को लेकर जानकारी युक्त आवेदन सौंपी गई। वहीं जत्था में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रण पत्र भी सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल महाकाल क्लब के अध्यक्ष रितेश कुमार उर्फ कुणाल, कार्यकारी अध्यक्ष रितेंद्र कुमार मेहता, सचिव निश्चय वर्मा, उपाध्यक्ष दिवेश साहू, संगठन मंत्री आशीष गुप्ता और मीडिया प्रभारी अमित वर्मा शामिल रहे। शहर के गणमान्य लोगों को भी पत्र देते हुए कांवड़ यात्रियों के जत्थे में शामिल होकर उनके उत्साह को बढ़ाने की अपील की गई।जिले के विभिन्न हिंदू संगठनों को भी जत्था बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाने की अपील की गई। समिति के अध्यक्ष ने कांवर यात्रा शामिल होने वाले भक्तों से अपना रजिस्ट्रेशन जल्द पूर्ण करा लेने की अपील की है।

उद्योगों के लाभुकों के साथ आईआईएम रांची के प्रोफेसर ने की चर्चा

लोहरदगा। नीति आयोग आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत प्राप्त अवार्ड मनी अर्न्तगत जिला के विभिन्न स्थापित / स्थापना प्रक्रियाधीन लघु उद्योग-धंधों से संबंध समिति, समूह, स्वयं सहायता समूह, प्लास मार्ट एवं अन्य महिला मंडल द्वारा उत्पादित वस्तुओं/ सामग्रियों के बाजार तक सुलभ पहुँच एवं बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायिक समझ एवं विपणन दक्षता के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसी उदेश्य से देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान, आईआईएम से एमओयू किया गया है। इसके तहत उद्योगों के समूहों के कुल 30 लाभुकों का विपणन प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण आईआईएम के माध्यम से करायी जानी है।

संकट सैकड़ों वाहन चालकों के समक्ष आयी परेशानी

कैरो में 3 दिन से नहीं मिल रहा पेट्रोल

शकील अहमद। कैरो
कैरो प्रखंड में एकमात्र पेट्रोल पंप नायरा कंपनी है जिसमे तीन दिनों से पेट्रोल खत्म हो गया है। जिसके कारण ग्रामीणों में हाहाकार मच गया है। भंडरा के चट्टी और कुडू प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क पर एकमात्र पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलने से इस रूट पर प्रतिदिन चलने वाली सैकड़ो वाहनों के समक्ष परेशानी उत्पन्न हो गई।

बता दें कि प्रखंड में लगभग डेढ़ हजार से अधिक बाइक, सैकड़ो कार, पिकअप वाहन, ट्रक समेत अन्य प्रकार के वाहन है। पिछले तीन दिन से कैरो पेट्रोल पंप में पेट्रोल की किल्लत बनी हुई है। पंप मालिक दिलीप कुमार का कहना है कि तकनीकि कारणों से पेट्रोल की कमी हो गई है जिसका निदान जल्द ही करा दिया जाएगा। एक दो दिनों के भीतर पेट्रोप पंप पर सुचारू रूप से पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। इधर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की किल्लत होने पर ब्लैक में पेट्रोल बेचने वालों की चांदी हो गई है। ब्लैक में पेट्रोल बेचने वाले लोग पंप के बाहर ही अपना पेट्रोल वाली बोतल लगाकर ब्लैक में खुलेआम बेचते दिखाई दे रहे हैं। निर्धारित मूल्य से लगभग 15 से 30 रुपये प्रति लीटर अधिक मूल्य लेकर पेट्रोल बेच रहे हैं। जिसको अधिक मूल्य पर खरीदने के लिए ग्रामीण मजबूर है। वाहन चालकों ने बताया कि पेट्रोल पंप पर हमेशा पेट्रोल उपलब्ध होने की स्थिति में वे प्रतिदिन कार्य के अनुसार ही पेट्रोल भरवाते थे। कोई नहीं जानता था कि पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल खत्म हो जाएगा वो भी दो तीन दिनों तक। इस स्थिति में हमलोग मजबूरी में पेट्रोल ऊंचे दामों पर ब्लैक में खरीदने को मजबूर हो गए हैं। इधर पेट्रोल पंप के बाहर ब्लैक में पेट्रोल बेचने वालों की बात करे तो जबतक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिर से सुचारू रूप से नही मिल जाता है तबतक ही उनकी चांदी रहेगी। इसलिए वेलोग भी प्रति लीटर अधिक दाम पर पेट्रोल बेच रहे हैं ताकि दो तीन दिन ही सही कुछ ज्यादा कमाई हो जाये। पेट्रोल पंप का नजरा देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल के लिए लोग किस तरह परेशान हैं। हालांकि लोगों की परेशानी कम करने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर तेल की व्यवस्था की गया है। अधिक पैसे देकर पेट्रोल ले सकते है।

केवि बरही में पेयजल आपूर्ति समस्या जल्द होगी दूर : डीडीसी

लोहरदगा। उप विकास आयुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में केंद्रीय विद्यालय, बरही में पेयजलापूर्ति की समस्या को दूर करने हेतु बैठक आयोजित हुई। विद्यालय परिसर में जलस्रोत की पहचान दो दिनों के अंदर करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी और अंचल अधिकारी सेन्हा को दिया गया। इसमें हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के साथ समन्वय स्थापित किये जाने का निर्देश दिया गया। विद्यालय के समीप जिस रैयत की भूमि पर जलस्रोत है उस रैयत के समन्वय स्थापित कर भूमि हस्तांरित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया। विद्यालय के समीप पेयजलापूर्ति हेतु गुजरने वाली पाइपलाइन योजना की मरम्मति कराये जाने का निर्देश दिया गया। पीएचईडी कार्यपालक अभियंता अनुप हांसदा, अंचल अधिकारी विजय कुमार, केंद्रीय विद्यालय के सहायक आयुक्त बलेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे।

सलगी-बड़कीचापी सड़क का हाल बेहाल ग्रामीणों को हो रही आवागमन में परेशानी

नवीन मेल संवाददाता। कुडू
कुडू प्रखंड के बड़े पंचायत में शुमार पूर्वी क्षेत्र के सलगी और बढकी चापी को मिलाने वाली मुख्य सड़क का हाल देखकर वो दावा पूरी तरह खोखला नजर आता है कि सड़के चकाचक हो गयी हैं। उपरोक्त सड़क का पिछले कई वर्षों से हाल-बेहाल है। सबसे दुखद पहलू यह है कि आए दिन इधर से होकर गुजरने वाले जनप्रतिनिधि और अधिकारीयो का बदहाल सड़क की तरफ ध्यान नहीं है। बताते चलें कि पिछले चार दिन में काफी बारिश होने के कारण गड्ढे और चौड़े व गहरे हो गए हैं। गर्मी में धूल और गर्दा उड़ाने वाले इन गड्ढों में बारिश का पानी भरा हुआ है। पानी भरने से इनकी गहराई भी पता नहीं चलती है। जिससे यहां से गुजरने वाले लोग आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। हाल इतना खराब है कि छोटे वाहन तो दूर, पैदल चलने वाले भी परेशान हैं। कुल मिलाकर कदम कदम पर बने इन गड्ढों से बचकर निकलना ग्रामवासियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क का दुरुस्त होना अति आवश्यक है। तब कही जाकर लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी।

बरसात में सावधानी जरुरी

बरसात का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में कई तरह की प्राकृतिक बीमारियां अवसर की तलाश में रहती हैं। झारखंड के पहाड़ी और पठारी इलाके में ऐसे जानलेवा खतरे प्रकृति प्रदत होते हैं। अभी हाल में वज्रपात से दो दर्जन से अधिक लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जान गंवा बैठे हैं। यह खतरा सर्वाधिक खतरनाक हैं। ऐसे में सर्तकता ही इसका रास्ता है। कारण यह खतरनाक रूप लेता जा रहा है। छोटानागपुर के इलाकों में इसका खासा असर दिखने को मिलता है। राज्य और केन्द्र सरकार लोगों को जागरूक करने में लगी है। लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। बरसात के मौसम में सर्दी,खांसी,बुखार का लगना जारी हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रमीण इलाकों में सर्प दंश से भी सैकड़ो लोगों की जानें जाती हैं। मौसम के प्राकृतिक खतरों के अलावे उमस भरी गर्मी से भी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जंगली क्षेत्रों में हाथी का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में इनकी गतिविधियों पर नजर रख कर खतरों का टाला जा सकता है। कारण इन घटनाओं में सैकड़ो लोगों की जानें असमय चली जाती हैं। नदी और नालों का जलस्तर बढ़ जाने के कारण भी कई मौतें होती हैं। सरकार और समाज चाह जाये तो इन खतरों से बचना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता है। जिस कारण बरसात के मौसम में हजारो लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में इस मौसम में ऐसे तमाम प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए जागरूकता के साथ-साथ सतर्कता पर ध्यान देने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए आने वाले सतर्कता संदेश को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बहरहाल प्रकृति के इस मौसम में आनंद की भी कोई कमी नहीं है। नंगे पहाड़ों पर हरियाली और प्रकृति के रोम-रोम में पानी बरसने से उल्लास का नजारा देखने को मिलता है। ऐसे में बरसात के पानी का आनंद लेना चाहिए,लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पहली बारिश में भींगने से फंगल इंफेक्शन ,दाद,घमौरियां और एलर्जी की समस्या हो सकती है। अगर बारिश में कोई व्यक्ति भींग जाता है तो पानी और धूल मिट्टी के वजह से स्किन गंदी हो जाती है। भींगने के बाद लंबे समय तक गीले कपड़े पहने रहने से स्किन की समस्या होती है। ऐसे में बारिश में अगर कोई भींग गया है तो साफ पानी से नहाना जरूरी है। ऐसा नहीं होने से बुखार की समस्या से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। कारण बरसात में ह्यमिडिटी बढ़ जाती है। जिस कारण शरीर का पसीना सूख नहीं पाता है। जिस वजह से कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे मौसम का आना और जाना लगा रहता है। जाड़ा,गर्मी और बरसात की भी अपनी-अपनी खूबियां और कमियां रहती हैं। बस जरूरत है मौसम के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना। यह तभी संभव है जब हम-सब प्रकृति के साथ ताल मेल बैठा लेगें। यह बहुत जरूरी है। कारण प्रकृति जहां हंसाती है,वहीं रूलाने में भी पीछे नहीं रहती है। ऐसे में प्रकृति के बताये रास्ते पर चल कर बहुत सारे आपदाओं से बचने की जरुरत है। प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार सृष्टि को संतुलित भी करती है। यह अपने साथ छेड़-छाड़ करने वालों को सजा भी देती है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को उसके बताये रास्ते पर चलने की जरुरत है। ऐसा नहीं होने पर उसके गुस्से का सामना करने से कोई नहीं रोक सकता है। मौसम हमारे जीवन में अहम रोल अदा करते हैं। बस जरुरत है उनके संगीत को अच्छी तरह से सुनना। ऐसे में अच्छे श्रोता की तरह उसकी आवाज को हम सब सुनें।

राज्य और केन्द्र सरकार लोगों को जागरूक करने में लगी है। लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। बरसात के मौसम में सर्दी,खांसी,बुखार का लगना जारी हो जाता है।

जिन्होंने डीयू को बनाया शिक्षा का महान मंदिर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के शताब्दी समारोह के अंत में मौजूद रहना इस बात की गवाही है कि यह कितना खास शिक्षण संस्थान है। महात्मा गांधी 12 अप्रैल, 1915 को पहली बार दिल्ली आये थे। उनके साथ कस्तूरबा गांधी जी भी थीं। उनका सेंट स्टीफंस कालेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्रा ने स्वागत किया। वे रुद्रा साहब के कॉलेज परिसर में बने आवास में ही ठहरे। वह कश्मीरी गेट स्थित कॉलेज इमारत अब भी है। अब भी सेंट स्टीफंस कॉलेज प्रिंसिपल के कक्ष में एक बड़ी सी ग्रुप फोटो लगी है, जो गांधी जी की उस यात्रा की याद दिलाती है। गांधी जी उसके बाद भी यहां आते रहे। वे जब भी यहां आए तो उनका सेंट स्टीफंस और हिंदू कॉलेज के छात्रों और अध्यापकों ने स्वागत किया। हालांकि वे जब पहली बार दिल्ली आये थे, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना तक नहीं हुई थी। तब तक यहां के कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा थे। डीयू तो औपचरिक रूप से 1922 में स्थापित हुई। बेशक राष्ट्र निर्माण में डीयू का योगदान शानदार रहा है। इसमें देशभर के नौजवान उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। सेंट स्टीफंस के अलावा हिंदू कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मिरांडा हाउस, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, हंसराज कॉलेज वगैरह ने देश को ही नहीं दुनिया भर को कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा हजारों-लाखों नौकरशाह, राजनीतिक नेता, आंत्रप्योनर, खिलाड़ी, एक्टर वगैरह दिये हैं। अगर बात हिंदू कॉलेज की करें तो इसकी स्थापना में दिल्ली के मशहूर समाजसेवियों जैसे लाला कृष्ण दास गुड़वाले, राय बहादुर सुल्तान सिंह और डॉ. एके सेन ने दिन-रात मेहनत करके की थी। इसकी 1899 में ही स्थापना हो गई थी। ये सब चाहते थे कि दिल्ली में स्कूल-कॉलेज खुलें। इन सबने ही दिल्ली के चांदनी चौक में इंद्रप्रस्थ कन्या हिंदू विद्यालय स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस स्कूल ने दिल्ली की बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने में शानदार भूमिका निभाई है। बेशक, हिंदू कॉलेज तथा इंद्रप्रस्थ कन्या हिंदू विद्यालय विद्लाय ने राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उधर, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) को कॉमर्स कोर्सेज के लिए भारत का सबसे उत्तम कॉलेज माना जाता है। यहां से ही पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिवगंत अरुण जेटली, टीवी पर्सनाल्टी रजत शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितेन प्रसाद भी पढ़े। अफ्रीकी देश मलावी के 2004-2012 तक राष्ट्रपति रहे बिंगु वा मुथारिका ने 1961 से 1964 तक श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही ग्रेजुएशन की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस का भी अपना विशेष स्थान है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में कॉलेजों की 2021 श्रेणी में देश के टॉप 100 कॉलेजों में मिरांडा हाउस अव्वल रहा था। सन 1948 में मिरांडा हाउस की स्थापना हुई। मिरांडा हाउस से पढ़कर निकली छात्राओं ने आर्ट, फिल्म, लेखन, सियासत वगैरह की दुनिया में भरपूर नाम कमाया। लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार, चित्रकार अंजली इला मेनन, फिल्मी हस्तियां जैसे मीरा नायर और नंदिता दास, सशक्त लेखिका रक्षंनादा जलील, उर्वशी भुटालिया और अनीता देसाई, डांसर और ब्यूरोक्रेट शोभना नारायण मिरांडा हाउस में ही पढ़ीं। इसी मिरांडा हाउस की छात्रा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और माकपा नेता वृंदा कारत भी रही हैं। दिल्ली में श्रीराम कला केन्द्र की प्राण और आत्मा शोभा दीपक सिंह भी यहां ही पढ़ी हैं। मिरांडा हाउस की फैक्ल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सर्वेश्रेष्ठ मानी जाती रही है। इधर लंबे समय तक प्रिंसिपल रही जानकी अम्मा ने मिरांडा हाउस की फैक्ल्टी से बेहतरीन टीचर्स को जोड़ा। प्रभा दीक्षित तथा ललिता ईश्वरन (राजनीतिक शास्त्र), मन्नू भंडारी (हिन्दी), कृष्णा इस्लोवे, मासूमा अली, वसंता मेनन (अंग्रेजी) जैसी अध्यापिकाएं मिरांडा हाउस में पढ़ाती रहीं हैं। प्रभा दीक्षित देश के तमाम अखबारों में सामयिक विषयों पर लिखती भी थीं। डीयू की चर्चा करते हुए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अनदेखी करना असंभव है। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी ताकि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और भूगोल जैसे विषयों पर गहन शोध हो सके। इससे देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री जुड़ते रहे हैं अध्यापक के रूप में। यहां से निकले छात्रों ने अपने-अपने क्षेत्रों में ठोस काम भी किया। यहां प्रो.सुखमय चक्रवर्ती, डॉ. मृणाल दत्ता चौधरी, डॉ. एएल नागर, डॉ.राम सिंह जैसे आदरणीय अध्यापक पढ़ाते रहे। यहां के कैफेटरिया में अध्यापकों और उनके छात्रों के बीच सारगर्भित चचाएं अखंड ज्योति की तरह जारी रहती हैं। इधर होने वाली बहसों में मतभेद भी होते हैं पर संवाद मर्यादित रहते हैं। इससे न जाने कितने ज्ञानी, सुसंस्कृत और अध्यापक जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में भाग लेते हुए अपने संबोधन में कहा कि कोई भी देश हो उसकी यूनिवर्सिटीज उसकी उपलब्धि का सच्चा प्रतीक होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट रही है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मूवमेंट को जिया है, इस यूनिवर्सिटी ने हर मूवमेंट में जान भर दी है। डीयू की जब स्थापना हुई थी तब इसमें केवल तीन कॉलेज हुआ करते थे और अब 90 से अधिक कॉलेज डीयू का हिस्सा हैं। आज डीयू में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। ये कहना पड़ेगा कि आज डीयू जिस मुकाम पर है, उसमें यहां के बहुत से अध्यापकों के योगदान को याद रखना होगा। उनमें किरोड़ीमल कॉलेज के फ्रेंक ठाकुर दास का जिक्र सबसे पहले करना होगा। वे अंग्रेजी और ड्रामा के अध्यापक थे। उनकी प्रेरणा से ही अमिताभ बच्चन, सतीश कौशिक, कुल भूषण जैसे छात्र एक्टिंग की दुनिया की तरफ गये। इस बीच, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में सड़क के आर-पार हैं सेंट स्टीफंस कॉलेज और हिन्दू कॉलेज। इस सड़क का नाम है सुधीर बोस मार्ग। सुधीर बोस को डीयू बिरादरी एक श्रेष्ठ शिक्षक तथा क्रिकेट प्रेमी के रूप में याद करती है। सुधीर बोस सेंट स्टीफंस कॉलेज में 1937-63 तक फिलॉस्फी पढ़ाते रहे।

2004-2012 तक राष्ट्रपति रहे बिंगु वा मुथारिका ने 1961 से 1964 तक श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही ग्रेजुएशन की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस का भी अपना विशेष स्थान है।

इन दिनों

आर.के.सिन्हा

बोधि वृक्ष

आईये सुने भगवान सत्यनाराण की कथा

राजा बोले - हे साधो! पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बन्धु-बान्धवों के साथ मैं अतुल तेज सम्पन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूं। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा - राजन ! इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइये, आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है। 'इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी।' ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनन्दपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा - 'जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा' - इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती-साध्वी भार्या पति के साथ आनन्द चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्रीसत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। दसवें महीने में उससे कन्यारत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की भांति दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का 'कलावती' नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा - आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला - प्रिये! इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनन्तर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मन्त्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो - ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया।

(क्रमशः)

उत्तर प्रदेश में योगीराज, सुशासन की बहार

मृत्युंजय दीक्षित

प्रयागराज के लूकरगंज में 1731 वर्गमीटर की नजूल की जमीन माफिया अतीक के कब्जे में थी। उसकी कीमत लगभग दस करोड़ रुपये थी। इस जमीन को 13 सितंबर 2020 को मुक्त कराया गया था।

अभियान

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। सरकारी तथा गैर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। इस मुक्त भूमि पर आवास बनाकर गरीबों को दिये जा रहे हैं। अपना घर मिलने पर इन गरीबों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। होठों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रशंसा और प्रार्थना है। प्रयागराज के लूकरगंज में 1731 वर्गमीटर की नजूल की जमीन माफिया अतीक के कब्जे में थी। उसकी कीमत लगभग दस करोड़ रुपये थी। इस जमीन को 13 सितंबर 2020 को मुक्त कराया गया था। वर्ष 2021 में 26 सितंबर को मुख्यमंत्री ने यहां गरीबों के लिए आवासीय फ्लैट्स की आधारशिला रखी और मात्र 18 माह में यह आवासीय योजना पूरी हो गई। इस पर 5.68 करोड़ रुपये खर्च हुए। आवासीय योजना 1731 वर्गमीटर में विकसित की गई और इसमें दो ब्लॉक बने। गरीबों को यह फ्लैट दिये गये हैं। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। इनको बनाने में वास्तु का भी ध्यान रखा गया है। इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपना घर बना पायेंगे। लाभार्थियों को आवास की चाभी सौंपते वक्त मुख्यमंत्री ने फिर माफिया को सुधरने की चेतावनी दी है। वह कहते हैं पूर्ववर्ती माफिया के साथ खड़े रहते थे जबकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। 2017 से पहले गुंडे किसी की भी जमीन हथिया लेते थे। अब ऐसा नहीं होने दिया जायेगा। यह भाजपा का सुशासन है। मुख्यमंत्री में जनसभा में प्रदेश के अधिकारियों से कहा वह डरे नहीं। विकास प्राधिकरण मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए आवास बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी को भी आवास नहीं मिल पाया था। अब 54 लाख से ज्यादा गरीबों को आवास मिल गया है। मुख्यमंत्री के सुशासन में अब तक माफिया के पंजों से कब्जाई गई 66,575.75 हेक्टेयर से अधिक भूमि छुड़ाई जा चुकी है। लखनऊ के पिपरसंड इलाके में भी भूमि का बड़ा टुकड़ा माफिया से मुक्त कराया गया है। इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक अगस्त 2021 को यूपी स्टेट इंस्टीटयूट आफ फॉरेंसिक साइंसेज की नींव रखी थी। दो हजार करोड़ रुपये की लागत से यह इंस्टीटयूट बनकर खड़ा हो चुका है। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि अब तक माफिया से 3516 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त, ध्वस्त व कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। माफिया अतीक के मारे जाने पर प्रदेश के तमाम विरोधी दल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि प्रदेश में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसकी वास्तविकता प्रयागराज में दिखाई दी जहां पर बिना किसी भेदभाव के पात्रता के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को भी आवास मिला है। इस सुशासन की वजह से सपा, बसपा, कांग्रेस सहित तमाम दलों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। मायावती कह रही हैं कि पसमांदा मुसलमान तो उनका वोटर है किंतु वह यह नहीं बता पा रही हैं कि उन्होंने इनके लिए क्या किया है । यही हाल सपा का है। सपा ने मुसलमानों के नाम पर गुंडई राज कायम किया। गुंडों को सत्ता की कुर्सी सौंपी। सुशासन का दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन यह देखने को मिला है कि इस बार प्रदेश में बकरीद पर कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई और कुबार्नी की परंपरा भी निर्धारित स्थानों पर निभाई गई।

फोटो की दुनिया

फेसबुक वॉल से

महाराष्ट्र में जनादेश का सम्मान

महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव का जनादेश भाजपा-शिवसेना के लिए था। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उस जनादेश को अपमानित किया था। इसमें सुधार एकनाथ शिंदे ने किया। उन्होंने बाला साहब ठाकरे की विरासत के अनुरूप भाजपा के साथ सरकार बनाई। अब अजित पवार ने उस जनादेश को मजबूत बनाने का कार्य किया है। कुछ दिन पहले पटना में विपक्षी नेता गठबंधन बनाने के लिए मिले थे। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा जगजाहिर है। कोई भी किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहता। इसलिए पटना में बात नहीं बनीं। एक और बैठक होगी। उसके पहले ही महाराष्ट्र का महाआघाड़ी दूसरी बार बिखर गया। पहली बार एकनाथ शिंदे ने कथित सेक्युलर राजनीति से परेशान होकर महा आघाड़ी को छोड़ा। अब एनसीपी को छोड़कर अजित पवार शिंदे-भाजपा सरकार में शामिल हो गये। अजित पवार के साथ करीब तीस विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। परिवारवाद से पृथक विरासत का सम्मान दिखाई दे रहा है। पहले उद्धव ठाकरे को छोड़ कर एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ आ गये थे। अब अजित पवार ने परिवारवादी पार्टी का परित्याग कर दिया है। परिवार आधारित पार्टियों के इतिहास में नये अध्याय जुड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लिए वैचारिक विरासत का परित्याग कर दिया था, जबकि भाजपा ने परिवारवाद से पृथक विचारधारा को सम्मान दिया। एकनाथ शिंदे की ताजपोशी इसका प्रमाण था। परिवार के उत्तराधिकारी देखते रहे, सत्ता का हस्तांतरण परिवार के बाहर हुआ। इसके साथ ही विरासत पर दावेदारी भी बदल गई थी। उद्धव परिवार के लोगों पर विचारों की अवहेलना करने का आरोप लगा। इसके जवाब में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिन्हें बाहरी कहा गया, वह विचारधारा पर अमल का संदेश दे रहे है। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के अनुयायी एकनाथ शिंदे भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। इस प्रकार भाजपा ने साबित किया कि था कि उसके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बल्कि विचारधारा का महत्व है। एकनाथ शिंदे ने बाल ठाकरे की विरासत पर अमल का मंसूबा दिखाया, जबकि उद्धव ठाकरे ने इसे पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व की भूमिका और राज्य के विकास पर हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की भूमिका के आधार पर राज्य के विकास के लिए वे काम करेंगे। इसी प्रकार अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। कुछ दिन पहले शरद पवार ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया था। देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित भी उप मुख्यमंत्री बन गये। यह सरकार देवेन्द्र फडणवीस के मुख्यमंत्री काल में शुरू किये गये जनहित कार्यों को आगे बढ़ा रही है। बाल ठाकरे की शिवसेना और भाजपा के बीच स्वाभाविक गठबंधन था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों पर परस्पर सहमति थी। लेकिन उनके उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे ने विचारों की जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी को महत्व दिया। इसलिए वह एनसीपी और कांग्रेस की शरण में चले गये थे। उद्धव जानते थे कि कांग्रेस और एनसीपी का संख्याबल अधिक है। ऐसे में वह नाममात्र के ही मुख्यमन्त्री रहेंगे। गठबंधन की कमान शरद पवार के नियन्त्रण में थी। वही अघोषित रूप में सुपर सीएम थे। महाराष्ट्र में ढाई वर्ष बाद बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को सम्मान मिला।

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित भी उप मुख्यमंत्री बन गये। यह सरकार देवेन्द्र फडणवीस के मुख्यमंत्री काल में शुरू किये गये जनहित कार्यों को आगे बढ़ा रही है।

राजनीति

स्वामी, पारिजात माइनिंग इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा.लि. की ओर से 502, मंगलमूर्ति हाईट्स, रानी बगान, हरमू रोड, रांची से हर्षवर्द्धन बजाज द्वारा प्रकाशित एवं पारिजात माइनिंग इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा.लि. C/O शिवासाईं पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा पेट्रोल पम्प, रातू, रांची-835222, झारखंड द्वारा मुद्रित। रजिस्ट्रेशन नं: BIHHIN/1999/155, प्रधान संपादक : सुरेश बजाज, संपादक : हर्षवर्द्धन बजाज, प्रेस कार्यालय : रांची रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर (डालटनगंज) पलामू-822102, फोन नंबर : 222539, फैक्स नंबर : 06562-241176/ 231257, रांची कार्यालय : 502बी, पांचवी मंजिल, मंगलमूर्ति हाईट्स, रानी बगान हरमू रोड, रांची-834001, फोन नंबर : 0651-2283384, फैक्स नंबर : 0651-2283386, दिल्ली कार्यालय : 25, निचली मंजिल, तानसेन मार्ग, (बंगाली बाजार), नई दिल्ली-1, ई-मेल : rnm_hb@yahoo.co.in, rnm.hvb@gmail.com।

पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत बैठक आयोजित

अल्ट्रासाउंड केंद्रों, अस्पतालों का करें औचक निरीक्षण: डीसी

नवीन मेल संवाददाता

रामगढ़ । उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट(गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान-तकनीक(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम,1994 के निमित्त प्रावधानों के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निदेर्शों की जानकारी लेते हुए सिविल सर्जन को नियमित रूप से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों, अस्पतालों का औचक रूप से जांच कर संबंधित प्रतिवेदन जिला स्तर पर उपलब्ध कराने, अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील करने तथा नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगढ़ से अल्ट्रासाउंड केंद्रों के

संचालन के दौरान संधारित की जाने वाली जानकारी एवं उन्हें जिला स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु संचालकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए वैसे संचालक जो नियमित रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं को सूचीबद्ध करने एवं उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं, उन्होंने सिविल सर्जन सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड से संबंधित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन एंट्री का मिलान करने एवं उनमे भिन्नता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगढ़ को अल्ट्रासाउंड मशीनों का नवीनीकरण एवं नए अल्ट्रासाउंड मशीनों के स्थापन के संबंध में सम्पूर्ण जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगढ़ को अल्ट्रासाउंड केंद्र में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों के रोस्टर की जांच करते हुए केंद्रों का संचालन नियम अनुसार सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए वहीं उन्होंने अलग-अलग अस्पतालों में कार्य कर रहे चिकित्सकों की समय सारिणी के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मौके पर सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार, डीआरसीएचओ डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल डॉ स्वराज, सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शशांक शेखर मिश्र, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों सहित अन्य उपस्थित थे।

रामगढ़ : श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया

नवीन मेल संवाददाता

रामगढ़ । श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य हरजाप सिंह सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहें। प्लास्टिक बैग्स पर रोकथाम के लिए हर वर्ष 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। इस अवसर पर लोगों को प्रदूषण की समस्या और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बच्चों को जागरूक किया गया। बिगड़ता पर्यावरण दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है ।प्लास्टिक के बैग्स डीकंपोज होने में सैकड़ों सालों का समय लगने के कारण है

पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह अपने जीवन से प्लास्टिक को निकाल फेंके। विद्यालय के बच्चों ने रामगढ़ को प्लास्टिक मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बच्चों ने बढ़-चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभी ने अपने उत्साह और लगन के साथ अपने जीवन में कपड़े का थैला को लाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में मंच का संचालन नैना जयप्रकाश (11वी साइंस)कर रही थी और आस्था मिश्रा (11वी साइंस) के द्वारा पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए भाषण दिया गया। मनजोत कौर (5-ए) द्वारा पर्यावरण से जुड़े सुविचार प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के प्राचार्य हरजाप सिंह के द्वारा बच्चों को अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक को न इस्तेमाल करने आग्रह किया गया।

विधायक ने किया बंगाली कॉलोनी का निरीक्षण

नवीन मेल संवाददाता

हजारीबाग। हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने शहर के वार्ड-18 स्थित ओकनी बंगाली कॉलोनी का निरीक्षण किया. साथ ही लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए. लोगों ने विधायक को बताया कि यहां के लोग नाली की समस्या से परेशान हैं. इसके अलावा बिजली और पानी की समस्याओं के निदान पर भी सकारात्मक चर्चा विधायर ने की. मनीष जायसवाल ने जल्द विधायक निधि से नाली निर्माण कराने और विभाग से वार्ता

कर बिजली की समस्या का निदान कराने का भरोसा दिलाया. वहीं नल से जल योजना के तहत इस मोहल्ले को पूर्ण कवर्ड करने का भी आश्वासन लोगों को दिया. विधायक ने कहा कि हजारीबाग का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहे और जरूरी समस्याओं का समय से निदान हो सके, इसके लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं.

आजीवन कारावास के सजायाफ्ता शिक्षक संजय कुमार सिन्हा निलंबित

हजारीबाग। हजारीबाग जिला के चौपारण में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता शिक्षक संजय कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया गया है. वह प्राथमिक विद्यालय महुदी चौपारण-वन में सहायक शिक्षक थे. डीएसई ने कोर्ट की सजा का हवाला देते हुए सोमवार को उनके निलंबन प्रक्रिया पर मुहर लगा दी. हजारीबाग कुम्हारटोली निवासी शिक्षक संजय कुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप था. घटना वर्ष 2016 की बताई जाती है. उनके तीन बच्चे भी हैं, जो मां की मौत के बाद नानी के साथ रहते हैं. शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी दिप्ती बाला सिन्हा की हत्या कर दी थी. पिछले माह 12 जून से वह जेपी केंद्रीय कारा में बंद हैं. पांच दिन पहले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम की कोर्ट में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. हालांकि शिक्षक लगातार यह कहते रहे कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है. बहरहाल डीएसई ऑफिस से आगे उन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है. इसका निर्णय जिला शिक्षा स्थापना समिति में ली जाएगी. डीएसई ऑफिस से इसकी अनुशंसा की जाएगी.

60/40 नाय चलतो को लेकर हुई बैठक

जयराम महतो के कार्यक्रम को सफल बनाने का लिया निर्णय

नवीन मेल संवाददाता

झुमरी तिलैया। राजनीतिक पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति (जेबीकेएसएस) कोडरमा इकाई के बैनर तले झारखंड हक मार नियोजन नीति 60-40 नाय चलतो एवं राजनीतिक पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की एक बैठक हुई। कोडरमा जिला में संगठन विस्तार पर चर्चा एवं टाइगर जयराम महतो का कार्यक्रम करने को सफल करने पर चर्चा हुई। सीएचएस स्कूल झुमरी तिलैया मे बैठक की अध्यक्षता प्रेम नायक एवं संचालन चंदन कुमार ने किया। बैठक में छात्र नेता सुधीर कुमार राम ने कहा कि सभी को टाईगर जयराम महतो बनने की जरूरत है। अपना अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा छीन कर लेना होगा। वहीं छात्र नेता (जेबीकेएसएस) एवं (जेएसएसयु) के अध्यक्ष प्रेम नायक ने कहा कि जयराम दादा का कार्यक्रम कोडरमा की धरती पर बहुत ही जल्द होगा। साथ ही साथ कहा कि आज हमारे झारखंड में सभी राजनीतिक पार्टिया लूटने पर उतारू है। और झारखंड के युवा को आई हेट पॉलिटिक्स नहीं,आई लव पॉलिटिक्स कहना होगा। और अब हम लोग को राजनीति में आना ही होगा। तथा संगठन विस्तार को लेकर अगला बैठक की तिथि 9 जुलाई 2023 स्थान सीएम हाई स्कूल डोमचांच समय 2रू00 दिन रखी गई है। छात्र नेता बलराम यादव ने कहा कि हम सभी युवा टाइगर जयराम महतो की नीति विचार से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़े हैं। एवं उनका भव्य कार्यक्रम कोडरमा की धरती पर करने की बात कही गई। साथ ही साथ कोष की व्यवस्था करने पर जोर दी गई।और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की बात कही गई। चंदन कुमार ने कहा कि हम लोग जयनगर से स्कूल एवं कोचिंग से मिलकर संपर्क स्थापित कर वहा से एक कोच की व्यवस्था करेंगे। एवं सुदूर गांव में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। एवं प्रखंड स्तर तक कार्यक्रम कैसे हो इस पर विचार करने कि बात कही गई। छात्र नेता अजय कुमार राणा ने कहा कि झारखंड को अलग हुए 23 साल हो गया है,और झारखंडी अपने हक और अधिकार आज तक नहीं ले पाए हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बैठक में छात्र नेता बलराम यादव,नवीन चंद्रवंशी,रंजीत यादव,मुन्ना यादव,रंजीत कुमार यादव,राहुल कुमार, चंदन यादव,अजय कुमार राणा,पिंटू कुमार,रंजीत कुमार राणा,योगेंद्र पंडित,भागीरथ कुमार,मुकेश शर्मा, विकास कुमार,लालू यादव ,आकाश कुमार,रामनिवास यादव,राजेंद्र राणा, आशीष कुमार,पवन कुमार,शैलेश कुमार,रामचंद्र यादव,जैकी यादव,अनिल यादव,अशोक कुमार, शैलेंद्र कुमार,रमेश कुमार,अमित कुमार,मनीष यादव अन्य छात्र उपस्थित थे।

पीडीएस डीलरों ने 1 अगस्त से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी

नवीन मेल संवाददाता

हजारीबाग। झारखंड के 25 हजार पीडीएस डीलर सरकार की नीतियों के विरोध में 11 सूत्री मांगों को लेकर एक अगस्त से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे. साथ ही सभी डीलर अपनी ई-पॉश मशीनों को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास जमा कर देंगे. जिसकी जानकारी हजारीबाग फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा के हवाले से जिलाध्यक्ष नंदू प्रसाद ने दी. उन्होंने बताया कि डीलरों के आंदोलन की तैयारी के लिए पांच सदस्यों का संयोजक मंडल बनाया गया है. जिसके लिए सभी प्रखंड के अध्यक्षों और सचिवों के साथ बैठक कर उनकी भी राय ली गई.

हड़ताल के दौरान सभी डीलरों ने दुकान नहीं खोलने का आश्वासन दिया. मौके पर जिला महासचिव सुनील कुमार सिन्हा, धनेश्वर प्रसाद मेहता, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अर्चना सिन्हा, दिलीप पासवान, अशोक चंद्रवंशी, डोमन पांडे, विशेश्वर करमाली, खुर्शीद आलम, श्याम सुंदर पांडेय, नंदलाल तिवारी, सुकुल रजक, सत्येंद्र गुप्ता आदि ने आंदोलन को धारदार बनाने की बात कही. 14 महीनें से नहीं मिला है कमीशन पीडीएस डीलरों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित किए गए खाद्यान्न का कमीशन नहीं मिला है. आर्थिक स्थिति से बेहाल पीडीएस डीलर संघ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बकाया कमीशन का भुगतान करने की मांग की है.

अर्द्धनग्न अवस्था में मिली युवक की लाश

नवीन मेल संवाददाता

गिरिडीह। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेदा बड़का अहरा के समीप अर्धनग्न अवस्था में एक युवक की लाश मिली है. युवक की पहचान 42 वर्षीय? शंकर तुरी, बिरनी प्रखंड के धर्मपुर निवासी के रूप में की गई है. शंकर के भाई शिबू तुरी ने बताया कि रविवार की दोपहर शंकर बाल कटवाने की बात कहकर बाइक से गया था. देररात तक उसका कोई पता नहीं चला. इस दौरान यह भी पता चला कि शंकर कुछ मिनट के लिए मुफस्सिल थाना इलाके के लेदा पंचायत अंतर्गत बंशीडीह भी गया था. उसके बाद अगले दिन सोमवार की सुबह यह सूचना मिली कि लेदा मंगरीहाट के पास बड़का अहरा के मेढ के नीचे शंकर की लाश पड़ी है. यहां पहुंचे तो देखा कि शंकर की गंजी, जूता, बेल्ट जहां-तहां पड़े हुए हैं. जबकि बाइक तथा मोबाइल गायब है. शिबू तुरी ने कहा कि उसके भाई की हत्या हुई है. इधर घटना की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया. घटना की सूचना पर सिंदवरिया मुखिया रामेश्वर प्रसाद वर्मा भी मौके पर पहुंचे और कहा कि इस हत्या में शामिल आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दे.

कोडरमा केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण को लेकर बैठक

नवीन मेल संवाददाता

कोडरमा। झुमरी तिलैया स्थित गुमो में केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण कार्य को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुआ। बैठक में अंचल अधिकारी कोडरमा, विद्यालय के प्राचार्य, अंचल निरीक्षक, भवन निर्माण करने वाले संवेदक शामिल हुए। बैठक में सबसे पहले विद्यालय के निर्माण कार्य से संबंधित सभी बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। एसडीएम मीना ने विद्यालय के निर्माण करने वाले संवेदक से कहा कि विद्यालय का सबसे पहले बाउंड्री वॉल का निर्माण करें और निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का बाधा या समस्या उत्पन्न होती है तो इसकी सूचना तुरंत दें । निर्माण कार्य हेतु मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की तैनाती की जायेगी ताकि निर्माण कार्य में किसी तरह का बाधा न हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी और संवेदक आपस मे बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा करें। बैठक मे मुख्य रूप से अंचल अधिकारी कोडरमा अनिल कुमार, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी, अमीन व संवेदक मौजूद रहे।

धनबाद : रेलवे ने 40 अवैध दुकानों पर चलाया बुलडोजर

धनबाद। रेलवे ने 3 जुलाई सोमवार को भूली मोड़ के पास 40 अवैध दुकानों को जिला प्रशासन की मदद से ध्वस्त कर दिया. अतिक्रमण हटाने वाली टीम में भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे. दुकानदारों को एक माह पहले ही दुकान हटाने का नोटिस दिया गया था. नोटिस मिलने के बाद भी दुकानदारों ने दुकान नहीं हटाई तो सोमवार को रेल प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से 40 दुकानों को ध्वस्त कर दिया. अतिक्रमण हटाओ अभियान में रेल पुलिस बल के साथ धनबाद सीओ प्रशांत कुमार लायक, भूली पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा बल भी शामिल थे.

श्रीसेवायतन ने पिपराडीह में लगाया स्वास्थ्य शिविर

नवीन मेल संवाददाता

गिरिडीह। मानव सेवा में समर्पित संस्था श्रीसेवायतन मधुबन की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पीरटांड़ प्रखंड के क्षेत्र में निरंतर किया जा रहा है. मालूम हो कि इस शिविर का आयोजन आचार्यश्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद व परम पूज्य मुनिश्री प्रमाणसागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से अध्यक्ष राजकुमार अजमेरा व महामंत्री विजय पांड्या के मार्ग दर्शन में किया गया. श्रीसेवायतन मधुबन के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सोमवार को पिपराडीह स्कूल में आयोजन किया गया. जिसमें 71 मरीजों का इलाज किया गया. शिविर में डॉक्टर सुभाष बुद्रुक, डॉ विजया बुद्रुक, डॉक्टर मोहित जैन, डॉक्टर तरुण लोधी व डॉक्टर आरती पटेल सहित कई चिकित्साकर्मी मौजूद थे.

मारवाडी युवा मंच

नप के सहयोग से किया जायेगा पौधरोपण कार्यक्रम

कोडरमा स्टेशन को उपलब्ध कराया व्हील चेयर

नवीन मेल संवाददाता

झुमरी तिलैया। मारवाड़ी युवा मंच अपने सामाजिक दायित्व के तहत कोडरमा रेलवे स्टेशन के सीटीआई अरविन्द कुमार को जरूरतमंद यात्रियों के मदद के लिए व्हील चैयर उपलब्ध कराया। इस अवसर पर सीटीआई अरविन्द कुमार ने कहा कि मंच के द्वारा जो सार्थक पहल की जा रही है वे सराहनीय है। जून माह स्टेशन परिसर को वाटर कूलर उपलब्ध कराया जिससे 1500 से 2 हजार यात्री व रेलकर्मी आरपीएफ इसका लाभ ले रही है। वहीं मंच के अध्यक्ष राज पसीचिया ने कहा कि गौरी शंकर पचीसिया के स्मृति में यह व्हील चैयर उपलब्ध कराया गया है। उन्होनें कहा कि मंच का उद्धेश्य समाज सेवा है और समय समय पर मंच के द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की जाती है। उन्होने यह भी बताया कि मंगलवार को नगर पर्षद के सहयोग से झरना कुंड मंदिर के रास्ते में फलदार पौधे लगाने का कार्य किय जायेगा। वहीं जुलाई माह में मंच के द्वारा गौ आहार कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में डी क्लब के माध्यम से मधुमेह जागरूकता शिविर सावन माह में कॉवेरियों के लिए सेवा का कार्य किये जायेगो। उन्होनें यह भी कहा कि आगामी 16 जुलाई को रामगढ में आयोजित मंडल क की बैठक में स्थानीय मारवाडी युवा मंच के पदाधिकारी व सदस्य शिरकत करेगें। इस अवसर पर पूर्व सचिव संजय ढोल्या शिवेश पचीसिया, अजय शर्मा, विनायक पचीसिया के अलावा महिलाएँ एवं रेलकर्मी उपस्थित थे।

90 मीटर का कोई दबाव नहीं, विश्व चैंम्पियनशिप से पहले फिटनेस पर फोकस : नीरज

एजेंसी। नई दिल्ली

पिछले सप्ताह लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले ओलंपिक भालाफेंक चैम्पियन नीरज चोपड़ा ने सोमवार को कहा कि अगस्त में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप से पहले शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर फोकस रहेगा लेकिन 90 मीटर की बाधा पार करने का कोई दबाव नहीं है । मांसपेशियों में खिंचाव के कारण तीन शीर्ष स्पधाओं में भाग नहीं लेने वाले चोपड़ा ने डायमंड लीग के लुसाने चरण में वापसी करते हुए पिछले सप्ताह 87.66 मीटर की दूरी के साथ लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने पांच मई को दोहा में अपने करियर के चौथे सर्वश्रेष्ठ 88.67 मीटर के थ्रो के साथ सत्र की शुरूआती डायमंड लीग जीती थी। नीरज चोपड़ा ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कराई गई वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा, शारीरिक और मानसिक रूप से दोहा की तुलना में लुसाने में काफी कठिन था क्योंकि बीच में चोटिल होने के कारण पूरा फोकस उस पर रह गया था । सत्र के बीच में चोट लग जाने पर रिकवरी पर फोकस चला जाता है। उन्होंने कहा, बीच में मैने तीन कांटिनेंटल गोल्ड स्तर के टूनार्मेंट छोड़े जहां मौसम अच्छा था और

मैं 90 मीटर की बाधा पार कर सकता था लेकिन इसका कोई दबाव नहीं है। अभी एशियाई खेल और विश्व चैम्पियनशिप होनी है तो जिस दिन परिस्थितियां बनेंगी, 90 मीटर का थ्रो लग जायेगा। लुसाने के मौसम को देखते हुए प्रदर्शन अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस 19 से 27 अगस्त तक हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप में सौ प्रतिशत फिट रहकर उतरने पर होगा। चोपड़ा ने कहा, अभी तक मैने विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण नहीं जीता है और इस बार इस कमी को पूरी करने के लिये काफी मेहनत करनी है। फोकस शारीरिक फिटनेस और मानसिक दृढता पर रहेगा। उससे पहले टूनार्मेंटों का चयन भी काफी सोच समझकर करना है ताकि चोटमुक्त रहूं और फिटनेस भी बरकरार रहे। चोपड़ा ने 2022 में अमेरिका के यूजीन में विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता था। अपने प्रदर्शन में निरंतरता का श्रेय आत्मविश्वास को देते हुए उन्होंने कहा, मुझे इतना तो यकीन रहता ही है कि छठे थ्रो तक मैं हार नहीं मानूंगा और कई बार आखिरी थ्रो में बाजी पलट जाती है। यह आत्मविश्वास फिटनेस और अभ्यास से आता है और इसी की वजह से दबाव महसूस नहीं होता।

नीरज चोपड़ा विश्व के शीर्ष पांच एथलीटों में से एक : मुरली श्रीशंकर

भारत के लंबी कूद के शीर्ष खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने सोमवार को कहा कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा हर तरह की परिस्थितियों से आसानी से सामंजस्य बिठाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की अपनी क्षमता के कारण दुनिया के शीर्ष पांच ट्रैक और फील्ड एथलीटों में शामिल हैं। भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद 25 वर्षीय नीरज ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता। वह डायमंड लीग में मौजूदा चैंपियन हैं। इसके अलावा उन्होंने एशियाई खेल (2018) और राष्ट्रमंडल खेल (2018) में भी स्वर्ण पदक जीता था। चोपड़ा और चक्का फेंक के एथलीट विकास गौड़ा के बाद श्रीशंकर पिछले महीने पेरिस में डायमंड लीग में शीर्ष तीन में जगह बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। श्रीशंकर ने पीटीआई से कहा, वह (चोपड़ा) विश्व में हर तरह की परिस्थितियों से अच्छी तरह तालमेल बिठाता है और कैसी भी परिस्थिति हो उसमें अच्छा परिणाम देता है। वह न सिर्फ भाला फेंक का शीर्ष खिलाड़ी है, बल्कि इस समय दुनिया के शीर्ष पांच ट्रैक और फील्ड एथलीटों में से एक है।

NEWS इन ब्रीफ

एशेज सीरीज के बाकी बचे मैचों से बाहर हुए नाथन ल्योन

लंदन। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन ल्योन एशेज सीरीज के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन क्षेत्ररक्षण करते समय ल्योन की पिंडली में गंभीर चोट लग गई। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। ल्योन की जगह टॉड मर्फी को ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है। ल्योन ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक वेबसाइट से बातचीत में कहा, "मर्फी की स्टॉक बॉल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में काफी अच्छी है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ यह एक अलग चुनौती होगी। यदि वे उसके पास आते हैं तो यह टॉड को एक अच्छी चुनौती प्रदान करता है लेकिन यहां इंग्लैंड में उन्हें खुद को साबित करने का मौका है। यह एक बड़ी एशेज श्रृंखला है, वह इस अवसर से उत्साहित हैं।" ल्योन ने कहा, "मैं दूसरे टेस्ट के चौथे दिन आखिरी सत्र में टॉड के साथ बैठा और स्पिन गेंदबाजी के बारे में बात की जैसा कि हम करते हैं। मुझे टॉड पर बहुत भरोसा है। वह एक अच्छा युवा खिलाड़ी है, वह सीखने को तैयार है।"

कलाई की चोट के कारण विंबलडन से हटे निक किर्गियोस

लंदन। ऑस्ट्रेलिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस ने कलाई की चोट के कारण ग्रासकोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन से नाम वापस ले लिया है। वह पिछले साल टूर्नामेंट के उपविजेता रहे थे। 28 वर्षीय खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुझे इस साल विंबलडन से हटना पड़ रहा है। मैंने अपनी सर्जरी के बाद तैयार होने और फिर से विंबलडन कोर्ट पर कदम रखने में सक्षम होने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। वापसी के दौरान मुझे अपनी कलाई में कुछ दर्द का अनुभव हुआ। एहतियात के तौर पर मैंने इसका स्कैन कराया और इसमें मेरी कलाई में फटा हुआ लिगामेंट दिखा। मैंने खेलने में सक्षम होने के लिए हर संभव कोशिश की और मुझे यह कहते हुए निराशा हो रही है कि मेरे पास विंबलडन से पहले इसे प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था।

कनाडा ओपन 2023 में उतरेंगे सिंधु व सेन

एजेंसी। कैलगरी

स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन मंगलवार से यहां शुरू हो रहे कनाडा ओपन विश्व टूर सुपर 500 टूर्नामेंट में लय हासिल करने और मौजूदा ओलंपिक क्वालीफिकेशन चक्र में बहुमूल्य रैंकिंग अंक हासिल करने के इरादे से उतरेंगे। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु चोट के बाद वापसी करते हुए फॉर्म हासिल करने के लिए जूझ रही हैं। दुनिया की दूसरे नंबर की पूर्व खिलाड़ी सिंधु की मौजूदा बीडब्ल्यूएफ महिला एकल रैंकिंग 12वीं है और उन्हें पेरिस ओलंपिक क्वालीफिकेशन चक्र (एक मई 2023 से 28 अप्रैल 2024) में उनक टूर्नामेंटों की भरपाई भी करनी है जिनमें वह चोट के कारण हिस्सा नहीं ले पाईं। इस 27 वर्षीय खिलाड़ी को पिछले साल बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के दौरान स्ट्रेस फ्रेक्चर हुआ था और वह अब भी पूर्ण फिटनेस हासिल करने के लिए जूझ रही हैं। वह फरवरी में दोहा में बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी लेकिन इस साल कुछ विश्व टूर प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाईं। इस साल उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अप्रैल में मैड्रिड मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में रजत पदक जीतना रहा। इसके बाद वे दो टूर्नामेंट के पहले दौर में बाहर हो गईं जबकि एक में उन्हें दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। सिंधु के लिए यहां ड्रॉ तुलनात्मक रूप से आसान है। उन्हें पहले दौर में स्थानीय दावेदार तालिया एनजी से भिड़ना है। सिंधु को क्वार्टर फाइनल में जापान की आठवीं वरीय नोजोमी ओकाहारा का सामना करना पड़ सकता है जिनके खिलाफ उन्होंने नौ जीत दर्ज की जबकि आठ में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सिंधु को शीर्ष वरीय अकाने यामागुची के ड्रॉ में जगह मिली है।

जापान की यामागुची ने पिछले महीने सिंगापुर ओपन में सिंधु को हराया था लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ भारतीय खिलाड़ी की जीत हार का रिकॉर्ड 14-10 है। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन भी इस साल कुछ टूर्नामेंट के पहले दौर में हार के बाद शीर्ष 10 से बाहर हो गए हैं। दुनिया के 19वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य चार टूर्नामेंट के पहले दौर से बाहर हो गए और इस साल उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जनवरी में इंडोनेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाना रहा। लक्ष्य की पिछले साल अगस्त में विश्व चैंपियनशिप के बाद नाक की सर्जरी हुई थी और इसके बाद से वह फॉर्म हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर्जरी के बाद आठ महीने के दौरान उन्हें कई बार बीमारी और एलर्जी का सामना करना पड़ा। लक्ष्य ने बीडब्ल्यूएफ से कहा, उबरने की प्रक्रिया काफी अच्छी नहीं रही। जब भी मैं ट्रेनिंग करता था तो मैं चोटिल या बीमार हो जाता था। इसके बाद मुझे एक कदम पीछे हटना पड़ता क्योंकि पहले दो महीने में मुझे अंदाजा नहीं था कि यह इतना गंभीर होगा। मैंने अपने पैर की पोजीशन और ट्रेनिंग के भार को लेकर काफी बदलाव किए।

सिंधु के विपरीत लक्ष्य की राह आसान नहीं होगी। उन्हें पहले दौर में थाईलैंड के दूसरे वरीय कुनलावुत वितिदसार्न से भिड़ना होगा। थाईलैंड के इस खिलाड़ी ने पिछले साल तोक्यो में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और तीन बार का जूनियर विश्व चैंपियन भी है। पुरुष युगल में भारतीय चुनौती की अगुआई कृष्ण प्रसाद गारगा और विष्णुवर्धन पंजाला करेंगे जो अपने अभियान की शुरूआत जूलियन माइयो और विलियम विलेगर की फ्रांस की जोड़ी के खिलाफ करेंगे। भारतीय जोड़ी पिछले महीने ताइपे ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के पहले दौर से बाहर हो गई थी।

मुकेश ने धोनी से मिली सलाह का खुलासा किया

'उन्होंने मुझे नई चीजें आजमाने के लिए कहा'

एजेंसी। नई दिल्ली

बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को 12 जुलाई से शुरू होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए अपना पहला राष्ट्रीय कॉल-अप मिला। लगभग तीन सीजन तक बंगाल के लिए सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज रहे कुमार ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपने पहले सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया। कुमार ने 10 आईपीएल मैचों में 7 विकेट लिए और अंतिम ओवर में 12 रन का बचाव करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली को मैच जिताया। एक मीडिया हाउस से बातचीत में मुकेश ने आईपीएल 2023 में अपनी प्रगति का खुलासा किया और एमएस धोनी के साथ

एक बातचीत का खुलासा किया जो उनसे जुड़ी रही। उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा धोनी भैया से मिलना चाहता था और उनसे कुछ बातें पूछना चाहता था। ऐसा आईपीएल के कारण हुआ। मैं उनसे मिला और सबसे पहली बात मैंने उनसे पूछी कि एक कप्तान और विकेटकीपर के रूप में आप अपने गेंदबाजों को वास्तव में क्या कहते हैं?' तेज गेंदबाज ने कहा कि धोनी ने उनसे नई चीजें आजमाने के लिए कहा था जो एक क्रिकेटर के रूप में विकसित होने के लिए यह जरूरी है। मुकेश ने कहा, 'उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रखा और कहा, 'मैं हर गेंदबाज से यही कहता हूं कि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम नहीं सीखोगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें वही करना है जो तुम करना चाहते हो। अगर तुम जीत गए, तुम नहीं सीखोगे। उन्होंने कहा कि परिणाम को भूल जाओ, और बस जाकर प्रयास करो। उन्होंने मुझे यह बात बहुत अच्छी तरह से समझाई।'

खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग में उन्हें दिए गए मौकों के लिए दिल्ली कैपिटल्स को धन्यवाद दिया और कहा कि अनुभवी ईशांत शर्मा ने उनकी काफी मदद की। मुकेश ने कहा, 'मुझे मौका देने के लिए मैं वास्तव में दिल्ली कैपिटल्स का आभारी हूं। आईपीएल एक अच्छा सीखने का अनुभव था। आईपीएल से पहले, मैंने रणदेब भैया (रानादेब बोस) से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि दबाव को कैसे संभालना है। ईशांत (शर्मा) भैया इससे मुझे बहुत मदद मिली है। इस तरह गेंदबाजी करना, इस कोण से गेंद डालने का प्रयास करना, पिच पर इस स्थान पर हिट करने का प्रयास करना - ये सभी चीजें उन्होंने मुझे सिखाईं। उन्होंने मुझसे अपनी गेंदबाजी में यथासंभव कौशल विकसित करने के लिए कहा।'

इंग्लैंड ने की तीसरे टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा

एजेंसी। लंदन

इंग्लैंड ने 6 जुलाई से हेडिंग्ले में शुरू होने वाले तीसरे एशेज टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि रेहान अहमद और मैटी पॉट्स टीम से बाहर हो गए हैं। तीसरे एशेज टेस्ट से पहले प्रमुख खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर रखी जाएगी। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ओली पोप अपने कंधे का स्कैन कराएंगे और अनुभवी स्पिनर मोइन अली अभी भी अपनी उंगली की समस्या से जूझ रहे हैं। अहमद को मोईन की जगह लॉर्ड्स टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उसे हेडिंग्ले टेस्ट के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब है कि मोईन की फिटनेस संतोषजनक हो सकती है। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया से 43 रनों की हार के दौरान पोप के दाहिने कंधे में चोट लग गई थी और चयनकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि 25 वर्षीय पोप तीसरे टेस्ट के लिए फिट हो जाएंगे। अगर पोप को बाहर कर दिया जाता है तो संभावना है कि डैन लॉरेंस को इंग्लैंड की टीम में जगह मिल सकती है।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार, तीन सदस्य निलंबित

एजेंसी। लंदन

मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने लॉर्ड्स टेस्ट के पांचवें दिन लंच ब्रेक के दौरान लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए अपने तीन सदस्यों को निलंबित कर दिया है। दरअसल, रविवार को दूसरे एशेज टेस्ट के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने जॉनी बेयरस्टो को विवादास्पद तरीके से रन आउट किया था, जिससे दर्शकों में रोष था। जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लॉन्ग रूम से होते हुए ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए, तो कई एमसीसी सदस्यों को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मौखिक रूप से गाली देते हुए देखा गया। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर एक सदस्य के साथ बहस में उलझ गए और सुरक्षाकर्मियों को उन्हें वहां से ले जाना पड़ा। बयान में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और कर्मचारियों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद एमसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम से माफी मांगी है और एक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने अपने तीन सदस्यों को निलंबित कर दिया है।

मैकुलम ने एलेक्स कैरी की 'स्टंपिंग' पर ऑस्ट्रेलिया पर निशाना साधा

एजेंसी। लंदन

इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने ऑस्ट्रेलिया पर आरोप लगाया है कि लॉर्ड्स टेस्ट में एलेक्स कैरी द्वारा जॉनी बेयरस्टो की विवादास्पद स्टंपिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने खेल भावना का पालन नहीं किया। रविवार को दूसरे एशेज टेस्ट के अंतिम दिन, मेजबान टीम के 317 रनों के लक्ष्य का पीछा करते समय इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो विवादास्पद परिस्थितियों में रन-आउट हो गए, जिसके बाद काफी ड्रामा हुआ। बेयरस्टो 10 रन पर थे

और 52वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 193/5 था, जब वह कैमरून ग्रीन के बाउंसर पर झुके और अनजाने में अपनी क्रीज से बाहर निकल गए। यह देखकर ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने गेंद पकड़ने के तुरंत बाद अंडरआर्म थ्रो से स्टंप पर मार दिया और खुशी से उछल पड़े। इसके बाद अफरा-तफरी मच गई। बेयरस्टो को लगा कि बॉल डेड हो गई है और ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत अपील की। ऑन-फील्ड अंपायर अहसान रजा और क्रिस गैफनी ने फैसले को टीवी अंपायर माराइस इरास्मस के पास भेजा जिसने बेयरस्टो के आउट होने की पुष्टि की। इस तरह से आउट होने पर इंग्लैंड के कोच मैकुलम ने संकेत दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज के बाद इंग्लैंड बियर पार्टी में नहीं शामिल होगा। उनकी टीम बेयरस्टो की स्टंपिंग से नाराज है। मैकुलम ने बीबीसी स्पोर्ट के टेस्ट मैच स्पेशल में कहा, मैं सोच नहीं सकता कि उनके साथ अब बीयर पीएंगे। मुझे लगता है कि यह खेल की भावना के बारे में है और जब आप अधिक परिपक्व हो जाते हैं तो आपको खेल का एहसास होता है और इसकी भावना की आपको रक्षा करने की आवश्यकता होती है। कानून के अनुसार, वह आउट है।

टूर्नामेंट | हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2023 के लिए तैयारियां जोरों पर

स्टेडियम को दिया जा रहा नया रूप

एजेंसी। नई दिल्ली

बहुप्रतीक्षित हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई-2023 के ठीक एक महीने पहले चेन्नई के एग्मोर में मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में भारतीय पुरुष टीम की तैयारियां चरम पर हैं। यह प्रतिष्ठित स्टेडियम टूनार्मेंट से पहले एक बड़े नवीकरण के दौर से गुजर रहा है। इसी स्टेडियम में 2007 में पुरुष एशिया कप की मेजबानी की थी, जिसे भारत ने जीता था। चेन्नई के एग्मोर में 8000 से अधिक की क्षमता वाला स्टेडियम 1995 में बनाया गया था। इसी बिल्कुल नया टर्फ मिल रहा है, जिसका इस महीने के अंत में अनावरण किया जाएगा। मुख्य पिच के अलावा अब इसमें एक नया हाफ-कोर्ट टर्फ है, जो भविष्य में तेज गति वाले फाइव-ए-साइड गेम की मेजबानी कर सकता है। तमिलनाडु सरकार

यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि टूर्नामेंट अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करे। खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम, ऑपरेशनल एरिया, मैच अधिकारियों के लिए कमरों के साथ-साथ फ्लडलाइट को एफआईएच मानकों को पूरा करने के लिए नया रूप दिया जा रहा है। लगभग 16 वर्षों के बाद चेन्नई में अंतरराष्ट्रीय हॉकी की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. दिलीप टिर्की ने कहा, चेन्नई में हॉकी की वापसी से पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। संयोग से 2007 में मैंने एशिया कप 2007 में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। फाइनल में दक्षिण कोरिया को 7-2 से हराना हमारे लिए एक यादगार सफर था। फाइनल के दौरान बारिश हो रही थी और फिर भी लोग हमारा हौसला बढ़ाने के लिए रुके थे।

उन्होंने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी के लिए तमिलनाडु सरकार के उत्साह और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार के समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन बहुत सक्रिय हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने में गहरी दिलचस्पी ली है। हॉकी इंडिया भी विभिन्न राज्यों में अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए सचेत रूप से घरेलू स्तर पर प्रयास कर रहा है। ताकि हॉकी के बुनियादी ढांचे को नया रूप मिले। हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष शेखर जे मनोहरन ने सरकार के समर्थन की सराहना की। उन्होंने कहा, मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम ने अतीत में कई हॉकी प्रतियोगिताओं की मेजबानी की है, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि सुविधाएं एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए उपयुक्त हों।

तमिलनाडु सरकार वास्तव में इस प्रतिष्ठित स्टेडियम को एक नया रूप देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हॉकी इंडिया के अधिकारियों के पास अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने का जबरदस्त अनुभव होने के कारण हमें स्टेडियम के उन्नयन कार्य में सही जानकारी मिली और हमें परिणाम देखकर खुशी हुई। हॉकी इंडिया के साथ तमिलनाडु सरकार भाग लेने वाली टीमों और प्रशंसकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है।

NEWS इन ब्रीफ

निर्यात में आई गिरावट वित्त मंत्रालय ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली। देश के निर्यात में पिछले चार महीनों में आ रही गिरावट के बाद वित्त मंत्रालय ने स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को निर्यातकों की बैठक बुलाई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उम्मीद है कि बैठक में निर्यातक सरकार से वैश्विक प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने के लिए अधिक समर्थन देने के साथ ही ब्रिटेन, कनाडा, इजरायल और जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए कहेंगे। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, निर्यात लगातार चौथे महीने सालाना आधार पर 10.3 फीसदी घटकर मई में 34.98 अरब डॉलर रह गया, जबकि व्यापार घाटा बढ़कर पांच महीने के उच्चतम स्तर 22.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

रियलमी का नार्जो 60 सीरीज 5जी होगा मार्केट में लॉन्च

नई दिल्ली। हम अपनी यादों और जरुरी फाइलों को इकट्ठा करने के लिए फोटो एलबम, डॉक्यूमेंट फाइल, रील कैमरा, सीडी और कैसेट जैसे फिजिकल स्टोरेज मीडियम पर निर्भर थे। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे बीते यादों को सहेजकर रखते थे। लेकिन अब स्मार्टफोन के आने से डेटा को स्टोर करने और एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है, जिससे हमारे हैंडहेल्ड डिवाइस अंतिम स्टोरेज सोल्यूशन में बदल गए हैं। आज के डिजिटल युग में, जहां हर पल को कैप्चर और शेयर किया जाता है।

अच्छे स्टार्टअप के लिए कोष की कमी नहीं : अमिताभ कांत

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि नवोन्मेष और स्टार्टअप परिवेश आज दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए मजबूत स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे स्टार्टअप के लिए कोष की कोई कमी नहीं है। कांत ने स्टार्टअप20 शिखर कार्यक्रम में एक मजबूत स्टार्टअप परिवेश के लिए ह्यफंड ऑफ फंड' (ऐसा कोष जो दूसरे कोष में निवेश करता है), कर्ज सुलभ होने से जुड़ी योजनाएं और बेहतर संचालन व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टार्टअप ने कम लागत पर स्तरीय समाधान सफलतापूर्वक सुलभ कराया है। कांत ने कहा कि स्टार्टअप क्षेत्र में कोष की कोई कमी नहीं है और अच्छे स्टार्टअप के लिए पूंजी हमेशा उपलब्ध हैं। दुनिया में कोष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उनकी नजर हमेशा अच्छी परियोजनाओं पर होती है। कांत ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ... बायोमेट्रिक आईडी, डिजिटल भुगतान और इस संदर्भ में स्टार्टअप परिवेश की मजबूत सफलता के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि देश ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, भारत में 1,00,000 से अधिक स्टार्टअप और 108 यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप) हैं। कांत ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए स्व-नियमन और बेहतर संचालन व्यवस्था की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा,...आज का स्टार्टअप कल फॉर्च्यून 500 कंपनी होगी। इसलिए वित्तीय स्तर पर सूझ-बूझ के साथ कदम और संचालन व्यवस्था का मुद्दा महत्वपूर्ण है।

सोने की कीमतों में आई गिरावट

58 हजार रुपए भरी पहुंचा



नई दिल्ली। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि चांदी के भाव बढ़ गए हैं। सोना गिरावट के साथ 58 हजार रुपए के करीब आ गया है। सोने के घरेलू वायदा भाव गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर विगत शुक्रवार सुबह 4 अगस्त 2023 की डिलीवरी वाला सोना 0.22 फीसदी या 130 रुपए की गिरावट के साथ 58,081 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 5 अक्टूबर 2023 की डिलीवरी वाला सोना 0.16 फीसदी या 93 रुपए की गिरावट के साथ 58,383 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में शुक्रवार सुबह गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमतों में सोमवार को तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर 5 सितंबर 2023 की डिलीवरी वाली चांदी का भाव 30 रुपए की बढ़त के साथ 70060 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला है। वहीं 5 दिसंबर 2023 को डिलीवरी वाली चांदी का भाव भी बढ़त के साथ 71467 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला है। हालांकि इसके बाद चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। सोने की वैश्विक कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक वायदा भाव 0.16 फीसदी या 3.00 डॉलर की गिरावट के साथ 1926.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

श्रीरंगनाथ कुलकर्णी इन्फोविजन के नए एमडी हुए नियुक्त

नई दिल्ली। अमेरिका स्थित डिजिटल सेवा कंपनी इन्फोविजन ने सोमवार को कहा कि उसने श्रीरंगनाथ कुलकर्णी (एसके) को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कुलकर्णी ने पहले बिड़लासॉफ्ट में मुख्य परिचालन अधिकारी, एक्सेंचर में वित्तीय सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी वितरण प्रमुख, कॉग्निजेंट में पुणे केंद्र प्रमुख और वित्तीय सेवाओं के प्रमुख और इंफोसिस में पुणे केंद्र प्रमुख और हेल्थकेयर लीड के रूप में कार्य किया था। कंपनी ने एक बयान में कहा, अपनी नई भूमिका में, वह बिक्री, वितरण और ग्राहक प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए त्वरित विकास की दिशा में इन्फोविजन की यात्रा का नेतृत्व करेंगे।

किआ इंडिया अपनी बहुप्रतीक्षित नई सेल्टोस का आज करेगी अनावरण

रांची। भारत की प्रीमियम और तेजी से आगे बढ़ने वाली कार निर्माता कंपनी, किआ इंडिया ने 4 जुलाई को नई सेल्टोस का अनावरण करने की घोषणा की है। अपने नए अवतार में सेल्टोस एक नए डिजाइन और सेगमेंट के उन्नत सेगमेंट-अग्रणी फीचर्स से सुसज्जित होगी। ब्रांड सेल्टोस ने अपने सेगमेंट-लीडिंग फीचर्स और डिजाइन लीडरशपि के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नई क्रांति की शुरूआत की है। नई सेल्टोस एक बार फिर इस सेगमेंट को एक नया रूप देने के लिए तैयार है। किआ नई सेल्टोस का टीजर भी 30 जून 2023 को जारी करेगी। किआ ने अगस्त 2019 में सेल्टोस को लॉन्च करने के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया था और भारत के नए युग के उपभोक्ताओं का दिल जीता लिया। 46 महीने की छोटी से उल्लेखनीय अवधि में, सेल्टोस 5 लाख बिक्री का आंकड़ा तेजी से पार करने वाली एसयूवी बन गई। वर्तमान में, 3.78 लाख सेल्टोस भारतीय सड़कों पर चल रही हैं, जो किआ इंडिया की कुल घरेलू संख्या का 53 प्रतिशत है। कंपनी ने दुनियाभर के करीब 90 से ज्यादा बाजारों में 1.39 लाख सेल्टोस का निर्यात भी किया है। ब्रांड सेल्टोस द्वारा हासिल की गई कई उपलब्धियों की वजह से किआ को पिछले चार सालों में भारत के शीर्ष 5 वाहन निमार्ताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिली है। 2021 में, सेल्टोस अपने सेगमेंट में भारत में छह एयरबैग पेश करने वाली पहली कार बनी थी।

एलन मस्क व बर्नार्ड अर्नाल्ट की दौलत 200 अरब डॉलर के पार

नई दिल्ली। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की ताजा सूची में पहले स्थान पर एलन मस्क हैं। इनके पास 234 अरब डॉलर की कुल संपत्ति है और इन्होंने इस साल अब तक 96.6 अरड डॉलर का इजाफा अपनी संपत्ति में किया है। बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, जिनके पास 200 अरब डॉल का कुल नेटवर्थ है। इस साल अब तक इन्होंने कुल 38.2 अरब डॉलर कमाए। तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस के पास 154 अरब डॉलर की संपत्ति है। इस साल उनकी संपत्ति में 47.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। बिल गेट्स चौथे स्थान पर हैं। इस साल इनकी संपत्ति 24.4 अरब डॉलर बढ़ी है। इनका नेटवर्थ 134 अरब डॉलर हो गया है। पांचवें पर काबिज लैरी एलिशन ने इस साल 40.8 अरब डॉलर कमाए और उनकी कुल संपत्ति अब 133 अरब डॉलर हो गई है।

महंगी होंगी टाटा की कारें, कंपनी ने किया कीमतों में बढ़ोत्तरी का ऐलान

नई दिल्ल। देश की दिग्गज कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम से लेकर सामान्य कार की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि 17 जुलाई से टाटा मोटर्स की सभी मॉडल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। कंपनी ने अपने सभी मॉडल्स पर 0.6% की औसत बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यह वृद्धि इलेक्ट्रिक वाहन समेत सभी मॉडल और संस्करणों पर लागू होगी। बयान के अनुसार कीमत में वृद्धि कच्चे माल की लागत में वृद्धि के प्रभाव से निपटने के लिए की जा रही है। कंपनी ने कहा कि 16 जुलाई, 2023 तक होने वाले वाहनों की बुकिंग और 31 जुलाई, 2023 तक होने वाली डिलिवरी पर कीमत वृद्धि का प्रभाव नहीं होगा। टाटा मोटर्स के यात्री वाहनों में पंच, नेक्सन और हैरियर शामिल हैं।

सरकार कर रही बिना बैटरी के ईवी बेचने की तैयारी

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्र सरकार और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग ऐसी नीति पर बात कर रहे हैं, जिसमें वाहन बिना बैटरी के बिकेंगे और ग्राहक बाद में उनमें बैटरी लगा सकेंगे। साथ ही बैटरी चार्ज करने के बजाय खाली बैटरी देकर चार्ज की हुई बैटरी भी ले सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैटरी की अदला-बदली के लिए पूरे देश में ढांचा तैयार करने पर भी बात चल रही है। 2024 में फेम 2 सब्सिडी खत्म हो जाएगी। ऐसे में इस कदम से लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो सकते हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे ईवी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि 2025 तक भारत में बैटरी रहित ईवी की बिक्री शुरू होने और बैटरी की अदला-बदली (स्वैपिंग) के लिए ढांचे पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार हो जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत का 40-50 प्रतिशत हिस्सा बैटरी का ही होता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि पिछले एक साल से इस विषय पर बैठक हो रही हैं। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल ईवी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए मानक तैयार करने पर काम चल रहा है। नाम नहीं छापने की शर्त पर अधिकारी ने बताया, ह्यसंबंधित पक्षों की एक बैठक जनवरी और मार्च के दरम्यान हुई थी। नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा पिछले साल ही सौंप दिया था। अब बैटरी के लिए मानक तैयार करने का काम चल रहा है।

विदेश

पाकिस्तान में चेकपोस्ट पर हमले में चार सुरक्षाकर्मी मारे गए

इस्लामाबा। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में दो चौकियों पर एक साथ हुए हमलों में तीन पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल का एक जवान मारा गया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की। एक बयान में, मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो ने उन घटनाओं की निंदा की, जिनमें आतंकवादियों ने प्रांत के झोब इलाके में चौकियों पर हथगोले फेंके और गोलियों की बौछार की। रिपोर्ट के अनुसार झोब पुलिस ने मीडिया को बताया कि रविवार को आतंकवादियों के एक समूह ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ चेकपोस्ट पर हमला किया। जवाबी हमले के बाद वे भाग गए। पुलिस ने बताया कि हमलों में अर्धसैनिक बलों की फ्रंटियर कोर के कई जवान भी घायल हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। किसी भी समूह ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है।

नोम पेन्ह के निमार्णाधीन क्लब में आग लगने से आठ की मौत

एजेंसी। नोम पेन्ह

कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में एक निमार्णाधीन मनोरंजन क्लब में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। नगर निगम के एक पुलिस प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। नोम पेन्ह नगर पुलिस के प्रवक्ता सैन सोक सेहा ने विगत रविवार को रिपोर्ट में बताया कि सुबह जली हुई नाइट क्लब इमारत में दो और शव पाए गए, जिससे मृतकों की कुल संख्या आठ (छह पुरुष और दो महिलाएं) हो गई। ये सभी श्रमिक थे। उन्होंने कहा, डॉक्टरों की फॉरेंसिक जांच के अनुसार, आठ लोगों की मौत दम घुटने से हुई। सेइहा ने बताया कि राजधानी के तुओल कॉर्क जिले में नाइट क्लब की पांचवीं मंजिल पर शनिवार शाम को आग लग गई, जब पीड़ित इमारत के आंतरिक हिस्सों का नवीनीकरण कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, प्रवक्ता के अनुसार, पुलिस ने दुखद दुर्घटना पर पूछताछ के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि एक व्यक्ति भाग गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीडीएम) के अनुसार, कंबोडिया में 2022 में देश भर में 454 आग दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 42 लोग मारे गए और 55 अन्य घायल हो गए। एनसीडीएम के अनुसार, पिछले साल 28 दिसंबर को थाईलैंड की सीमा से लगे शहर पोइपेट में ग्रैंड डायमंड सिटी होटल और कैसीनो में भीषण आग लगने से 26 लोगों की मौत हो गई थी।

चुनाव आयोग ने 19 जुलाई तक आवेदन जमा करने का दिया निर्देश

इस्लामाबाद। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने राजनीतिक दलों से देश में अक्टूबर के बाद होने वाले आम चुनावों से पहले चुनाव चिन्हों के आवंटन के लिए अपने आवेदन जमा करने को कहा है। रिपोर्ट के अनुसार ईसीपी ने कहा कि आवेदन 19 जुलाई तक पार्टी नेता के हस्ताक्षर के साथ जमा किए जा सकते हैं। चुनावी निगरानी संस्था ने आगे कहा कि आवेदन पर पार्टी नेता का हस्ताक्षर होना जरूरी है। चुनावी निगरानी संस्था ने कहा कि 1 जुलाई से पहले व 19 जुलाई के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह भी घोषणा की गई कि आवेदन के साथ चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 206 के अनुसार शपथ पत्र अनिवार्य है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें कहा गया है, "प्रत्येक आवेदन में राजनीतिक दल के मुख्य कार्यालय का पता शामिल होना चाहिए।" ईसीपी ने आगे कहा कि वह आवेदन मिलने के बाद पार्टी की पात्रता की जांच करेगा।

अश्विनी वैष्णव ने 6जी अलायंस लॉन्च किया

भारत अब दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का निर्यातक बन चुका है : अश्विनी

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने देश में अब 6जी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां एक कार्यक्रम में 6जी अलायंस को लॉन्च किया। अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को ह्यभारत 6जी अलायंस के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद कहा कि भारत अब दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का निर्यातक बन चुका है। इसके पास पहले से ही 6जी प्रौद्योगिकी से जुड़े करीब 200 पेटेंट हो चुके हैं। इस दिशा में जारी प्रयासों को गति देने के लिए ह्यभारत 6जीह्व गठजोड़ का मंच तैयार किया गया है। वैष्णव ने कहा कि यह गठजोड़ देश में कार्यरत अधिक संस्थानों और कंपनियों को 6जी प्रौद्योगिकी के लिए अधिक पेटेंट आवेदन करने के लिए मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत को वर्ष 2030 तक वैश्विक 6जी पेटेंट में 10 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व में तीन सबसे बड़े 5जी इको सिस्टम में शामिल हो गया है। देश में 5जी की 2,70,000 साइट तैयार हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जुटाना एक बड़ी चुनौती होती थी, लेकिन वर्ष 2014 से लेकर 2023 के पिछले नौ साल में यह बढ़कर 24 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है।

फैसला

चीन ने लागू किया नया जासूसी कानून

विदेशी कंपनियों की बढ़ेगी परेशानी

एजेंसी। वाशिंगटन

चीन में नया जासूसी कानून लागू होने के बाद अमरीकी और विदेशी कंपनियों के लिए यह परेशानी का सबब बन सकता है। अमरीका ने दावा किया है कि इस कानून के तहत चीन में काम कर रही अमरीकी और विदेशी कंपनियों को दोषी ठहरा कर चीन उन पर कार्रवाई कर सकता है। अमरीका के नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर (एन.सी.एस.सी.) ने एक बुलेटिन में कहा है कि चीन डाटा के आउटबाउंड प्रवाह को राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम के रूप में देखता है। एन.सी.एस.सी. ने कहा है कि ये कानून पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पी.आर.सी.) सरकार को चीन में अमरीकी कंपनियों द्वारा रखे गए डाटा तक पहुंचने और नियंत्रित करने के लिए विस्तारित कानूनी आधार प्रदान करते हैं। इसलिए कंपनियों को बेकार कर परेशानियों में कभी भी डाला जा सकता है। इनमें कहा गया है कि चीन में अमरीकी कंपनियों और व्यक्तियों को पारंपरिक व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान ऐसे कार्यों के लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिन्हें नए कानून के तहत जासूसी माना गया है। उधर वाशिंगटन में चीन के दूतावास ने कहा कि बीजिंग को घरेलू कानून के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने का अधिकार है। दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने कहा है कि चीन व्यापार में उच्च-स्तरीय खुलेपन को बढ़ावा देना जारी रखेगा और संयुक्त राज्य अमरीका सहित सभी देशों की कंपनियों के लिए कानून-आधारित और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि चीनी नेता शी जिनपिंग ने 2012 में पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया है। लियू पेंग्यू ने कहा कि वह विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल रहा है। चीन का नया जासूसी विरोधी कानून बीते शनिवार यानी 1 जुलाई से लागू हो गया है। इससे विदेशी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन की सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद देश की राष्ट्रीय को मजबूत करना है। इस बारे में मूल कानून 2014 में आया था। नए कानून के मुताबिक सभी तरह के जासूसी की आशंका के जुड़े किसी भी डॉक्यूमेंट्स, डाटा, मटीरियल्स और आर्टिकल्स की जांच हो सकती है। साथ ही इसके जरिए सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध के सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रॉपर्टी की जांच करने का अधिकार होगा। विदेशी कंपनियों ने इस पर खासी आपत्ति जताई है।

अमेरिका में मंडरा रहा भीषण तूफान का खतरा, अर्ल्ट जारी

न्यूयॉर्क। जैसे-जैसे चौथी जुलाई की विस्तारित छुट्टी सप्ताहांत आगे बढ़ रही है, अमेरिका के न्यूयॉर्क और पेनसिल्वेनिया से लेकर अरकंसास तक के बड़े हिस्से में भयंकर तूफान आने की संभावना है। एनबीसी न्यूज ने बताया कि सबसे तेज तूफान केंटुकी और टेनेसी को निशाना बनाएंग। 65 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से हवा चलने की आशंका है। विगत रविवार को तूफान से नैशविले और मेम्फिस, टेनेसी शामिल हैं; लुइसविले, केंटकी; फिलाडेल्फिया; बाल्टीमोर; चार्लोट, उत्तरी कैरोलिना और वाशिंगटन डी.सी. के लोग प्रभावित हुए। न्यूयॉर्क के क्लिंटन काउंटी में बाढ़ की सूचना है। रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि 12 घंटों में बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। होचुल ने विगत रविवार को एक बयान में कहा, मैं स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूं और अपनी टीम को स्थानीय अधिकारियों की जरूरत पड़ने पर सहायता करने का निर्देश दिया है।

शादी व प्रसव से दूर रहकर खुद को सुरक्षित रखें

घरेलू हिंसा को लेकर महिलाओं के लिए नरक बनता जा रहा चीन

एजेंसी। बीजिंग

चीन में महिला अधिकारों, समानता और न्याय के दावे की पोल खुल गई है। लगातार घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे है। आए दिन कोई न कोई खौफनाक केस लोगों के सामने आ ही जाता है। इन सबको देखते हुए चीन के युवा सोशल मीडिया पर शादी करने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लड़कियों को सलाह दी जा रही है कि शादी और प्रसव से दूर रहकर खुद को सुरक्षित रखें। इतना ही नही, एक शख्स का कहना है कि चीन में अब हर कोई शादी करने से डरता है। गौरतलब है, हाल ही में चीन में रौंगटे खड़े कर देने वाले कई घरेलू हिंसा के मामले सामने आए हैं। इसमें दिनदहाड़े की गई हत्या भी शामिल है, जिसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। 26 जून को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसे जिसने भी देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल, वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति बार-बार एक महिला के ऊपर कार चढ़ा रहा है। इतना ही नहीं शख्स ने हद तो पार तब कर दी, जब वह कार से उतरा। उसने महिला पर कई बार कार चढ़ाने के बाद यह जानने के लिए कार से उतरा कि कहीं वह जिंदा तो नहीं रह गई। देखने बाद शख्स ने फिर कई बार महिला पर कार से हमला किया। शेडोंग के पूर्वी प्रांत में हुए इस खौफनाक मंजर को एक गवाह ने अपने फोन में कैद कर लिया। बाद में वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। बुधवार सुबह तक ये मामला चीन के अधिकतर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। जब पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बारे में जानकारी मिली, तो जांच की। पुलिस को पता लगा कि कार से कुचलने वाला 37 साल का शख्स कोई अनजान व्यक्ति नहीं बल्कि 38 वर्षीय महिला का पति था।

KASHYAP'S DENTAL CLINIC
Dr. Vaibhav Kashyap
Oral & Dental Surgeon, C.c. Endodontist & Implantologist Certified Orthodontist, MIDA
" Smiles & More"
छात्र-छात्राओं के लिए 50% की छूट
Facilities
❖ आरसीटी
❖ पायरिया का ईलाज
❖ टेढ़े-मेढ़े दाँतों का ईलाज
❖ स्माईल डिजाइन
❖ इनविजिवल क्लिप
❖ दंत रोपण
❖ फिक्स दाँत लगाना
❖ अत्याधुनिक मशीन और तकनीक के द्वारा ईलाज

CHAMBER
SKYLINE - 4006, 4th Floor, Kadru, Opp. Dr. Lal's Hospital, Ranchi
Contact No. : 9199533383, 7903835453
Time : 9 am to 2 pm & 4 pm to 8 pm
Sunday : 9 am to 2 pm
E-mail : vaibhav.kashyap2011@gmail.com

NEWS इन ब्रीफ



दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि वह फिलहाल जमानत के हकदार नहीं हैं। अदालत ने सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू और विजय नायर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं। ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से विज्ञापनों पर खर्च का ब्योरा मांगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के निर्माण के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद दिल्ली सरकार के विज्ञापनों पर खर्च पर नाराजगी जताई।न्यायमूर्ति एस.के. कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन का विवरण देने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा पेश करने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार के वकील के यह कहने के बाद कि धन की कमी है, शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया, यदि आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसा है, तो आपके पास उस परियोजना के लिए पैसा क्यों नहीं है जो सुचारू परिवहन सुनिश्चित करेगी?

'विकास के लिए अनुसंधान जरुरी'

एजेंसी। नई दिल्ली

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि कोई भी देश अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी को अपनाये बिना प्रगति नहीं कर सकता। मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू किये गए भारतीय जनता पार्टी के जनसम्पर्क अभियान के तहत एनआईटी दिल्ली के छात्रों से संवाद करते हुए जयशंकर ने विद्यार्थियों को स्थानीय एवं वैश्विक घटनाक्रम को समझने का सुझाव दिया। विदेश मंत्री ने कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध का पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभावों का जिक्र करते हुए कहा, वैश्विकरण ने अंदर और बाहर की दीवारों को ध्वस्त कर दिया है और आपको समझना होगा कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी को अपनाये बिना प्रगति नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों में कई बदलाव हुए हैं। पीएम की हाल की अमेरिका यात्रा का उल्लेख करते हुए जयशंकर ने कहा, उनकी एक अलग छवि है, खास तौर पर लोकतांत्रिक दुनिया में उनकी (मोदी) एक वरिष्ठ अनुभवी और विश्वसनीय नेता की छवि है।

खालिस्तानी पोस्टरों का मुद्दा उठाएगी सरकार

विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी तत्वों के पोस्टरों पर भारतीय राजनयिकों के नाम दिखने का मुद्दा कनाडा और अन्य देशों की सरकारों के साथ उठाया जाएगा क्योंकि इससे संबंधों पर असर पड़ सकता है। जयशंकर ने कहा, हमने कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने साझेदार देशों से खालिस्तानियों को जगह नहीं देने का अनुरोध किया है। इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा। हम इस पोस्टर मुद्दे को इन देशों की सरकार के समक्ष उठाएंगे।

ईडी के समक्ष पेश हुए अनिल अंबानी

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज

एजेंसी। मुंबई

रिलायंस एडीए समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन से जुड़ी जांच के सिलसिले में सोमवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि अंबानी (64) ने दक्षिण मुंबई स्थित संघीय एजेंसी के कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराया। सूत्रों ने बताया कि 'फेमा' की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक नये मामले में अंबानी का बयान दर्ज किया गया है। अनिल अंबानी येस बैंक के प्रवर्तक राणा कपूर और अन्य के खिलाफ धनशोधन मामले में 2020 में ईडी के समक्ष पेश हुए थे। पिछले साल अगस्त में, आयकर विभाग ने स्विस बैंक के दो खातों में रखे गये 814 करोड़ रुपये से अधिक अघोषित धन पर 420 करोड़ रुपये की कर चोरी करने को लेकर काला धन रोधी कानून के तहत अंबानी को एक नोटिस जारी किया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मार्च में, आयकर विभाग के इस कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था।

पीएम मोदी आज एससीओ बैठक की करेंगे मेजबानी

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री आज डिजिटल माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हिस्सा लेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति और कारोबार एवं सम्पर्क बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह निजी सेना वैग्नर ग्रुप के विद्रोह की घटना के बाद किसी बहुपक्षीय मंच पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह पहली भागीदारी होगी। वैग्नर ग्रुप का विद्रोह हालांकि अल्पकालिक रहा था। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की होने वाली इस शिखर बैठक में ईरान का इस समूह के नये स्थायी सदस्य में रूप में स्वागत किया जाएगा। बैठक के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि समझा जाता है कि एससीओ की शिखर बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और समूह के सदस्यों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि कारोबार एवं सम्पर्क बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की जा सकती है। यह शिखर बैठक पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध जारी रहने के तीन वर्ष पूरे होने तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल में हुई अमेरिका की यात्रा की पृष्ठभूमि में हो रही है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर गरमाई पंजाब की सियासत

अमरिंदर सिंह-रंधावा को नोटिस

रंधावा बोले 55 लाख नहीं 17 लाख था खर्च

सरकार ने नोटिस नहीं फाइल की नोटिंग की जारी

एजेंसी। चंडीगढ़

उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है। पंजाब सरकार ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से पैसे वसूल करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। आज पूरा दिन चंडीगढ़ में इस मुद्दे को लेकर बैठकों का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को यह ऐलान किया था कि मुख्तार अंसारी पर खर्च किए गए 55 लाख रुपये की धनराशि तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से वसूल की जाएगी। इसके बाद सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं तत्कालीन गृहमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में झूठ बोल रहें हैं कि गैंगस्टर अंसारी की पैरवी का खर्च 55 लाख रुपये बनता है। उन्होंने दस्तावेजी प्रमाण जारी करते हुए कहा कि अंसारी की पैरवी पर केवल 17 लाख 60 हजार रुपये खर्च हुआ है। रंधावा ने कहा कि वह जब पंजाब के जेल मंत्री थे तब उनके पास खर्च की फाइल आई थी तो उसे वापस भेज दिया था। रंधावा ने कहा कि किसी भी अपराधी को कैसे और कहां रखना है यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। रंधावा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वह उन्हें रिकवरी नोटिस भेजें वह इस नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। रंधावा ने कहा कि वह नोटिस लिये बगैर दिल्ली नहीं जाएंगे। रंधावा की इस चुनौती के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम नोटिस को ट्वीट कर दिया। नोटिस मिलने के बाद रंधावा ने कहा कि यह नोटिस नहीं बल्कि फाइल की नोटिंग है। नोटिस और नोटिंग में फर्क होता है। रंधावा ने कहा कि वह इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें अभी नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलने पर वह मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

सीजेआई ने न्यायालय में नि:शुल्क वाईफाई सुविधा की घोषणा की

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में पहले पांच अदालत कक्ष वाई-फाई से लैस हो गए हैं और सभी अदालत कक्षों में कानून की कोई किताब और कागजात नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय के डिजीटलीकरण की ओर इस बड़े कदम की घोषणा करते हुए सीजेआई ने कहा, अब किताबें चली गयी है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमें किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीजेआई ने कहा, हमने पहले से पांचवें अदालत कक्ष को वाईफाई से लैस कर दिया है। बार के कमरे वाईफाई से लैस हैं। अदालत के सभी कक्ष ऐसे ही होंगे, कोई किताब और कागजात नहीं होंगे - इसका यह मतलब नहीं है कि हमें कभी किताबों और कागजात की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सुनवाई शुरू होने पर कहा, कृपया मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या सब कुछ अच्छी तरह काम कर रहा है। शीर्ष अदालत ने छह सप्ताह के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सोमवार को फिर से काम शुरू किया। अदालत ने सभी वकीलों, वादियों और मीडियाकर्मियों के साथ परिसर में आने वाले अन्य लोगों के लिए निशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करायी है। यह कदम ई-पहल के तहत लिया गया है और एससीआई वाईफाई पर लॉगइन कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के एक अधिकारी ने बताया कि उपयोगकर्ताओं को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिस पर उन्हें वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा और वे इसके सत्यापन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे।

उप्र : मार्ग दुर्घटनाओं में नौ की मौत, कई घायल

एजेंसी। लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सोमवार को मार्ग दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मौत हुई है। मथुरा और मुजफ्फरनगर सड़क हादसे में तीन-तीन जबकि फिरोजाबाद, मेरठ और बुलंदशहर में एक-एक की मौत हुई है। दुर्घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मथुरा के एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश से करीब 50 से लोग ट्रैक्टर-टॉली में बैठकर मथुरा आए थे। गोवर्धन सप्तकोसीय परिक्रमा करने के बाद सोमवार की सुबह वापस लौट रहे थे। तभी फरह थाना के रैपुराजाट चौकी क्षेत्र अंतर्गत आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर तेज रफ्तार एक कार ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में कार सवार पांच लोगों में से तीन की मौत हो गई है। पुलिस ने एक शव की शिनाख्त राजस्थान निवासी गोवर्धन (74) के रूप में की है। अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मुजफ्फरनगर जनपद में मंसूरपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली देहरादून हाईवे-58 पर सोमवार को एक बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में अजय और अनमोल की मौके पर मौत हो गई, जबकि रोहित ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अन्य घायलों का इलाज बेगराजपुर मेडिकल में चल रहा है।

मणिपुर हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ताजा स्थिति पर रिपोर्ट मांगी

एजेंसी। नई दिल्ली

मणिपुर में कुकी और मेइती समुदायों के बीच झड़प के बाद स्थिति में सुधार के राज्य सरकार के दावे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्वोत्तर राज्य की ताजा स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ गैर सरकारी संगठन मणिपुर ट्रिब्यूनल फोरम द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में सेना की तैनाती की मांग की गई थी। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया, स्थिति में सुधार हो रहा है लेकिन धीरे-धीरे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। कर्फ्यू को घटाकर पांच घंटे कर दिया गया है। स्थिति में सुधार हुआ है।" इसके विपरीत, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि कई उग्रवादी समूहों के नेता खुलेआम कुकियों को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रविवार की रात तीन कुकियों की हत्या कर दी गई, जिनमें एक का सिर काट दिया गया। मेहता ने गोंसाल्वेस के दावों का विरोध किया और कहा कि मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यहां वास्तविक इंसानों का मसला है। शीर्ष अदालत ने मामले को 10 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए कहा, अब हम रिपोर्ट देखेंगे और इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे।"

'गदर 2' में नाना पाटेकर देंगे अपनी आवाज

अनुभवी अभिनेता नाना पाटेकर, जो 'वेलकम', 'नटसम्राट', 'परिंदा', 'टैक्सी नंबर 9 2 11' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, अपकमिंग फिल्म 'गदर 2' का हिस्सा बनेंगे। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल लीड रोल में हैं। फिल्म की शुरूआत में ही वह दर्शकों को 'गदर 2' का परिचय देंगे। जैसे-जैसे रिलीज डेट करीब आ रही है, 'गदर 2' को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। यह फिल्म 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल है जो सिनेमाघरों में आमिर खान अभिनीत 'लगान' के साथ टकराई थी। दोनों फिल्मों का हिंदी सिनेमा पर गहरा प्रभाव पड़ा। 'लगान' ने अकादमी नामांकन में जगह बनाई, जहां यह बोस्नियाई फिल्म 'नो मैन्स लैंड' से हार गई। इससे पहले, 'गदर 2' के निमार्ताओं ने हिट ट्रैक 'उड़ जा काले कावा' का नया वर्जन जारी किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। जी स्टूडियो द्वारा निर्मित और अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 'गदर 2' में उत्कर्ष शर्मा भी हैं।

डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ चौथी बार काम करेंगे अल्लू अर्जुन

तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपकमिंग फिल्म के लिए चौथी बार निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ काम करेंगे। वह 'पुष्पाः द राइज', 'अला वैकुंठपुरमुलु', 'सरेनोडु' और कई अन्य फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। त्रिविक्रम की नैरेटिव और अल्लू अर्जुन की स्क्रीन परफॉर्मेंस बड़े पैमाने पर दर्शकों का मनोरंजन करेगी। कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास के बीच अपकमिंग अनटाइटल प्रोजेक्ट सबसे बड़े बजट में से एक है। यह फिल्म पूरे भारत में कई भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म के टाइटल, कास्ट और रिलीज डेट के बारे में अधिक जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है।

राजनीति

एनसीपी नेताओं-पदाधिकारियों को एफिडेविट के साथ बुलाया

एक्शन मोड में आए शरद पवार

एजेंसी। मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में फूट के बाद पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार एक्शन मोड में आ गए हैं। सोमवार को सातारा जिले के कराड में पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण के समाधि स्थल पर पहुंचकर शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने वालों को सबक सिखा देंगे। इसके साथ ही शरद पवार ने मुंबई स्थित यशवंत राव चव्हाण प्रतिष्ठान में 5 जुलाई को राकांपा नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शरद पवार ने सभी को एफिडेविट के साथ आने के लिए कहा है। कराड में शरद पवार के साथ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, राकांपा सांसद श्रीनिवास पाटिल विधायक मकरंद पाटिल, अतुल बेनके, बालासाहेब पाटिल, शशिकांत शिंदे, रोहित पवार उपस्थित थे। इनमें से मकरंद पाटिल, अतुल बेनके और बालासाहेब पाटिल रविवार को राजभवन में अजीत पवार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी उपस्थित थे। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ सामाजिक विनाशकारी प्रवृत्तियां उथल-पुथल की भूमिका निभा रही हैं। शरद पवार ने इन प्रवृत्तियों को उनकी जगह दिखाए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। देश और राज्य में लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अधिकारों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। इसी प्रवृत्ति के चलते प्रदेश में सांप्रदायिक झगड़े और दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। अब इस विनाशकारी सामाजिक प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है। शरद पवार ने उपस्थित लोगों से इस तरह की प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया। इस बीच, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी 5 जुलाई को ही बांद्रा में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। इसलिए 5 जुलाई को साफ हो जाएगा कि राकांपा में कौन किसके साथ है।



शरद पवार मजबूत नेता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला : लालू

पटना। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच भाजपा सहित कई अन्य विपक्षी पार्टियां भले ही बिहार में टूट का दावा कर रही हों, लेकिन राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इन सबको नकारते हुए कहा कि भाजपा घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि हमलोग एकजुट हैं। पटना में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए जब महाराष्ट्र प्रकरण को लेकर सवाल पूछा गया, तब लालू प्रसाद ने शरद पवार का समर्थन करते हुए कहा कि वो देश के मजबूत नेता हैं। इस प्रकरण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजद अध्यक्ष ने कहा कि शरद पवार की अपनी शक्ति है, भाजपा उनके सामने फेल हो जाएगी।

'अधूरा' के सेट से वापस कमरे में आने में लगता था डर : रसिका

एक्ट्रेस रसिका दुग्गल अपनी अपकमिंग हॉरर सीरीज 'अधूरा' की तैयारी कर रही हैं। एक्ट्रेस ने शेयर किया कि शो के सेट पर भयानक माहौल को देखते हुए शूटिंग के बाद जब भी वह अपने कमरे में वापस जाती थी, तो वह डर जाती थीं। सीरीज में इश्वाक सिंह, श्रेणिक अरोड़ा और पूजन छाबड़ा भी हैं और यह एक गलत रियूनियन की कहानी प्रस्तुत करता है। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, सेट पर जो भयानक माहौल था, वह मेरे पहले अनुभव से अलग था और जब भी मैं शूटिंग के बाद कमरे में वापस आती थी, तो मैं डर जाती था। सस्पेंस भरी स्टोरी और इमर्सिव प्रोडक्शन डिजाइन का मुझ पर गहरा असर पड़ा। एक एक्टर के रूप में, मुझे अपने किरदार के प्रति गर्व है, लेकिन 'अधूरा' इसे दूसरे लेवल पर ले गया।" उन्होंने आगे कहा, ऐसे मोमेंट्स थे जब फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन ब्लर हो गई, जिससे कैमरे के बंद होने पर भी मुझे बेचैनी का एहसास होने लगा। यह कहानी कहने और पूरी टीम के समर्पण का नतीजा है। जब दर्शक 'अधूरा' देखेंगे, तब मैं रोमांच को महसूस करने का इंतजार नहीं कर सकती।" एम्मे एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और अनन्या बनर्जी और गौरव के. चावला द्वारा निर्देशित, सीरीज में रिजुल रे, जोआ मोरानी, साहिल सलाथिया, अरु कृष्ण वर्मा, रसिका दुग्गल, श्रेणिक अरोरा और राहुल देव महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।